

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च 2017—फाल्गुन 19, शक 1938

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,  
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रब्रह्म समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद् में पुरस्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद् के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2017

क्र. ई-5-863-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, भाप्रसे की दोनों अवकाश अवधि में उनके कार्य का प्रभार श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

- दिनांक 20 फरवरी से 6 मार्च 2017 तक, पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश।
- दिनांक 22 मार्च से 31 मार्च 2017 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश।

(2) श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, भाप्रसे की दोनों अवकाश अवधि में उनके कार्य का प्रभार श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापत्र संचालक, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, भाप्रसे द्वारा संचालक, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती पल्लवी जैन गोविल उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री कृष्ण गोपाल तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कृष्ण गोपाल तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-959-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री फ्रेंक नोबल ए., आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, सीहोरा, जिला जबलपुर को दिनांक 23 जनवरी से 6 फरवरी 2017 तक, पंद्रह दिन का पितॄत्व अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री फ्रेंक नोबल ए. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फ्रेंक नोबल ए. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2017

क्र. ई-1-2-2012-5-एक.—श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा को भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015/13/2012-AIS (I)-B, दिनांक 8 अक्टूबर 2013 से भाप्रसे में नियुक्ति प्रदान करते हुए उन्हें आवंटन वर्ष 2003 आवंटित किया गया है। श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा, भाप्रसे (2003), अंपर आयुक्त (राजस्व), नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद, भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त आवंटन वर्ष 2003 से 09 वर्ष की सेवा दिनांक 1 जनवरी 2012 को पूर्ण करने पर भाप्रसे के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के लिए अहं हो गए हैं।

(2) अतः राज्य शासन श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा भाप्रसे (2003) को उनकी भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति दिनांक 8 अक्टूबर 2013 से भाप्रसे आवंटन वर्ष 2003 में उनसे कनिष्ठ श्री पन्नालाल सोलंकी भाप्रसे (2003) को दिनांक 8 अक्टूबर 2013 से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान-बैण्ड पे (रुपये 15,600—39,100+ग्रेड पे 7,600) स्वीकृत करता है।

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2017

क्र. ई-1-45-2017-5-एक.—श्री एम. के. सिंह, भाप्रसे (1985), सदस्य राजस्व मंडल, ग्वालियर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री एम. के. सिंह, भाप्रसे (1985) द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची में सम्मिलित सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

(3) श्री शिवानन्द दुबे, भाप्रसे (1996), कमिशनर, चंबल संभाग, मुरैना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, सदस्य राजस्व मंडल, ग्वालियर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2017

क्र. ई-5-761-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती सूरज डामोर, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 8 से 24 दिसम्बर 2016 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती सूरज डामोर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सूरज डामोर अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-766-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री शोभित जैन, आयएएस., श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर को दिनांक 13 से 28 जनवरी 2017 तक, सोलह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री शोभित जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शोभित जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-970-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री गिरीश कुमार मिश्रा, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, शुजालपुर जिला शाजापुर को दिनांक 30 जनवरी से 9 फरवरी 2017 तक ग्यारह दिन का पितॄत्व अवाकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 जनवरी 2017 एवं 10, 11, 12 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री गिरीश कुमार मिश्रा, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अनुविभागीय अधिकारी, शुजालपुर, जिला शाजापुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री गिरीश कुमार मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गिरीश कुमार मिश्रा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-989-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री आशीष सक्सेना, आयएएस, कलेक्टर जिला झाबुआ को दिनांक 6 से 10 मार्च 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 तथा 11, 12 मार्च 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री आशीष सक्सेना, भाप्रसे अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अनुराग चौधरी, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष सक्सेना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन कलेक्टर, जिला झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आशीष सक्सेना, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला झाबुआ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनुराग चौधरी, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आशीष सक्सेना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष सक्सेना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2017

क्र. ई-1-47-2017-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती नीलम शमी राव (1992), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत, एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्करण, भोपाल।	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण (अतिरिक्त प्रभार)।
2	श्री व्ही. के. बाथम (1992) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग संसदीय कार्य विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण (अतिरिक्त प्रभार)।	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत, एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग।

(2) श्री रघुराज एम.आर., भाप्रसे (2004), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्करण विकास प्राधिकरण, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-606-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री पंकज अग्रवाल, आयएएस, प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग को दिनांक 14 से 25 फरवरी 2017 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री पंकज अग्रवाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री राधेश्याम जुलानिया, भाप्रसे विकअ-सह-विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री पंकज अग्रवाल, द्वारा प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राधेश्याम जुलानिया, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री पंकज अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2017

क्र. ई-5-686-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री फैज अहमद किंदवई, आयएएस, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को दिनांक 17 से 22 फरवरी 2017 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री फैज अहमद किंदवई, आयएएस के अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री फैज अहमद किंदवई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा आयुक्त, खाद्य, नागरिक

आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री फैज अहमद किदवई द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री फैज अहमद किदवई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फैज अहमद किदवई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-691-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती दीपिं गौड़ मुकर्जी, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को निम्नानुसार चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 3 से 10 मार्च 2017 तक, आठ दिन, दिनांक 11, 12, 13 मार्च 2017 के सार्वजनिक अवकाश की अनुमति सहित।

2. दिनांक 27 मार्च 2017 से 1 अप्रैल 2017 तक, छः दिन, दिनांक 26 मार्च 2017 एवं दिनांक 2 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश की अनुमति सहित।

(2) श्रीमती दीपिं गौड़ मुकर्जी, की दोनों अवकाश अवधि में सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग का प्रभार श्री बी.आर. नायडू, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, श्रम विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपिं गौड़ मुकर्जी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती दीपिं गौड़ मुकर्जी द्वारा सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी.आर. नायडू, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती दीपिं गौड़ मुकर्जी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपिं गौड़ मुकर्जी अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती।

क्र. ई.-5-830-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री भोंडवे संकेत शांताराम, आयएएस., कलेक्टर, जिला उज्जैन को दिनांक 19 से 31 मई 2017 तक, तेरह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री भोंडवे संकेत शांताराम की अवकाश अवधि में श्री आशीष सिंह, भाप्रसे, आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला उज्जैन को सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री भोंडवे संकेत शांताराम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन कलेक्टर, जिला उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री भोंडवे संकेत शांताराम द्वारा कलेक्टर, जिला उज्जैन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आशीष सिंह, कलेक्टर, जिला उज्जैन के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री भोंडवे संकेत शांताराम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भोंडवे संकेत शांताराम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-843-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री नीरज दुबे, आयएएस., आयुक्त, लोक शिक्षण, को दिनांक 17 से 28 अप्रैल 2017 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15, 16 एवं 29, 30 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री नीरज दुबे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री लोकेश कुमार जाटव, संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन अपर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन आयुक्त, लोक शिक्षण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री नीरज दुबे द्वारा आयुक्त, लोक शिक्षण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री लोकेश कुमार जाटव, आयुक्त, लोक शिक्षण के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री नीरज दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-874-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती प्रीति मैथिल, आयएएस., (2009) कलेक्टर, मण्डला को दिनांक 6 से 15

फरवरी 2017 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती प्रीति मैथिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रीति मैथिल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-888-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, आयुक्त, नगर पालिक निगम, रीवा को दिनांक 25 फरवरी से 4 मार्च 2017 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 फरवरी एवं 5 मार्च 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री कर्मवीर शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन आयुक्त, नगर पालिक निगम, रीवा के पद पर पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री कर्मवीर शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कर्मवीर शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2017

क्र. ई-1-56-2017-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

### तालिका

क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

(1)

(2)

नवीन पदस्थापना

खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(4)

1 श्री नीतेश कुमार व्यास (1996)  
आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.

आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का अतिरिक्त प्रभार।

2 श्री विवेक पोरवाल (2000)  
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सढ़क विकास प्राधिकरण, भोपाल।

संभागीय कमिशनर

(1)	(2)	(3)	(4)
3	श्री एम. सेलेवन्द्रन (2002) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन का अतिरिक्त प्रभार.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी, भोपाल.	अपर सचिव, म. प्र. शासन
4	श्री रघुराज एम.आर. (2004) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी परिषद् एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल का अतिरिक्त प्रभार.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन का अतिरिक्त प्रभार.	अपर सचिव, म. प्र. शासन
5	श्रीमती जी.वी. रश्मि (2005) संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् तथा संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

(2) उपरोक्तानुसार श्री नीतेश कुमार व्यास द्वारा आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री फैज अहमद किदवर्डी, भाप्रसे (1996), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का अतिरिक्त प्रभार, केवल आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2017

क्र. ई.-1-7-2017-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 13017-51-2016-AIS -I, दिनांक 1 फरवरी 2017 द्वारा श्रीमती सलोनी सिडाना, भाप्रसे (2014) की सेवाएं आन्ध्र प्रदेश संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित की गई हैं।

(2) श्रीमती सलोनी सिडाना को मध्यप्रदेश में पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक, राजस्व संबंधी विषयों पर दो सप्ताह के संक्षिप्त प्रशिक्षण के लिये आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में संबद्ध किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव,

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2017

फा. क्र. 3(ए)01-2017-इक्कीस-ब(एक)-510.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन एतद्वारा निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी), को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम-5(1)(ए) के अन्तर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) वेतनमान रूपये 51550-1230-58930-1380-63070 के पद पर स्थानापन रूप से नियुक्त करता है:—

1. श्री उदय सिंह मरावी, IC.J.CI-I & CJM, अनूपपुर
2. श्री धनराज दुबेला, IC.J.CI-I & CJM, , भिण्ड
3. श्री आलोक कुमार सक्सेना, IC.J.CI-I & CJM, रत्लाम

4. श्री आलोक कुमार शर्मा, ( Jr. 2,) सचिव, जिला विधिक सहायता अधिकरण (DLSA), मुरैना.
5. श्री विकास चन्द्र मिश्रा, IC.J.CI-I & CJM, जबलपुर
6. श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव, IC.J.CI-I & CJM, रीवा
7. श्री जयशंकर श्रीवास्तव IC.J.CI-I & CJM, उमरिया
8. श्री मसूद अर्शद खॉन, IC.J.CI-I & CJM, मंदसौर
9. श्री बलराम यादव, IC.J.CI-I & CJM, पन्ना
10. श्री शिव बालक साहू सचिव, जिला विधिक सहायता अधिकरण (DLSA), जबलपुर.
11. श्री मुकेश कुमार दांगी, IC.J.CI-I & CJM, रायगढ़
12. श्री सुधीर कुमार, IC.J.CI-I & CJM, श्योपुर
13. श्री प्रिवेन्द्र कुमार सेन, सचिव, जिला विधिक सहायता अधिकरण (DLSA), देवास.
14. श्री देवीलाल सोनिया, IC.J.CI-I & CJM, शिवपुरी
15. श्री विक्रम सिंह बुले, सचिव, जिला विधिक सहायता अधिकरण (DLSA), खण्डवा.
16. श्री जयदीप सिंह, IC.J.CI-I & CJM, बैतूल
17. श्रीमती नीतू कांता वर्मा, IC.J.CI-I & CJM, टीकमगढ़
18. श्री अखिलेश कुमार धाकड़, IC.J.CI-I & CJM, शाजपुर.
19. श्री राजकुमार वर्मा, IC.J.CI-I & CJM, धार
20. श्री राजेश कुमार रावेल्कर, IC.J.CI-I & CJM, छिन्दवाड़ा
21. श्री राजेश नंदेश्वर, IC.J.CI-I & CJM, बुरहानपुर
22. श्री मनोज कुमार लाधिया, IC.J.CI-I & CJM, सिवनी
23. श्री रतन कुमार वर्मा, IC.J.CI-I & CJM, हरदा
24. श्री मुकेश कुमार, IC.J.CI-I & CJM, छतरपुर
25. श्री अंतर सिंह अलवा, IC.J.CI-I & CJM, झावुआ
26. श्री अशोक कुमार सोंधिया, IC.J.CI-I & CJM, मंडला.
27. श्री भूबस्कर यादव, IC.J.CI-I & CJM, भोपाल
28. श्री अरबिंद कुमार (जैन), सचिव, जिला विधिक सहायता अधिकरण (DLSA), सागर.
29. श्री अरूण प्रताप सिंह, IC.J.CI-I & CJM, कटनी
30. श्री मुन्नालाल राठौर, IC.J.CI-I & CJM, मुरैना
31. श्री शैफी दाउदी, IC.J.CI-I & CJM, अशोक नगर
32. श्रीमती शशी सिंह, IC.J.CI-I & CJM, विदिशा
33. श्री तेजिन्दर सिंह अजमानी, IC.J.CI-I & CJM, इन्दौर
34. श्री संजय कुमार जैन, सचिव, जिला विधिक सहायता अधिकरण (DLSA), ग्वालियर.
35. श्रीमती निहारिका सिंह, IC.J.CI-I & CJM, होशंगाबाद
36. श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, IC.J.CI-I & CJM, देवास

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2017

फा. क्र. 17(ई)51-2005-इकीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारीगण की सेवाएं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक 5-4-2013-उन्तीस-2, दिनांक 27 जनवरी 2017 द्वारा उनकी नियुक्ति जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष के पद पर प्रतिनियुक्ति पर किये जाने के फलस्वरूप अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन को सौंपता है:—

क्र.	नाम व पद	प्रतिनियुक्ति की पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)
1	श्री आलोक अवस्थी, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, के अतिरिक्त न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, भोपाल क्रमांक-1.
2	श्री हृदेश, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, बैतूल.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, जबलपुर क्रमांक-1.

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2017

फा. क्र. 17(ई)43-2009-इक्कीस-ब(एक)-463-2017.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)16, दिनांक 10 मई 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 24 और 83 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

#### सारणी

अनु.- क्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल ज़िले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"24.	श्री सुरेन्द्र सिंह गुर्जर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	देवास	देवास	देवास	देवास
83.	श्री दिनेश कुमार प्रजापति, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	विदिशा	विदिशा	विदिशा	विदिशा

F. No. 17(E)43-2009-XXI-B(1)-463-2017.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)43-2009-2251-XXI-B(I)-16, dated 10<sup>th</sup> May, 2013, namely :—

#### AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial numbers 24 and 83 and entries relating thereto, the following serial numbers, and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

#### TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"24.	Shri Surendra Singh Gurjar, IIInd Civil Judge, Class-I.	Dewas	Dewas	Dewas	Dewas
83.	Shri Dinesh Kumar Prajapati, IIInd Civil Judge, Class-II.	Vidisha	Vidisha	Vidisha	Vidisha

फा. क्र. 17(ई)44-2013-इक्कीस-ब(एक)-766-2017.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1)3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 27 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

#### सारणी

क्रमांक	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)
“27.	रायसेन	श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रायसेन”.

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

F. No. 17 (E)-44-2013-XXI-B-(1)766-2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification F-No. B (1) 3476-2013, dated 11th September 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1 dated 20th September 2013, namely:—

#### AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial numbers 27 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

#### TABLE

S. No.	Name of District	Name & Designation of the Judge
(1)	(2)	(3)
“27	Raisen	Smt. Trupti Sharma, 1 <sup>st</sup> Additional Sessions Judge, Raisen.”

(2) This amendment shall come into force from the date on which the Judge, as specified in this Notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब (एक)-756-2017.—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-अ (एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 21 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

#### सारणी

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम	विशेष न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)
“21.	श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रायसेन।	रायसेन	रायसेन।”

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

F. No. 1-6-89-XXI-B(1) -756-2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, in consultation with the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification No. F. 1-6-89-XXI-A (1), dated 3rd April 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1 dated the 17th April 1998, namely :—

#### AMENDMENTS

In the said Notification, in the Schedule, for serial number 21 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S.No.	Name and designation of the Judge	Special Court	Local area Session Divisions
(1)	(2)	(3)	(4)
"21.	Shri Trupti Sharma, 1 <sup>st</sup> Additional Sessions Judge, Raisen.	Raisen	Raisen."

(2) This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

करता हैः—

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2017

पंजी क्र. 3732-2016-इकाइस-ब(दो).—राज्य शासन, तहसील-अंजड़, जिला-बड़वानी में नियुक्त नोटरी, श्री सुरेन्द्र सिंह यादव का दिनांक 28 जनवरी 2015 को स्वर्गावास होने के फलस्वरूप, मृतक के नोटरी नियुक्त आदेश दिनांक 1 जुलाई 2008 एवं नवीनीकरण आदेश दिनांक 1 जुलाई 2013 को अपास्त करते हुए श्री सुरेन्द्र सिंह यादव का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. सोनी, अपर सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2017

क्र. 1770-2015-बी-ग्याह.—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंहपुर के वाष्ययंत्र क्रमांक एमपी/4672 के स्टीमिंग लायसेंस की वैधता अवधि बढ़ाये जाने को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से वाष्ययंत्र क्रमांक एमपी/4672 के प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि में दिनांक 1 मार्च 2017 से 30 जून 2017 तक छूट प्रदान

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा-18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समझी जावेगी।
  2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा-02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।
  3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी।
  4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा।
  5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम-6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी।
  6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है।
- मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शालिनी सिंहा, अवर सचिव.

## ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2017

क्र. 1211 एफ-3-23-2011-तेरह.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-56-2017-5-एक, दिनांक 23 फरवरी 2017 के अनुसरण में राज्य शासन, एतद्वारा श्री एम. सेलवेन्ड्रन (2002) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. धारीबाल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, गुना, मध्यप्रदेश

गुना, दिनांक 6 दिसम्बर 2016

क्र. 654-स्था.निर्वा.-मंडी उप निर्वा.-2016.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, गुना के वार्ड क्रमांक 03 के उपनिर्वाचन 2016 में निम्नानुसार प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं :—

क्रमांक	निर्वाचित सदस्य का नाम	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री चन्द्रप्रकाश	कृषक सदस्य	ग्राम पिपरोदा खुर्द, तहसील व जिला गुना

राजेश जैन, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी।

## श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश

518, न्यू मोती बंगला, एम.जी.रोड, इन्दौर—452 007

इन्दौर, दिनांक 3 फरवरी 2017

क्र. 1-2-नवम (1)86.—मैं, शोभित जैन, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग के आदेश क्रमांक 473/7258/सोलह, दिनांक 24 जनवरी, 1961 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्न सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में दर्शाये गये श्रम निरीक्षक को इसी सारणी के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्रों के लिये “निरीक्षकों को” नियुक्त करता हूँ :—

### सारणी

क्रमांक	निरीक्षक का नाम	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती कल्पना बागे	
2	श्री आर. एस. लोण्डे	
3	श्री सुनील सप्रे	
4	श्री एस. के. नायक	
5	श्री गनपतसिंह जाटव	
6	श्री के. एम. मोरे	
7	श्री रत्नराज बहादुर	
8	श्री बद्रीलाल खराडिया	
9	श्री प्रदीपकुमार श्रीवास्तव	
10	श्री आशुतोष सिंह	

पदस्थापना के कार्यालय में स्थित स्थानीय क्षेत्रों एवं उसमें स्थित सभी प्रकार के संस्थानों तथा श्रमायुक्त द्वारा अधिकृत किये जाने पर अन्य क्षेत्रों के लिये किन्तु यह क्षेत्राधिकार मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना (संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 41 (3) के अध्यधीन होगा।

शोभित जैन, श्रम आयुक्त।

## मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

76, अरेरा हिल्स, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2017

क्र. 311-245-दस.—मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 5-5-2014-उन्नीस-2, भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2015 के द्वारा भोपाल तथा जबलपुर जिला मुख्यालय पर एक-एक अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम का गठन किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 24(बी) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम का नाम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:—

### भोपाल :

(1) जिला उपभोक्ता फोरम कार्यालय, जो वर्तमान में 76, अरेरा हिल्स, भोपाल पर संचालित है, वह एतस्मिन पश्चात् जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम भोपाल क्रमांक 1 के नाम से संबोधित किया जायेगा।

(2) अतिरिक्त जिला उपभोक्ता फोरम कार्यालय, जो प्लॉट नं. 15ए-15बी, अप्सरा टॉकीज के पास, रायसेन रोड, भोपाल में संचालित होगा, वह जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम भोपाल क्रमांक-2 के नाम से संबोधित किया जायेगा।

### जबलपुर :

(1) जिला उपभोक्ता फोरम कार्यालय, जो वर्तमान में ब्लॉक नं. 15-क, सिविक सेंटर, मढ़ाताल जबलपुर पर संचालित है, वह एतस्मिन पश्चात् जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम जबलपुर क्रमांक-1 के नाम से संबोधित किया जायेगा।

(2) अतिरिक्त जिला उपभोक्ता फोरम कार्यालय, जो ब्लॉक क्र. 8, द्वितीय तल, राज एक्सप्रेस के ऊपर सिविक सेंटर जबलपुर पर संचालित होगा, वह जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम जबलपुर क्रमांक-2 के नाम से संबोधित किया जायेगा।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 24(बी) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम भोपाल क्रमांक-1 एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम क्रमांक-2 के मध्य उपभोक्ता प्रकरणों के संस्थापन हेतु प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का विभाजन दिनांक 13 फरवरी 2017 से निम्नानुसार किया जाता है:—

### भोपाल :

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम भोपाल क्रमांक-1

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम भोपाल क्रमांक-1 का क्षेत्रीय अधिकारिता क्षेत्र सम्पूर्ण भोपाल जिले का भौगोलिक क्षेत्र होगा।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम भोपाल क्रमांक-2

समय-समय पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम भोपाल क्रमांक-1 से अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 24(बी) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम जबलपुर क्रमांक-1 एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम क्रमांक-2 के मध्य उपभोक्ता प्रकरणों के संस्थापन हेतु प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का विभाजन दिनांक 23 फरवरी 2017 से निम्नानुसार किया जाता है:—

### जबलपुर :

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम जबलपुर क्रमांक-1

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम जबलपुर क्रमांक-1 का क्षेत्रीय अधिकारिता क्षेत्र जबलपुर नगर निगम के भौगोलिक क्षेत्र को छोड़कर जबलपुर जिले में आने वाले भौगोलिक क्षेत्र होगा।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम जबलपुर क्रमांक-2

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम जबलपुर क्रमांक-2 का क्षेत्रीय अधिकारिता क्षेत्र जबलपुर नगर निगम का भौगोलिक क्षेत्र होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य आयोग के आदेशानुसार,  
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार,

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

**कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.**

11565  
09/02/17

### —: अनुसूची :—

(अंतर्गत धारा—19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पिपल्याकुमार तालाब सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम पीपल्या, टोडरी के लिए नहर डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा—19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### —: अनुसूची :—

**पिपल्याकुमार तालाब की नहर में प्रभावित भूमि का भू—अर्जन ग्राम पीपल्या**

स.क्र.	भू—स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
1	मांगीलाल, पारीबाई पिता पूरजी जाति दांगी नि. ग्राम भूमि स्वामी	1/4	1.012	0.000	0.240	0.240
	योग:-	1	1.012	0.000	0.240	0.240
2	भंवरीबाई पिता मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भूमि स्वामी	1/3/1	0.253	0.000	0.050	0.050
	योग:-	1	0.253	0.000	0.050	0.050
3	प्रभूलाल, मदनलाल, धापूबाई, केसरबाई, रुकमाबाई सोरमबाई पिता देवजी जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/3/2	0.759	0.000	0.150	0.150
	योग:-	1	0.759	0.000	0.150	0.150
4	मोतीलाल, किशनलाल, बद्रीलाल, सरदारबाई, दरयावबाई पिता दोला जाति दांगी नि.ग्राम भूमि स्वामी	1/2	1.012	0.000	0.184	0.184
	योग:-	1	1.012	0.000	0.184	0.184
5	शिवसिंह पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	7/3	0.889	0.000	0.300	0.300
	योग:-	1	0.889	0.000	0.300	0.300
6	रतन पिता भेरु जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7/5	0.169	0.000	0.050	0.050
	योग:-	1	0.169	0.000	0.050	0.050
7	मानसिंह पिता केशरजी जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	13	1.126	0.000	0.090	0.090
	योग:-	1	1.126	0.000	0.090	0.090
	ग्राम पिपल्या का महायोग :-	7	5.220	0.000	1.064	1.064

क्र.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रक्खा	सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
पिपल्याकुमार तालाब की नहर में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन ग्राम टोडरी						
1	मांगीलाल पिता भेरजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	186/1	0.506	0.000	0.104	0.104
	योग:-	1	0.506	0.000	0.104	0.104
2	नारायणसिंह पिता नाथूलाल जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	186/2	0.683	0.000	0.120	0.120
		185/1/2	0.183	0.000	0.024	0.024
	योग:-	2	0.866	0.000	0.144	0.144
3	मांगीलाल पिता नाथूलाल जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	185/1/1	0.449	0.000	0.060	0.060
		171/1/2	0.278	0.000	0.100	0.100
		156/1	0.506	0.000	0.084	0.084
		156/2	0.506	0.000	0.084	0.084
		185/2	0.848	0.000	0.120	0.120
	योग:-	5	2.587	0.000	0.448	0.448
4	बालूसिंह पिता हिन्दूसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	183/1	0.519	0.000	0.100	0.100
		183/3	0.126	0.000	0.020	0.020
	योग:-	2	0.645	0.000	0.120	0.120
5	प्रेमसिंह पिता प्यारजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	183/2	1.011	0.000	0.200	0.200
		183/4	0.279	0.000	0.060	0.060
	योग:-	2	1.290	0.000	0.260	0.260
6	मेहरवानसिंह पिता हिन्दूसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	183/5	0.126	0.000	0.020	0.020
		183/6	0.519	0.000	0.100	0.100
	योग:-	2	0.645	0.000	0.120	0.120
7	लाखन पिता नारायणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	182/1	0.759	0.000	0.096	0.096
	योग:-	1	0.759	0.000	0.096	0.096
8	रामलाल पिता चैनाजी जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	182/2	0.759	0.000	0.096	0.096
		155/1	0.085	0.000	0.040	0.040
	योग:-	2	0.844	0.000	0.136	0.136
9	निर्भयसिंह पिता गंगाराम सौंधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	171/1/1	0.048	0.000	0.020	0.020
	योग:-	1	0.048	0.000	0.020	0.020
10	धीरपसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	171/2	0.329	0.000	0.120	0.120
	योग:-	1	0.329	0.000	0.120	0.120
11	धीरपसिंह पिता रामलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	157/1	0.885	0.000	0.132	0.132
	योग:-	1	0.885	0.000	0.132	0.132

क्र.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकमा	सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
12	अमृतलाल पिता नारायणसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि ख्वामी	157/2 155/2	0.885/ 0.089	0.000 0.000	0.132/ 0.048	0.132/ 0.048
	योग:-	2	0.974	0.000	0.180	0.180
13	धापूबाई पिता रत्नलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भूमि ख्वामी	156/3	0.316	0.000	0.060	0.060
	योग:-	1	0.316	0.000	0.060	0.060
14	मांगीलाल,नारायणसिंह पिता नाथूलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भूमि ख्वामी	156/4	0.253	0.000	0.040	0.040
	योग:-	1	0.253	0.000	0.040	0.040
	ग्राम टोड़री का महायोग:-	24	10.947	0.000	1.980	1.980

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजगढ़) राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

11682  
15/02/17.

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2015-2016

राजगढ़ दिनांक .....

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास से और पुनर्वर्वथापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन् 2013) चौंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम लाडनपुर के लिए झूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वथापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## —: अनुसूची :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के झूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :— ग्राम लाडनपुर

सं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	7
1✓	अनारसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	127/332/2/2	0.518	0.518
		188/2	0.050	0.050
		189/2	0.835	0.835
		198/2	0.007	0.007
		200/2	0.228	0.228
		219/2	0.025	0.025
	योग	6	1.663	1.663 ✓
2✓	अर्जनसिंह पिता मोडसिंह राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी	218	0.278	0.278
		231	0.038	0.038
		233	0.089	0.089
		235	0.025	0.025
	योग	4	0.430	0.430 ✓
3✓	इन्द्रसिंह, अनोख सिंह पिता पर्वतसिंह मु पेपकुंवर बेवा पर्वतसिंह राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी	155/334/1	0.582	0.582
		169	0.304	0.304
		169/338	0.076	0.076
	योग	3	0.962	0.962 ✓
4✓	अनोखबाई पति गजराज सिंह लबाला नि. ग्राम भू-स्वामी	9/1/4	0.822	0.822
		1	0.822	0.822 ✓
5✓	उंकारसिंह पिता कोकसिंह राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी	251/1	0.063	0.063
		301/2/1	0.084	0.084
	योग	2	0.147	0.147 ✓

सं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकवा	प्रभावित रकवा
	2	3	4	7
1	कमल सिंह पिता उमरावसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	196/4/2 211/3 226/1/1 227/2 230/4 279/2/3	0.196 0.084 0.076 0.025 0.022 0.079	0.196 0.084 0.076 0.025 0.022 0.079
	योग	6	0.482	0.482 ✓
2	कनीराम पिता मुन्नालाल बंजारा नि. ग्राम भू-स्वामी	299/6	0.069	0.069
	योग	1	0.069	0.069 ✓
3	कुमरसिंह पिता अर्जुनसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	110/2/2 234 236/1 255/1 256/1 176/3/1 280/2/1	0.034 0.063 0.007 0.026 0.007 1.687 0.408	0.034 0.063 0.007 0.026 0.007 1.687 0.408
	योग	7	2.232	2.232 ✓
4	कालुसिंह पिता दंवीसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	286/1/1	0.999	0.999
	योग	1	0.999	0.999 ✓
5	गोर्खनसिंह पिता उमरावसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	279/2/1	0.078	0.078
	योग	1	0.078	0.078 ✓
6	गोर्खनसिंह हिन्दुसिंह प्रेमसिंह विजयसिंह कमलसिंह पिता उमरावसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	279/2/6	0.025	0.025
	योग	1	0.025	0.025 ✓
7	गंगाबाई पति रतनलाल सौंदर्या नि. ग्राम भू-स्वामी	9/1/1/1 9/335/2	2.426 0.493	2.426 0.493
	योग	2	2.919	2.919 ✓

सं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकमा	प्रभावित रकमा
	2	3	4	7
1	गोपीलाल मांगीलाल पिता उमेदराम सौंध्या नि. ग्राम भू-स्वामी	3/337/2 223 224 225/1 242 243 244 245 246	1.580 0.101 0.076 0.236 0.013 0.215 0.038 0.304 0.076	1.580 0.101 0.076 0.236 0.013 0.215 0.038 0.304 0.076
12	योग	9	2.639	2.639 ✓
14	गोपीलाल पिता मुन्नालाल बंजारा नि. ग्राम भू-स्वामी	299/4	0.070	0.070
15	योग	1	0.070	0.070 ✓
15	ग्यारसीराम शम्भु पिता धीसा चमार नि. ग्राम भू-स्वामी	278/1/2	0.500	0.500
16	योग	1	0.500	0.500 ✓
16	गुमान कुँवर पति अनार सिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	127/332/1/1 188/1 189/1 198/1 200/1 219/1	0.455 0.051 0.742 0.006 0.227 0.026	0.455 0.051 0.742 0.006 0.227 0.026
17	योग	6	1.507	1.507 ✓
17	ग्यारसीराम पिता धीसा चमार नि. ग्राम भू-स्वामी	250 254/1	0.013 0.038	0.013 0.038
18	योग	2	0.051	0.051 ✓
18	चेनसिंह पिता प्यारजी सौंध्या नि. ग्राम भू-स्वामी	258/2 260/3	0.026 0.076	0.026 0.076
19	योग	2	0.102	0.102 ✓
19	छगनलाल जीतमल पिता भागमल रहैला नि. ग्राम भू-स्वामी	203	0.316	0.316
	योग	1	0.316	0.316 ✓

सं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकम	प्रभावित रकम
1	2	3	4	7
20	छोगमल पिता मुन्नालाल रहैला नि. ग्राम भू-स्वामी	109/1/3	0.015	0.015
		124/5/6	0.021	0.021
		132/326/1/4	0.157	0.157
		194/2/2	0.011	0.011
		206/3/2	0.021	0.021
		270/4	0.260	0.260
		272/2/2	0.090	0.090
		272/340/2/4	0.442	0.442
	योग	8	1.017	1.017 ✓
21	चमाबाई पिता गोरीलाल कमला बाई सोरमबाई पिता गोरीलाल खुशीलाल पिता कनीराम रहैला नि. ग्राम भू-स्वामी	2/2	1.300	1.300
	योग	1	1.300	1.300 ✓
22	जगदीशसिंह पिता हरिसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	284/3	0.300	0.300
	योग	1	0.300	0.300 ✓
23	दिलीपसिंह पिता अर्जुनसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	110/2/1	0.034	0.034
		176/3/2	2.879	2.879
		236/2	0.006	0.006
		255/2	0.025	0.025
		256/2	0.006	0.006
		280/2/2	0.408	0.408
	योग	6	3.358	3.358 ✓
24	दरियावसिंह पिता मुन्नालाल रहैला नि. ग्राम भू-स्वामी	109/1/1	0.016	0.016
		124/5/2	0.021	0.021
		194/2/7	0.011	0.011
		206/3/7	0.021	0.021
		270/7	0.261	0.261
		272/2/7	0.090	0.090
		272/340/2/7	0.443	0.443
	योग	7	0.863	0.863 ✓

सं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकमा	प्रभावित रकमा
	2	3	4	7
1	दिनेश महेश पिता नरसंग रुहेला नि. ग्राम भू-स्वामी	108/2 193/4 194/1 124/3	0.057 0.079 0.063 0.042	0.057 0.079 0.063 0.042
25	योग	4	0.241	0.241
26	दत्तात्रेय टंडन पिता फततुलाला छीपा राम रुहेला नि. ग्राम भू-स्वामी	301/2/2	0.085	0.085
	योग	1	0.085	0.085
27	धीरपसिंह पिता रत्तीराम रुहेला नि. ग्राम भू-स्वामी	189/3/1	0.085	0.085
	योग	1	0.085	0.085
28	धीरपसिंह पिता प्यारजी सौंध्या नि. ग्राम भू-स्वामी	257/1 260/4 261	0.025 0.076 0.126	0.025 0.076 0.126
	योग	3	0.227	0.227
29	नानजी पिता मुन्ना लाल रुहेला नि. ग्राम भू-स्वामी	109/1/8 124/5/1 194/2/8 206/3/8 270/5 272/2/5 272/340/2/5	0.016 0.022 0.012 0.021 0.261 0.090 0.443	0.016 0.022 0.012 0.021 0.261 0.090 0.443
	योग	7	0.865	0.865
30	नारायण सिंह पिता प्यारजी सौंध्या नि. ग्राम भू-स्वामी	257/3 260/1	0.026 0.076	0.026 0.076
	योग	2	0.102	0.102
31	नोरंग बाई पति गोपीलाल सौंध्या नि. ग्राम भू-स्वामी	9/335/4 9/336	0.247 0.506	0.247 0.506
	योग	2	0.753	0.753

सं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकमा	प्रभावित रकमा
	2	3	4	7
1	पुनमचंद पिता रत्तीराम रहेला नि. ग्राम भू-स्वामी	108/1 124/2 189/3/2 193/3	0.057 0.043 0.008 0.142	0.057 0.043 0.008 0.142
32	योग	4	0.250	0.250
33	प्रभु पिता चेना भोपा नि. ग्राम भू-स्वामी	202/2	0.011	0.011
34	योग	1	0.011	0.011
	प्रेमसिंह पिता उमरावसिंह अनार बाई बेवा उमरावसिंह राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी	211/2 226/1/3 227/3 230/3 279/2/4 196/4/1	0.084 0.076 0.025 0.022 0.078 0.069	0.084 0.076 0.025 0.022 0.078 0.069
	योग	6	0.354	0.354
35	प्रेमसिंह पिता ग्यारसीराम चमार नि. ग्राम भू-स्वामी	278/1/1 278/4/1 278/5/2 278/8/2 289/1/1 289/1/3	0.500 0.250 0.250 0.192 0.050 0.050	0.500 0.250 0.250 0.192 0.050 0.050
	योग	6	1.292	1.292
36	प्रेमसिंह अमृतसिंह पिता देवीलाल काली बाई वि. देवीलाल नाई नि. ग्राम भू-स्वामी	106 110/1	0.063 0.085	0.063 0.085
	योग	2	0.148	0.148
37	बाबुलाल पिता रत्तीराम रहेला नि. ग्राम भू-स्वामी	127/332/1/2	0.443	0.443
	योग	1	0.443	0.443
38	बंशीलाल पिता प्यारजी सौंध्या नि. ग्राम भू-स्वामी	258/1 260/2	0.025 0.076	0.025 0.076
	योग	2	0.101	0.101

सं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकमा	प्रभावित रकमा
1	2	3	4	7
20	बापुलाल पिता प्यारजी सौंदर्या नि. ग्राम भू-स्वामी	257/2 259	0.025 0.076	0.025 0.076
40	योग	2	0.101	0.101
41	बापु पिता नाथु चमार नि. ग्राम भू-स्वामी	12/1/1 277/2	0.999 0.531	0.999 0.265
	योग	1	1.530	1.264
	विहारीलाल प्रेमसिंह भारतसिंह गजराजसिंह पिता जगन्नाथ मु जानकी बाई वि. जगन्नाथ रुहेला नि. ग्राम भू-स्वामी	272/1	12.026	12.026
	योग	1	12.026	12.026
42	भंवरलाल छगनलाल जीत जीतमल पिता भागमल रुहेला नि. ग्राम भू-स्वामी	50/1 55 109/2 123 124/6 125 206/1 213 267/1 268/3 269/2 271 132/326/2	0.019 0.873 0.026 0.076 0.092 0.557 0.247 0.240 2.276 3.542 1.518 1.480 0.379	0.019 0.873 0.026 0.076 0.092 0.557 0.247 0.240 2.276 3.542 1.518 1.480 0.379
	योग	13	11.325	11.325
43	भंवरलाल पिता भागमल रुहेला नि. ग्राम भू-स्वामी	284/4	0.500	0.500
	योग	1	0.500	0.500
44	भंवरलाल पन्नालाल गोरेलाल प्रभुलाल खुशीलाल पिता कनीराम हि. 1/4 मांगीलाल चन्द्र पिता बापु हि. 1/4 मांगीलाल पिता जालम पिता रत्नीराम नरसंग पिता नन्दराम भागमल मुनालाल पिता हीरालाल हि. 1/4 बड़ीलाल पिता देवचन्द्र किशनलाल बंडीलाल आ.अमरसिंह विहारीलाल भारतसिंह प्रमराज रामसिंह आ. जगन्नाथ मु. जानीबाई बेबा जगन्नाथ रुहेला	43	0.025	0.025
	योग	1	0.025	0.025

सं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकमा	प्रभावित रकमा
	2	3	4	7
45	भोनजी पिता कनीराम भवरलाल धनराज राधेश्याम रामरत्न पिता धीसालाल सम्पतबाई वि. धीसालाल देवबाई बेवा कनीराम सोंध्या नि. ग्राम भू-स्वामी	262	0.354	0.354
		263	0.038	0.038
		264	0.291	0.291
		265	0.126	0.126
		266	0.278	0.278
		267/2	0.759	0.759
		268/2	0.797	0.797
		268/4	0.278	0.278
		योग	2.921	2.921
46	भारतसिंह पिता मोकमसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	163/2	0.120	0.120
		164/2	0.120	0.120
		286/2/2	1.300	1.300
		73/1/1	0.038	0.038
	योग	4	1.578	1.578
47	भवरलाल प्रभुलाल खुशीलाल आ. कनीराम धीसी बाई बेवा पन्नालाल देवनारायण गंगा भगवती बाई दरियाव बाई पिता पन्नालाल कमला पति श्रीनाथ सोरम पति प्रेमसिंह छमाबाई बेवा गोरेलाल जाति रूहैला नि. ग्राम भू-स्वामी	34/1	0.366	0.366
		84/4	3.794	3.794
		220	0.025	0.025
		221	0.202	0.202
		252	0.063	0.063
		253	0.076	0.076
		योग	6	4.526
48	रघुवीरसिंह गोपालसिंह प्यारसिंह करण सिंह हिमरसिंह पिता भीमसिंह रूपकुवर बेवा भीमसिंह नि. ग्राम भू-स्वामी	232	0.089	0.089
		248	0.025	0.025
		280/1	1.118	1.118
		योग	3	1.232
49	भगवानसिंह पिता कोकसिंह राजपुत नन्दा चमार नि. ग्राम भू-स्वामी	251/2	0.051	0.051
		201/1	0.011	0.011
		301/2/5	0.084	0.084
	योग	3	0.146	0.146
50	भवरिया अनार लीला पिता नन्दा चमार नि. बरछावरपुरा	323/3	2.023	0.800
		योग	1	2.023
				0.800

सं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रक्खा	प्रभावित रक्खा
	2	3	4	7
51	मोहनसिंह पिता भेरसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	176/4	1.832	1.832
	योग	1	1.832	1.832
52	मांगीलाल पिता मुन्नालाल बंजारा नि. ग्राम भू-स्वामी	299/3	0.069	0.069
	योग	1	0.069	0.069
53	मांगीलाल पिता नेदराम रहैला नि. ग्राम भू-स्वामी	111 112 113 124/1 193/2	0.051 0.101 0.038 0.042 0.143	0.051 0.101 0.038 0.042 0.143
	योग	5	0.375	0.375
54	मांगीलाल नरसंग जगदीश पिता गोरी लाल रहैला नि. ग्राम भाटखेड़ी	279/1	10.270	10.270
	योग	1	10.270	10.270
55	मदनलाल पिता प्रमसिंह सौंध्या नि. ग्राम मांडाखेड़ी	90/2/1	2.213	2.000
	योग	1	2.213	2.000
56	मुन्नालाल पिता हीरालाल रहैला नि. ग्राम भू-स्वामी	99/2 132/326/1/6	1.518 0.157	1.518 0.157
	योग	2	1.675	1.675
57	मथरालाल पिता बलदेव नंदराम बनवारीलाल गोपाल पिता लखमीचन्द संतोष बाई राधा बाई पित लखमीचन्द मु. गंगाबाई वि. लखमीचन्द पिता बलदेव धाकड़ पीपलहेड़ा भू-स्वामी	57 100/1 214 222 238 240	0.038 1.581 0.114 0.025 0.051 0.304	0.038 1.581 0.114 0.025 0.051 0.304
	योग	6	2.113	2.113
58	रामनारायण पिता बापुलाल रहैला नि. ग्राम भू-स्वामी	56 97/2/1 104 133/2/1 208	0.658 1.843 0.190 0.174 0.266	0.658 1.843 0.190 0.174 0.266
	योग	5	3.131	3.131

सं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकमा	प्रभावित रकमा
1	2	3	4	7
50	रत्तीराम पिता भैवरलाल रहैला नि. ग्राम भू-स्वामी	4/3 85/3	0.025 1.253	0.025 1.253
	योग	2	1.278	1.278
60	रमेश जुझारसिंह राधेशयाम प्रेमनारायण पिता जालम सिंह जसुबाई बेवा जालमसिंह रहैला नि. ग्राम भू-स्वामी	114 115 124/4 132/2/1 193/1 155/334/2	0.063 0.481 0.042 0.225 0.142 0.354	0.063 0.481 0.042 0.225 0.142 0.354
	योग	6	1.307	1.307
61	रामबाबू पिता ग्यारसीराम चमार नि. ग्राम भू-स्वामी	278/1/2 278/4/2 278/5/1 278/8/1 289/1/4 289/1/2	0.500 0.250 0.250 0.192 0.050 0.050	0.500 0.250 0.250 0.192 0.050 0.050
	योग	6	1.292	1.292
62	रामबाबू तुलाराम पिता बद्रीलाल मु. रुकमाबाई बेवा बद्रीलाल देवचन्द पिता किशनलाल घीसालाल चन्दरसिंह कालूराम पिता बंशीलाल बिहारी प्रेम भारतसिंह गजराजसिंह पिता जगन्नाथ मु. जानीबाई बेवा जगन्नाथ रहैला नि. ग्न्रम भू-स्वामी	48 49 51 52 53 54 58 107 118 119 122 207/1	0.076 0.038 0.013 0.455 0.316 4.085 0.177 0.126 0.379 0.228 0.063 0.215	0.076 0.038 0.013 0.455 0.316 4.085 0.177 0.126 0.379 0.228 0.063 0.215
	योग	12	6.171	6.171

सं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकमा	प्रभावित रकमा
	2	3	4	7
68	रामबाबू तुलाराम पिता बद्रीलाल रुकमीबाई बेवा बद्रीलाल देवचन्द्र पिता किशनलाल बिहारी लाल प्रमसिंह भारतसिंह गजराजसिंह पिता जगन्नाथ मांगीलाल जालम रत्तीराम नरसंग	3	1.354	1.354
69	योग	1	1.354	1.354
69	रुकमीबाई बेवा बमरा रहेला नि. ग्राम भू-स्वामी	85/2	2.000	2.000
69	योग	1	2.000	2.000
69	रामपालसिंह पवित्रा पिता जगदीशसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	286/1/2	0.998	0.998
69	योग	1	0.998	0.998
69	लक्ष्मीनारायण पिता रत्तीराम रहेला नि. ग्राम भू-स्वामी	182/4	0.408	0.408
69	योग	1	0.408	0.408
69	लालसिंह पिता मुन्नालाल रहेला नि. ग्राम भू-स्वामी	109/1/7 124/5/8 194/2/4 206/3/4 270/8 272/2/8 272/340/2/8	0.016 0.021 0.011 0.021 0.261 0.090 0.443	0.016 0.021 0.011 0.021 0.261 0.090 0.443
69	योग	7	0.863	0.863
69	विजयसिंह पिता उमराव सिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	69/331 202/1 226/1/2 227/1 230/2 249 279/2/2 301/1	0.063 0.022 0.076 0.025 0.023 0.089 0.079 0.721	0.063 0.022 0.076 0.025 0.023 0.089 0.079 0.100
69	योग	8	1.098	0.477
69	विजयसिंह प्रेमसिंह पिता उमरावसिंह राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी	195/2	0.266	0.266
70	योग	1	0.266	0.266
70	विपतसिंह पिता रत्नसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	103/2 204/2	0.017 0.110	0.017 0.110
70	योग	2	0.127	0.127

सं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रक्खा	प्रभावित रक्खा
	2	3	4	7
1	विशाल पिता श्याम सुन्दर महाजन भू-स्वामी	3/337/1 268/1	1.581 0.455	1.581 0.455
	योग	2	2.036	2.036
2	विपतसिंह सुन्दरसिंह आ. रतनसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	154/333 204/1 205/1 103/1	0.417 0.219 0.025 0.034	0.417 0.219 0.025 0.034
	योग	4	0.695	0.695
3	विजयसिंह पिता मुन्नालाल रहैला नि. ग्राम भू-स्वामी	109/1/2 124/5/3 132/326/1/3 194/2/6 206/3/6 270/6 272/2/6 272/340/2/6	0.016 0.021 0.157 0.011 0.022 0.261 0.091 0.443	0.016 0.021 0.157 0.011 0.022 0.261 0.091 0.443
	योग	8	1.022	1.022
4	शान्तीबाई पति शंकरलाल रहैला नि. ग्राम भू-स्वामी	9/1/2	0.316	0.316
	योग	1	0.316	0.316
5	सीमाबाई पति विजयसिंह रहैला नि. ग्राम भू-स्वामी	9/1/3	0.316	0.316
	योग	1	0.316	0.316
6	शिवनारायण पिता रामनारायण रहैला नि. ग्राम भू-स्वामी	36/1 97/1/1 100/2 120	0.063 2.556 1.290 0.266	0.063 2.556 1.290 0.266
	योग	4	4.175	4.175
7	शोभाराम पिता मुन्नालाल बंजारा नि. ग्राम भू-स्वामी	299/5	0.069	0.069
	योग	1	0.069	0.069
8	शिवनारायण पिता मांगीलाल रामनारायण पिता बापुलाल रहैला नि. ग्राम भू-स्वामी	117 96	0.253 0.190	0.253 0.190
	योग	1	0.443	0.443

सं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकमा	प्रभावित रकमा
	2	3	4	7
79	शंकरलाल पिता मुन्नालाल रहैला नि. ग्राम भू-स्वामी	109/1/6 124/5/5 132/326/1/2 194/2/3 206/3/3 270/1 272/2/4 272/340/2/2	0.016 0.021 0.157 0.011 0.021 0.261 0.090 0.442	0.016 0.021 0.157 0.011 0.021 0.261 0.090 0.442
	योग	8	1.019	1.019
80	सुरेन्द्रसिंह पिता करणसिंह सौंध्या नि. ग्राम भू-स्वामी	9/335/3 90/4/2 90/4/4	0.247 0.421 0.421	0.247 0.084 0.084
	योग	1	1.089	0.415
81	शंकर पिता रामलाल भोपा नि. ग्राम भू-स्वामी	268/5 272/339/2 99/3	0.506 1.543 3.794	0.506 1.543 2.800
	योग	3	5.843	4.849
82	सुमित्रा बाई पति भीमसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	127/332/2/1	0.379	0.379
	योग	1	0.379	0.379
83	हिन्दुसिंह पिता उमरावसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	211/1 226/1/4 227/4 228 229 230/1 279/2/5	0.085 0.076 0.026 0.569 0.354 0.022 0.078	0.085 0.076 0.026 0.569 0.354 0.022 0.078
	योग	7	1.210	1.210
84	हरिसिंह पिता कोकसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी	196/3 301/2/6 299/1 299/2	0.355 0.085 0.070 0.070	0.355 0.085 0.070 0.070
	योग	4	0.580	0.580

सं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रक्षा	प्रभावित रक्षा
	2	3	4	7
85	हेमराज सिंह पिता मोकमसिंह राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी	73/2	0.051	0.051
		163/1	0.120	0.120
		164/1	0.120	0.120
		286/2/1	0.215	0.215
		152/2	0.063	0.036
	योग	5	0.569	0.542 ✓
86	हरिनारायण पिता मुन्नालाल रूहेला नि. ग्राम भू-स्वामी	109/1/4	0.016	0.016
		124/5/4	0.021	0.021
		132/326/1/5	0.157	0.157
		194/2/5	0.011	0.011
		206/3/5	0.022	0.022
		272/2/3	0.090	0.090
		272/340/2/3	0.443	0.443
		270/3	0.261	0.261
	योग	7	1.021	1.021 ✓
87	जगन्नाथ पिता कोकसिंह जति राजपूत नि. ग्राम भू- स्वामी	301/2/3	0.084	0.084
		^ ^ ^	^ ^ ^	^ ^ ^
	योग	1	0.084	0.084 ✓
88	प्रेमसिंह पिता कोकसिंह जति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी	301/2/4	0.084	0.084
		^ ^ ^	^ ^ ^	^ ^ ^
	योग	1	0.084	0.084 ✓
89	प्रेमसिंह पिता उमरावसिंह जति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी	269/6	1.265	0.070
		^ ^ ^	^ ^ ^	^ ^ ^
	योग	1	1.265	0.070 ✓
90	बद्रीलाल पिता किशनलाल जति रुवाला नि. ग्राम भू-स्वामी	269/3/1/1	3.946	1.900
		^ ^ ^	^ ^ ^	^ ^ ^
	योग	1	3.946	1.900 ✓
91	बलराम पिता नंदराम जति धाकड़ नि. ग्राम भू-स्वामी	300	0.215	0.215
		^ ^ ^	^ ^ ^	^ ^ ^
	योग	1	0.215	0.215 ✓

सं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकम	प्रभावित रकम
	2	3	4	7
1	शिवनारायण पिता मुन्नालाल जाति रुवाला नि. ग्राम भू-स्वामी	124/5/7 132/326/1/1 194/2/1 270/2 206/3/1 272/340/2/1 109/1/5	0.021 0.157 0.011 0.260 0.021 0.442 0.015	0.021 0.157 0.011 0.260 0.021 0.442 0.015
92	योग	7	0.927	0.927 -
93	देवीलाल पिता पन्नालाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	85/4	1.000	1.000
94	योग	1	1.000	1.000 -
94	नानूबाई पति प्रभूलाल जाति रुवाला नि.ग्राम मांडाखेड़ा	90/4/3	0.844	0.169
	योग	1	0.844	0.169 -
	कुलयोग :-	308	133.728	125.794 -

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़  
जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2015-2016

राजगढ़ दिनांक

11683

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम बख्तावरपुरा के लिए डूब में शेष प्रभावित मकान हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे न. 47 रक्बा 0.278 हेक्टेयर एवं सर्वे न. 4/1/7 रक्बा 1.000 हेक्टेयर पर स्थित परिसम्पत्ति निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## —: अनुसूची :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :— ग्राम बख्तावरपुरा

स.क्र.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रक्बा			
1	2	3	4		5
1	47	0.278	भागीरथ पिता इशरलाल जाति यादव	1/1	33.750 ,
2			चंद्र पिता भागीरथ जाति यादव	1/2	33.750 ,
3			रमेश पिता भागीरथ जाति यादव	1/3	33.750 ,
4			हेमराज पिता चंद्रसिंह जाति यादव	1/4	33.750 ,
5			श्रीमति जमनीबाई पति मोतीलाल जाति यादव	2/1	54.600 ,
6			रामकैलाश पिता मोतीलाल जाति यादव	2/2	54.600 ,
7			शिवनारायण पिता मोतीलाल जाति यादव	2/3	54.600 ,
8			केशाराम पिता इशरलाल जाति यादव	3/1	75.900 ,
9			पर्वतसिंह पिता केशाराम जाति यादव	3/2	75.900 ,
10			बलदेवसिंह पिता इशरलाल जाति यादव	4/1	154.400 ,
11			सुरेश पिता बलदेवसिंह जाति यादव	4/2	154.400 ,
12			लखन पिता बलदेव जाति यादव	5	97.000 ,
13			अवंतिका पिता बलदेव जाति यादव	6/1	37.200 ,
14			विकास पिता लखनलाल जाति यादव	6/2	37.200 ,
15			हरिओम पिता बलदेव जाति यादव	6/3	37.200 ,
16			छबिलाल पिता युवनजी जाति यादव	7	40.150 ,
17			गौरीशंकर पिता पन्नालाल जाति यादव	8/1	55.800 ,
18			हरिओम पिता राधेश्याम जाति यादव	8/2	55.800 ,
19			रामगोपाल पिता पन्नालाल जाति यादव	8/3	55.800 ,

20			दिलीप पिता पन्नालाल जाति यादव	8/4	55.800/-
21			मुकेश पिता पन्नालाल जाति यादव	8/5	55.800/-
22			बद्रीप्रसाद पिता शंभुलाल जाति यादव	9/1	14.900/-
23			नानकराम पिता किशनलाल जाति यादव	9/2	14.900/-
24			कंचनबाई पत्नि पन्नालाल जाति यादव	9/3	14.900/-
25			घनश्याम पिता मोतीलाल जाति यादव	10/1	90.000/-
26			नंदकिशोर पिता मोतीलाल जाति यादव	10/2	93.500/-
27			बद्रीलाल पिता गुटाजी जाति यादव	11/1	50.320/-
28			महेश पिता अमरसिंह जाति यादव	11/2	50.320/-
29			महेन्द्र पिता अमरसिंह जाति यादव	11/3	50.320/-
30			भंवरीबाई पत्नि अमरसिंह जाति यादव	11/4	50.320/-
31			किशनसिंह पिता हरीसिंह जाति राजपूत	12	80.000/-
32			विनयसिंह पिता केशराम जाति यादव	13	111.000/-
योग :-					1907.630/-
33	4/1/7	1.000	प्रभुलाल पिता बंशीलाल जाति जाटव	14	19.440/-
34			जगदीश पिता बंशीलाल जाति जाटव	15	19.440/-
योग :-					38.880/-
कुल योग :-					1946.510
				या (हे.मे)	0.195

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुबिभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

11725  
16/02/17

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2015-2016

## राजगढ़ दिनांक .....

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम बीरमपुरा के लिए ढूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## —: अनुसूची :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के ढूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :— ग्राम बीरमपुरा

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिवित	असिवित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
1	कंचनबाई पिता श्रीलाल जाति लोड़ा ✓	9/7 25/7 43/4 44/7 45/7 79 82/7 83/1/7	0.228 0.160 0.041 0.055 0.065 0.063 0.071 0.048	0.000 0.000 0.000 0.000 0.065 0.000 0.000 0.000	0.100 0.160 0.041 0.055 0.000 0.063 0.071 0.048	0.100 0.160 0.041 0.055 0.065 0.063 0.071 0.048
	योग	8	0.731	0.065	0.538	0.603 ✓
2	गोरेलाल पिता रतन, जाति लोड़ा ✓	115/1/3	0.354	0.000	0.354	0.354
	योग	1	0.354	0.000	0.354	0.354 ✓
3	मोड़सिंह मांगीलाल केशरसिंह पिता अमरसिंह जाति लोड़ा	43/1 68/4 71 82/4 83/1/4 25/4 44/4 45/4 46/4 47/4 54/4	0.041 0.038 0.063 0.070 0.049 0.199 0.054 0.065 0.173 0.307 0.177	0.041 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.173 0.307 0.000	0.000 0.038 0.030 0.070 0.049 0.199 0.054 0.065 0.000 0.000 0.177	0.041 0.038 0.030 0.070 0.049 0.199 0.054 0.065 0.173 0.307 0.177
	योग	11	1.236	0.521	0.682	1.203

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
4	रोड़या पिता गोरीलाल जाति लोड़ा ✓	140/5/4	0.063	0.000	0.063	0.063
		144/4	0.098	0.000	0.040	0.040
		25/1/1	0.049	0.000	0.049	0.049
		44/1/3	0.014	0.000	0.014	0.014
		47/1/3	0.077	0.000	0.077	0.077
		54/1/4	0.044	0.000	0.044	0.044
	योग	6	0.345	0.000	0.287	0.287
5	लालसिंह, केशरसिंह, राजाराम पिता जगन्नाथ जाति लोड़ा	5/5	0.101	0.000	0.020	0.020
		7/5	0.052	0.000	0.010	0.010
		7/6	0.026	0.000	0.010	0.010
		84/6	0.036	0.036	0.000	0.036
		86/6	0.089	0.000	0.089	0.089
		107/6	0.013	0.000	0.008	0.008
		108/6	0.012	0.000	0.012	0.012
		111/3	0.009	0.000	0.009	0.009
		112/6	0.008	0.000	0.008	0.008
		113/6	0.005	0.000	0.005	0.005
	योग	10	0.351	0.036	0.171	0.207
6	अयोध्याबाई बेवा श्रीलाल रमेश पिता श्रीलाल जाति चमार	18/1	0.104	0.000	0.104	0.104
		127	0.123	0.000	0.064	0.064
		128	0.063	0.000	0.015	0.015
		152	0.145	0.145	0.000	0.145
	योग	4	0.435	0.145	0.183	0.328
7	बद्रीलाल पिता हरिसिंह जाति चमार ✓	18/2	0.313	0.000	0.104	0.104
		127/1	0.370	0.000	0.063	0.063
		128/1	0.048	0.000	0.016	0.016
		50/1/2	0.657	0.000	0.657	0.657
		152/1	0.819	0.000	0.358	0.358
	योग	5	2.207	0.000	1.198	1.198

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
8	कन्हैयालाल पिता भवंरलाल जाति लोड़ा✓	50/6/2	0.696	0.415	0.000	0.415
		153/2	0.042	0.000	0.042	0.042
		154/2	0.017	0.000	0.017	0.017
		155/2	0.131	0.000	0.131	0.131
		156/2	0.034	0.000	0.034	0.034
		157/2	0.341	0.000	0.300	0.300
		159/13/2	0.556	0.050	0.000	0.050
		159/14/1	0.555	0.551	0.000	0.551
	योग	8	2.372	1.016	0.524	1.540
9	बद्रीलाल करणसिंह पिता कालु जाति लोड़ा✓	138/2	0.860	0.000	0.860	0.860
		149/2	0.354	0.000	0.060	0.060
		31/2	0.048	0.000	0.048	0.048
		33/2	0.092	0.000	0.092	0.092
		136/2	0.006	0.000	0.006	0.006
		137/2	0.019	0.000	0.019	0.019
	योग	6	1.379	0.000	1.085	1.085
10	गंगाराम भवासिंह, शंकर, प्रम दोली, सोरम पिता✓ घीसा, जाति लोड़ा	50/7	2.238	0.000	1.896	1.896
	योग	1	2.238	0.000	1.896	1.896
11	गंगाराम पिता श्रीलाल भुमि स्वामी, जाति लोड़ा✓	25/6/5	0.038	0.000	0.038	0.038
		43/3/5	0.008	0.000	0.008	0.008
		44/6/5	0.010	0.000	0.010	0.010
		45/6/5	0.013	0.000	0.013	0.013
		82/6/5	0.014	0.014	0.000	0.014
		83/1/6/5	0.011	0.011	0.000	0.011
	योग	6	0.094	0.025	0.069	0.094
12	मांगीलाल पिता गंगाराम भुमि स्वामी ✓	25/6/1	0.040	0.000	0.040	0.040
		43/3/1	0.008	0.000	0.008	0.008
		44/6/1	0.011	0.000	0.011	0.011
		45/6/1	0.013	0.000	0.013	0.013
		82/6/1	0.014	0.000	0.014	0.014
		83/1/6/1	0.009	0.000	0.009	0.009
		83/2/1	0.110	0.000	0.110	0.110
	योग	7	0.205	0.000	0.205	0.205

सं.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रक्बा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
13	प्रभुलाल पिता गंगाराम भुमि स्वामी ✓	25/6/2, 43/3/2 44/6/2 45/6/2 82/6/2 83/1/6/2 83/2/2	0.040 0.008 0.011 0.013 0.014 0.009 0.110	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.040 0.008 0.011 0.013 0.014 0.009 0.110	0.040 0.008 0.011 0.013 0.014 0.009 0.110
	योग	7	0.205	0.000	0.205	0.205
14	रमेश पिता गंगाराम भुमि स्वामी ✓	25/6/3 43/3/3 44/6/3 45/6/3 82/6/3 83/1/6/3 83/2/3	0.039 0.008 0.011 0.013 0.014 0.009 0.110	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.039 0.008 0.011 0.013 0.014 0.009 0.110	0.039 0.008 0.011 0.013 0.014 0.009 0.110
	योग	7	0.204	0.000	0.204	0.204
15	रामबगस पिता गंगाराम भुमि स्वामी ✓	25/6/4 43/3/4 44/6/4 45/6/4 82/6/4 83/1/6/4 83/2/4	0.039 0.008 0.011 0.013 0.015 0.009 0.110	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.039 0.008 0.011 0.013 0.015 0.009 0.110	0.039 0.008 0.011 0.013 0.015 0.009 0.110
	योग	7	0.205	0.000	0.205	0.205
16	गोरदन मांगीलाल रंगलाल हेमराज पिता मनीराम जाति लोड़ा	41 68/3 83/1/3 25/3 44/3 45/3 46/3 47/3 54/3	0.051 0.038 0.049 0.199 0.054 0.065 0.174 0.307 0.177	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.174 0.000 0.000	0.051 0.038 0.049 0.199 0.054 0.065 0.000 0.307 0.177	0.051 0.038 0.049 0.199 0.054 0.065 0.174 0.307 0.177
	योग	9	1.114	0.174	0.940	1.114

संक.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकवा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
17	घीसालाल पिता लालसिंह जाति लोड़ा ✓	34/1	0.019	0.000	0.019	0.019
		68/1/3	0.010	0.000	0.010	0.010
		73/166/1/3	0.009	0.000	0.009	0.009
		82/1/2	0.017	0.000	0.017	0.017
		83/1/1/4	0.012	0.000	0.012	0.012
		144/1	0.098	0.000	0.041	0.041
		25/1/4	0.050	0.000	0.050	0.050
		44/1/4	0.013	0.000	0.013	0.013
		47/1/4	0.077	0.000	0.077	0.077
		54/1/2	0.044	0.000	0.044	0.044
योग		10	0.349	0.000	0.292	0.292
18	देवचन्द पिता दवीलाल, जाति लोड़ा ✓	34/2	0.019	0.000	0.019	0.019
		68/1/4	0.010	0.000	0.010	0.010
		82/1/3	0.017	0.000	0.017	0.017
		83/1/1/1	0.012	0.000	0.012	0.012
		144/2	0.098	0.000	0.041	0.041
		25/1/3	0.050	0.000	0.013	0.013
		44//1/1	0.013	0.000	0.013	0.013
		54/1/3	0.044	0.000	0.044	0.044
		योग	8	0.263	0.000	0.169
19	नारायण पिता भंवरलाल जाति लोड़ा ✓	153/3	0.042	0.042	0.000	0.042
		154/3	0.017	0.000	0.017	0.017
		155/1	0.131	0.000	0.131	0.131
		156/3	0.034	0.034	0.000	0.034
		157/3	0.342	0.000	0.300	0.300
		159/15/2	2.083	0.000	0.550	0.550
योग		6	2.649	0.076	0.998	1.074
20	प्रभुनारायण कन्हैयालाल पिता भंवरललाल हि. 1/2 ✓ करनसिंह, बापु रीताबाई पिता मांगीलाल बरजी बेवा मांगीलाल भागीरथ भुमि स्वामी, राजुबाई फुलसिंह म. बा. स. र. प. भाई करनसिंह जाति लोड़ा	16	0.038	0.000	0.030	0.030
		17	0.253	0.000	0.253	0.253
		36	0.316	0.316	0.000	0.316
		40	0.164	0.000	0.164	0.164
		78	0.101	0.101	0.000	0.101
		योग	5	0.872	0.417	0.447
						0.864

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
	2	3	4	5	6	7
1						
21	प्रभु नारायण कन्हैया शैतानबाई पिता भंवरलाल हि, बराबर जाति लोड़ा	19	0.304	0.000	0.304	0.304
	योग	1	0.304	0.000	0.304	0.304
22	प्रभुलाल पिता भंवरलाल जाति लोड़ा	50/6/1 153/1 154/1 155/3 156/1 157/1 159/13/1 159/14/2 159/15/1	0.695 0.042 0.017 0.130 0.033 0.342 0.556 0.688 0.699	0.695 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000	0.000 0.042 0.017 0.130 0.033 0.300 0.050 0.000 0.120	0.695 0.042 0.017 0.130 0.033 0.300 0.050 0.500 0.120
	योग	9	3.202	1.195	0.692	1.887
23	बशीलाल पिता देवीराम जाति लोड़ा	34/3 68/1/1 73/166/1/1 82/1/1 83/1/1/2 144/3 1/33 44/1/2 25/1/2 47/1/2 54/1/1	0.019 0.009 0.008 0.018 0.012 0.098 1.010 0.014 0.050 0.076 0.044	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.019 0.009 0.008 0.018 0.012 0.040 1.010 0.014 0.050 0.076 0.044	0.019 0.009 0.008 0.018 0.012 0.040 1.010 0.014 0.050 0.076 0.044
	योग	11	1.358	0.000	1.300	1.300
24	रामचरण पिता हरीसिंह जाति चमार	18/3 128/3 129/3 151/3 152/3	0.104 0.015 0.098 0.041 0.357	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.104 0.015 0.098 0.041 0.357	0.104 0.015 0.098 0.041 0.357
	योग	5	0.615	0.000	0.615	0.615

संक्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रक़वा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
25	दुलीचंद पिता हरिसिंह जाति चमार ✓	18/4	0.105	0.000	0.105	0.105
		128/4	0.015	0.000	0.015	0.015
		151/4	0.041	0.000	0.041	0.041
		152/4	0.357	0.000	0.357	0.357
	योग	4	0.518	0.000	0.518	0.518
26	मदन पिता किसना जाति लोड़ा ✓	31/3	0.047	0.000	0.047	0.047
		33/3	0.092	0.000	0.092	0.092
		136/3	0.006	0.000	0.006	0.006
		137/3	0.019	0.000	0.019	0.019
	योग	4	0.164	0.000	0.164	0.164
27	रामसिंह पिता धीरा जाति लोड़ा ✓	159/30	0.696	0.696	0.000	0.696
		1	0.696	0.696	0.000	0.696
	योग	1	0.696	0.696	0.000	0.696
28	रामप्रसाद राधेश्याम रमेश आ. मांगीलाल जाति लोड़ा ✓	31/1	0.095	0.000	0.095	0.095
		137/1	0.038	0.000	0.038	0.038
	योग	2	0.133	0.000	0.133	0.133
29	शंकर पिता जालम, गोरधन बद्रीलाल तुलसीराम ✓ मांगीलाल भेरुलाल बापुलाल पिता रामलाल जाति लोड़ा	5/7	0.405	0.000	0.150	0.150 ✓
		84/8	0.288	0.000	0.288	0.288
		86/8	0.593	0.000	0.400	0.400
		108/8	0.096	0.000	0.010	0.010
		112/8	0.067	0.000	0.067	0.067
		113/8	0.045	0.000	0.045	0.045
		139	0.038	0.000	0.038	0.038
		27/8	0.406	0.000	0.406	0.406
		28/8	0.007	0.000	0.007	0.007
		29/8	0.007	0.000	0.007	0.007
		30/8	0.187	0.000	0.187	0.187
	योग	11	2.139	0.000	1.605	1.605
30	रमकूबाई बेवा बापुलाल जाति लोड़ा निग्राम ✓ भू-स्वामी	1/31/1	1.012	0.000	1.012	1.012
		1	1.012	0.000	1.012	1.012

संक.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
	2	3	4	5	6	7
1						
31	कन्हैयालाल पिता बापूलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी ✓	1/31/2	2.514	0.000	2.514	2.514
	योग	1	2.514	0.000	2.514	2.514
32	अंकुश गुप्ता पिता बद्रीलाल गुप्ता जाति महाजन नि. ग्राम भू-स्वामी ✓	1/31/3	2.514	2.514	0.000	2.514
	योग	1	2.514	2.514	0.000	2.514
33	देवचंद पिता देवीलाल, बंशीलाल पिता देवीराम, घीसालाल पिता लालसिंह, रोड़जी पिता गोरीलाल	45/1 46/1	0.065 0.174	0.000 0.000	0.065 0.174	0.065 0.174
	योग	1	0.239	0.000	0.239	0.239
34	लालसिंह पिता देवीराम जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी ✓	27/6 29/6 30/6	0.051 0.003 0.024	0.000 0.000 0.000	0.051 0.003 0.024	0.051 0.003 0.024
	योग	3	0.078	0.000	0.078	0.078
	कुलयोग :-	187	33.294	6.880	19.826	26.706

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजरव) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

11541  
08/02/17

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वर्तवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पिपल्याकुमार तालाब सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम पीपल्या, चौसला, टोडरी के लिए ढूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्व कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्तवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थी आवश्यकता है।

### —: अनुसूची :—

#### पिपल्याकुमार तालाब की डेम लाईन/ढूब क्षेत्र/वेस्टवियर में प्रभावित भूमि ग्राम पीपल्या

स.क्र.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्व नंबर	कुल रकमा	सिवित	असिवित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
1	रामा पिता भेरु जाति चमार नि.ग्राम भूमि स्वामी	1/5	3.794	0.000	1.138	1.138
	योग:-	1	3.794	0.000	1.138	1.138
2	मांगीलाल पिता जगन्नाथ जाति सोंधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	1/6/1	0.759	0.000	0.228	0.228
	योग:-	1	0.759	0.000	0.228	0.228
3	बीरमसिंह पिता नाथू जाति सोंधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	3/2/1	0.394	0.000	0.039	0.039
	योग:-	1	0.394	0.000	0.039	0.039
4	नाथूलाल पिता रुगनाथ जाति सोंधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	3/2/2	0.365	0.000	0.036	0.036
	योग:-	1	0.365	0.000	0.036	0.036
5	दीलीप, अनुसुर्ईया पिता देवीलाल जाति सोंधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	3/3	1.518	1.214	0.000	1.214
	योग:-	1	1.518	1.214	0.000	1.214
6	शिवनारायण पिता रामलाल जाति दांगी नि.ग्राम भूमि स्वामी	3/9	0.632	0.000	0.190	0.190
	योग:-	1	0.632	0.000	0.190	0.190
7	बापू पिता गोपीलाल जाति चमार नि.ग्राम भूमि स्वामी	3/10	0.675	0.000	0.202	0.202
	योग:-	1	0.675	0.000	0.202	0.202

रो. क्र.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रक्खा	सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
8	प्रेमसिंह पिता पन्नालाल, पारीबाई, बेवा पन्नालाल जाति चमार नि.ग्राम भूमि स्वामी बंशीलाल पिता पन्नालाल, शैतानबाई पिता पन्नालाल नि.ग्राम भूमि स्वामी	7/1	1.012 ✓	1.012 ✓	0.000 ✓	1.012 ✓
	योग:-	1	1.012	1.012	0.000	1.012 ✓
9	रतन पिता भेरु जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी ✓	7/2 ✓ 7/5 ✓	0.337 ✓ 0.169 ✓	0.201 ✓ 0.042 ✓	0.000 ✓ 0.000 ✓	0.201 ✓ 0.042 ✓
	योग:-	2	0.506 ✓	0.243 ✓	0.000	0.243 ✓
10	प्रभू पिता भेरु जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी ✓	7/6 ✓ 7/4 ✓	0.337 ✓ 0.169 ✓	0.000 ✓ 0.000 ✓	0.144 ✓ 0.101 ✓	0.144 ✓ 0.101 ✓
	योग:-	2	0.506 ✓	0.000	0.245 ✓	0.245 ✓
11	अमृतसिंह पिता नारायणसिंह जाति सौंधिया निवासी टोडरी	8/1 ✓	0.565 ✓	0.565 ✓	0.000 ✓	0.565 ✓
	योग:-	1	0.565	0.565	0.000	0.565 ✓
12	रामलाल,प्रेमसिंह कालूसिंह नरबा, जतनबाई नरभा, मांगीलाल, पिता किशनलाल जाति सौंधिया ग्राम भूमि स्वामी	8/2 ✓	2.824 ✓	0.000 ✓	2.824 ✓	2.824 ✓
	योग:-	1	2.824	0.000	2.824	2.824 ✓
13	कमलाबाई पिता भंवरलाल जाति सौंधिया भू-स्वामी	8/2/1 ✓	0.854 ✓	0.854 ✓	0.000 ✓	0.854 ✓
	योग:-	1	0.854	0.854	0.000	0.854 ✓
14	भंवरलाल पिता जगन्नाथ ग्राम जाति सौंधिया भूमि स्वामी ✓	8/2/2 ✓	0.295 ✓	0.295 ✓	0.000 ✓	0.295 ✓
	योग:-	1	0.295	0.295	0.000	0.295 ✓
15	प्रेमसिंह पिता निर्भयसिंह जाति सौंधिया ग्राम भूमि स्वामी ✓	8/2/3 ✓ 8/3/1 ✓	0.545 ✓ 0.283 ✓	0.545 ✓ 0.283 ✓	0.000 ✓ 0.000 ✓	0.545 ✓ 0.283 ✓
	योग:-	2	0.828 ✓	0.828 ✓	0.000	0.828 ✓
16	कालूसिंह पिता निर्भयसिंह जाति सौंधिया ग्राम भूमि स्वामी ✓	8/3/2 ✓	0.282 ✓	0.282 ✓	0.000 ✓	0.282 ✓
	योग:-	1	0.282	0.282	0.000	0.282 ✓
17	शिवसिंह पिता रामलाल जाति सौंधिया ग्राम भूमि स्वामी ✓	8/4 ✓ 10/2 ✓	0.565 ✓ 0.324 ✓	0.000 ✓ 0.324 ✓	0.565 ✓ 0.000	0.565 ✓ 0.324 ✓
	योग:-	2	0.889 ✓	0.324	0.565	0.889 ✓
18	मांगीलाल नारायणसिंह,पिता नाथूलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	10/1 ✓	0.207 ✓	0.000 ✓	0.207 ✓	0.207 ✓
	योग:-	1	0.207	0.000	0.207 ✓	0.207 ✓
	ग्राम पीपल्या का महायोग :-	22	16.905	5.617	5.674	11.291 ✓

सं.ख.	भू-रखामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
	2	3	4	5	6	7
पिपल्याकुमार तालाब की डेम लाईन/झूब क्षेत्र/वेस्टवियर में प्रभावित भूमि ग्राम चौसला						
1	पन्नालाल पिता अमरसिंह जाति चमार नि.ग्राम भूमि स्वामी	83/1/2	1.000	1.000	0.000	1.000
	योग:-	1	1.000	1.000	0.000	1.000
2	जगन्नाथ पिता मदन जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	83/2 ✓ 85/4/1 ✓	4.000 ✓ 1.000 ✓	1.600 ✓ 0.000 ✓	0.000 ✓ 0.950 ✓	1.600 0.950 ✓
	योग:-	2	5.000 ✓	1.600 ✓	0.950 ✓	2.550 ✓
3	कन्हैयालाल पिता पन्नालाल, शांतीबाई पति प्रहलाद जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	83/3 ✓	0.537 ✓	0.000 ✓	0.537 ✓	0.537 ✓
	योग:-	1	0.537	0.000	0.537	0.537
4	प्रहलाद पिता मदन, शांतीबाई पति प्रहलाद जाति चमार नि.ग्राम भूमि स्वामी	83/4 ✓	0.538 ✓	0.000 ✓	0.511 ✓	0.511 ✓
	योग:-	1	0.538	0.000	0.511	0.511
5	प्रभूलाल पिता मदन, सरदारबाई पति प्रभूलाल जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	83/5 ✓	0.537 ✓	0.000 ✓	0.483 ✓	0.483 ✓
	योग:-	1	0.537	0.000	0.483	0.483
6	रोडजी पिता भागचन्द जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	83/6 ✓	0.730 ✓	0.000 ✓	0.365 ✓	0.365 ✓
	योग:-	1	0.730	0.000	0.365	0.365
7	शिव पिता रामलाल जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	83/7 ✓	1.236 ✓	0.000 ✓	0.865 ✓	0.865 ✓
	योग:-	1	1.236	0.000	0.865	0.865
8	अलाटमेट	83/8 ✓	0.615 ✓	0.000 ✓	0.615 ✓	0.615 ✓
	योग:-	1	0.615	0.000	0.615	0.615
9	जसवन्तसिंह पिता जगन्नाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि सवामी, रतनसिंह पिता जगन्नाथसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी, कृष्णपालसिंह पिता जगन्नाथसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	85/1/1	1.138 ✓	0.000 ✓	0.607 ✓	0.607
	योग:-	1	1.138	0.000	0.607	0.607
10	कन्हैया पिता मदन जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	85/4/2 ✓	0.320 ✓	0.000 ✓	0.256 ✓	0.256 ✓
	योग:-	1	0.320	0.000	0.256	0.256

संक्र.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रक्खा	सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
	2	3	4	5	6	7
11	कैलाश पिता मुंशी जाति मेहतर नि. ग्राम भूमि स्वामी	85/4/3	0.271 ✓	0.000 ✓	0.271 ✓	0.271 ✓
	योग:-	1	0.271	0.000	0.271	0.271 ✓
12	शारदाबाई पति अमृतलाल जाति मेहतर नि. ग्राम भूमि स्वामी	85/4/5	1.000 ✓	0.000 ✓	0.700 ✓	0.700 ✓
	योग:-	1	1.000	0.000	0.700	0.700 ✓
13	प्रेमसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	86 ✓ 88/1 ✓	0.518 ✓ 0.796 ✓	0.000 ✓ 0.000 ✓	0.518 ✓ 0.637 ✓	0.518 ✓ 0.637 ✓
	योग:-	2	1.314 ✓	0.000 ✓	1.155 ✓	1.155 ✓
14	महेन्द्रपालसिंह पिता जालमसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	88/2 ✓	1.316 ✓	0.000 ✓	1.184 ✓	1.184 ✓
	योग:-	1	1.316	0.000	1.184	1.184 ✓
15	विकमसिंह पिता दलपतसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	90/1/1 ✓	1.340 ✓	0.938 ✓	0.000 ✓	0.938 ✓
	योग:-	1	1.340	0.938	0.000	0.938 ✓
16	प्रहलादसिंह पिता दलपतसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	90/1/2 ✓	0.581 ✓	0.000 ✓	0.349 ✓	0.349 ✓
	योग:-	1	0.581	0.000	0.349	0.349 ✓
17	विजयसिंह पिता प्रहलादसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	90/1/3 ✓	0.759 ✓	0.379 ✓	0.000 ✓	0.379 ✓
	योग:-	1	0.759	0.379	0.000	0.379 ✓
18	कृष्णाकुवर पति चित्रभानसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	90/2 ✓	1.138 ✓	0.000 ✓	0.797 ✓	0.797 ✓
	योग:-	1	1.138	0.000	0.797	0.797 ✓
	ग्राम चौसला का महायोग :-	20	19.370 ✓	3.917 ✓	9.645 ✓	13.562 ✓

**पिपल्याकुमार तालाब की डेम लाईन/ डूब क्षेत्र/ वेस्टवियर में प्रभावित ग्राम टोडरी**

1	मांगीलाल पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	119/1/1 121/2/1 125/3/1 125/6/1 129/1 129/3/1 133/3/1 126 134/2/1	0.553 ✓ 0.355 ✓ 0.365 ✓ 0.085 ✓ 0.341 ✓ 0.089 ✓ 0.120 ✓ 0.101 ✓ 0.228 ✓	0.000 ✓ 0.000 ✓ 0.000 ✓ 0.000 ✓ 0.000 ✓ 0.000 ✓ 0.120 ✓ 0.000 ✓ 0.000 ✓	0.553 ✓ 0.355 ✓ 0.365 ✓ 0.085 ✓ 0.341 ✓ 0.089 ✓ 0.120 ✓ 0.101 ✓ 0.228 ✓	0.553 ✓ 0.355 ✓ 0.365 ✓ 0.085 ✓ 0.341 ✓ 0.089 ✓ 0.120 ✓ 0.101 ✓ 0.228 ✓
	योग:-	9	2.237 ✓	0.120 ✓	2.117 ✓	2.237 ✓

संक.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रक्खा	सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
	2	3	4	5	6	7
2	नारायणसिंह पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	119/1/2 121/2/2 125/3/2 125/4 129/3/2 133/3/2 125/6/2 134/2/2	0.553 0.355 0.365 0.110 0.421 0.121 0.085 0.227	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.121 0.000 0.000	0.553 0.355 0.365 0.110 0.421 0.000 0.085 0.227	0.553 0.355 0.365 0.110 0.421 0.121 0.085 0.227
	योग:-	8	2.237	0.121	2.116	2.237
3	मानसिंह, भावसिंह दरियावसिंह, बहादरसिंह पिता केसरसिंह गंगाबाई बेवा केसरसिंह जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	119/2 121/1 129/2 125/2 125/5	1.107 0.213 0.342 0.665 0.430	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.166 0.213 0.342 0.665 0.430	0.166 0.213 0.342 0.665 0.430
	योग:-	5	2.757	0.000	1.816	1.816
4	मांगीलाल पिता भेरजी जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	120/1 127	0.784 0.114	0.000 0.000	0.784 0.114	0.784 0.114
	योग:-	2	0.898	0.000	0.898	0.898
5	भावसिंह पिता केसरजी जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	120/2	0.253	0.000	0.253	0.253
	योग:-	1	0.253	0.000	0.253	0.253
6	मांगीलाल, नारायणसिंह पिता नाथूलाल, केसर पिता भोना जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	122	0.797	0.000	0.239	0.239
	योग:-	1	0.797	0.000	0.239	0.239

संक्र.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	सिचित	असिचित	कुल भूमि
	2	3	4	5	6	7
7	मांगीलाल, नारायणसिंह पिता नाथसिंह केशरजी पिता भोनजी, मांगीलाल पिता भेरिया भंवरीबाई बेवा धीसा जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूमि रखामी	125/1	1.309	0.000	1.309	1.309
	योग:-	1	1.309	0.000	1.309	1.309
8	अमृतसिंह पिता नारायणसिंह भगवानसिंह पिता धीरपसिंह जाति सौंधिया नि. भूमि रखामी	133/1 134/1	0.126 0.076	0.000 0.000	0.126 0.076	0.126 0.076
	योग:-	2	0.202	0.000	0.202	0.202
9	बहादुरसिंह पिता केसरसिंह जाति सौंधिया भूमि रखामी	133/2	0.253	0.000	0.253	0.253
	योग:-	1	0.253	0.000	0.253	0.253
	ग्राम टोडरी का महायोग :-	30	10.943	0.241	9.203	9.444

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुबिभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजगढ़) राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

राजगढ़ दिनांक 11543  
प्रारंभिक अधिसूचना 08/02/17

(अंतर्गत धारा – 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया बौद्ध परियोजना तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बौद्ध निर्माण के ढूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम – टोलीघाटा		तहसील – सारंगपुर	जिला राजगढ़
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा	हैक्टर
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बौद्ध परियोजना के निर्माण में एवं ढूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	129.254	118.327
	योग	129.254	118.327

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बौद्ध परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का
				2
1	पूरा पिता पूना जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2/2/2	0.506	0.506
	योग		0.506	0.506
2	सिंद्रनाथ पिता माधोसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2/3	2.023	2.023
	योग		2.023	2.023
3	गणपत केसर बाइ रामबाइ पिता रामकिशन जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2/4/1	0.286	0.286
	योग		0.286	0.286
4	सिद्धुलाल गोकुल पिता माधू जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2/4/2	0.285	0.285
	योग		0.285	0.285
5	लाल सिंह पिता रामसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/1	0.544	0.544
	योग		0.544	0.544

6	देवीसिंह पिता रामसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/2	0.544	0.544
	योग		0.544	0.544
7	लाल सिंह पिता रामसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4	0.291	0.291
	योग		0.291	0.291
8	देवीसिंह पिता रामसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	5	0.380	0.380
	योग		0.380	0.380
9	लाल सिंह पिता रामसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	6/1	1.044	1.044
	योग		1.044	1.044
10	देवीसिंह पिता रामसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	6/2	1.044	1.044
			1.044	1.044
11	लाल सिंह पिता रामसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7	0.745	0.745
	योग		0.745	0.745
12	देवीसिंह पिता रामसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8	0.429	0.429
	योग		0.429	0.429
13	देवीसिंह पिता रामसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9	0.328	0.328
	योग		0.328	0.328
14	लाल सिंह पिता रामसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	10/1/1	0.689	0.689
	योग		0.689	0.689
15	देवीसिंह पिता रामसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	10/1/2	0.689	0.689
	योग		0.689	0.689
16	प्रह्लादसिंह चंद्र सिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत निवासी कालापीपल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	10/2/1	0.689	0.689
	योग		0.689	0.689
17	भगवान सिंह पिता देवीसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	10/2/2	0.689	0.689
	योग		0.689	0.689
18	कालू अमर सिंह पिता बलदेव जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11	0.898	0.898
	योग		0.898	0.898
19	देवीसिंह पिता रामसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	12	0.190	0.190
	योग		0.190	0.190

20	लाल सिंह पिता रामसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	13/1	0.610	0.610
	योग		0.610	0.610
21	देवीसिंह पिता रामसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	13/2	0.304	0.304
	योग		0.304	0.304
22	लाल सिंह पिता रामसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/1	0.116	0.116
	योग		0.116	0.116
23	देवीसिंह पिता रामसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/2	0.200	0.200
	योग		0.200	0.200
24	सजनसिंह पिता देवीसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	15/1/1	0.506	0.506
	योग		0.506	0.506
25	हरिसिंह पिता धूला एवं बापूसिंह पिता दवौसहि जाति दॉगी निवास ग्राम सेदरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	15/1/2	1.012	1.012
	योग		1.012	1.012
26	देवीसिंह पिता भागीरथ जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	15/2	0.506	0.506
	योग		0.506	0.506
27	लाल सिंह पिता रामसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	15/3/1	0.455	0.455
	योग		0.455	0.455
28	देवीसिंह पिता रामसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	15/3/2	0.455	0.455
	योग		0.455	0.455
29	देवीसिंह पिता भागीरथ जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	16/1	1.012	1.012
	योग		1.012	1.012
30	लाल सिंह पिता रामसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	16/2	0.506	0.506
	योग		0.506	0.506
31	गणपत केसर बाइ रामबाइ पिता रामकिशन जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	17/1	1.411	1.411
	योग		1.411	1.411
32	सिद्धुलाल गोकुल पिता माधू जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	17/2	1.411	1.411
	योग		1.411	1.411
33	लक्ष्मीनारायण पिता मथरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	18/1	0.778	0.778
	योग		0.778	0.778

34	रामप्रसाद पिता मथरालाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	18/2	0.795	0.795
	योग		0.795	0.795
35	कमलाप्रसाद पिता मथरालाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	18/3	0.939	0.939
	योग		0.939	0.939
36	गुलाबसिंह पिता रामनारायण जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	18/4	1.047	1.047
	योग		1.047	1.047
37	गोकुल तिं भाधू जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	18/5	0.392	0.392
	योग		0.392	0.392
38	राधाकिशन पिता तुलसीराम जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	19	0.227	0.227
	योग		0.227	0.227
39	राधाकिशन पिता तुलसीराम जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	20	0.049	0.049
	योग		0.049	0.049
40	बद्रीलाल पिता मथरालाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	21/1	0.327	0.327
	योग		0.327	0.327
41	बद्रीलाल पिता मथरालाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	21/2/1	0.304	0.304
	योग		0.304	0.304
42	रामनारायण पिता कैवरलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	21/2/2	0.303	0.303
	योग		0.303	0.303
43	बद्रीलाल पिता मथरालाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	22/1	0.100	0.100
	योग		0.100	0.100
44	रामनारायण पिता कैवरलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	22/2	0.078	0.078
	योग		0.078	0.078
45	रामनारायण पिता कैवरलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	23/1/1	0.710	0.710
	योग		0.710	0.710
46	रामनारायण पिता कैवरलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	23/1/2	0.416	0.416
	योग		0.416	0.416
47	बद्रीलाल पिता मथरालाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	23/1/3	0.416	0.416
	योग		0.416	0.416
48	हरिप्रसाद पिता नारायण जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	23/2/1	0.674	0.674

	योग		0.674	0.674
49	गोकुल पिता माधू जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	23/2/2	0.338	0.338
	योग		0.338	0.338
50	रामप्रसाद पिता मथरालाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	23/2/3	0.338	0.338
	योग		0.338	0.338
51	रामनारायण पिता कॅवरलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	24/1	0.089	0.089
	योग		0.089	0.089
52	हरिप्रसाद पिता नारायण जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	24/2/1	0.065	0.065
	योग		0.065	0.065
53	रामप्रसाद पिता मथरालाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	24/2/2	0.065	0.065
	योग		0.065	0.065
54	बद्रीलाल पिता मथरालाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	24/3	0.024	0.024
	योग		0.024	0.024
55	बद्रीलाल पिता मथरालाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	25/1/1	0.041	0.041
	योग		0.041	0.041
56	अमरसिंह पिता नाथू जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	25/1/2	0.680	0.680
	योग		0.680	0.680
57	अमरसिंह पिता नाथू जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	25/2	0.405	0.405
	योग		0.405	0.405
58	बद्रीलाल पिता मथरालाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	26	0.340	0.340
	योग		0.340	0.340
59	गणपत केसर बाइ रामबाइ पिता रामकिशन जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	27/1	0.816	0.816
	योग		0.816	0.816
60	सिद्धलाल गोकुल पिता माधू जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	27/2	0.815	0.815
	योग		0.815	0.815
61	अमरसिंह पिता नाथू जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	28	0.178	0.178
	योग		0.178	0.178
62	गणपत केसर बाइ रामबाइ पिता रामकिशन जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	29/1/1	1.500	1.500
	योग		1.500	1.500

63	श्रीनाथ गोकुल पिता माधू जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	29/1/2	1.499	1.499
	योग		1.499	1.499
64	अमरसिंह पिता नाथू जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	29/2	0.215	0.215
	योग		0.215	0.215
65	अमरसिंह पिता नाथू जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	29/3	0.077	0.077
	योग		0.077	0.077
66	हरिप्रसाद पिता नारायण जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	30/1	0.287	0.287
	योग		0.287	0.287
67	गोकुल पिता माधू जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	30/2	0.163	0.163
	योग		0.163	0.163
68	हरिप्रसाद पिता नारायण जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	31	0.053	0.053
	योग		0.053	0.053
69	देवीलाल पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	34/1 41 42/1	0.953	0.953
	योग		0.953	0.953
70	गंगाराम पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	34/2	0.759	0.759
	योग		0.759	0.759
71	देवीलाल पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	35/1	0.101	0.101
	योग		0.101	0.101
72	गंगाराम पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	35/2	0.101	0.101
	योग		0.101	0.101
73	देवीलाल पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	36/1	0.045	0.045
	योग		0.045	0.045
74	गंगाराम पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	36/2	0.044	0.044
	योग		0.044	0.044
75	देवीलाल पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	38/1	0.012	0.012
	योग		0.012	0.012
76	गंगाराम पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	38/2	0.012	0.012
	योग		0.012	0.012
77	देवीलाल पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	39/1	0.020	0.020

	योग		0.020	0.020
78	गंगाराम पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	39/2	0.021	0.021
	योग		<b>0.021</b>	<b>0.021</b>
79	देवीलाल पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	40/1	0.012	0.012
	योग		<b>0.012</b>	<b>0.012</b>
80	गंगाराम पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	40/2	0.012	0.012
	योग		<b>0.012</b>	<b>0.012</b>
81	देवीलाल पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	41/1	0.316	0.316
	योग		<b>0.316</b>	<b>0.316</b>
82	गंगाराम पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	41/2	0.317	0.317
	योग		<b>0.317</b>	<b>0.317</b>
83	देवीलाल पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	42/1	0.018	0.018
	योग		<b>0.018</b>	<b>0.018</b>
84	गंगाराम पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	42/2	0.018	0.018
	योग		<b>0.018</b>	<b>0.018</b>
85	देवीलाल पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	43/1	0.215	0.215
	योग		<b>0.215</b>	<b>0.215</b>
86	गंगाराम पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	43/2	0.209	0.209
	योग		<b>0.209</b>	<b>0.209</b>
87	देवीलाल पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	44/1	0.417	0.417
	योग		<b>0.417</b>	<b>0.417</b>
88	गंगाराम पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	44/2	0.417	0.417
	योग		<b>0.417</b>	<b>0.417</b>
89	देवीलाल पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	45/1	0.050	0.050
	योग		<b>0.050</b>	<b>0.050</b>
90	गंगाराम पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	45/2	0.051	0.051
	योग		<b>0.051</b>	<b>0.051</b>
91	देवीलाल पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	46/1	0.107	0.107
	योग		<b>0.107</b>	<b>0.107</b>

92	गंगाराम पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	46/2	0.107	0.107
	योग		0.107	0.107
93	देवीलाल पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	48/1	1.214	1.214
	योग		1.214	1.214
94	गंगाराम पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	48/2	1.214	1.214
	योग		1.214	1.214
95	रामसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर निवासी कालापीपल पता निवासी ग्राम कालापीपल भूमि स्वामी	49/1	0.140	0.140
	योग		0.140	0.140
	मानसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम कालापीपल भूमि स्वामी	49/2	0.141	0.141
	योग		0.141	0.141
96	रामसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर निवासी कालापीपल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	50/1	1.771	1.771
	योग		1.771	1.771
96	मान सिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर निवासी कालापीपल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	50/2	1.771	1.771
	योग		1.771	1.771
97	पन्नालाल पिता रतन सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	51/1	0.611	0.611
	योग		0.611	0.611
98	करण सिंह पिता रतन सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	51/2	0.611	0.611
	योग		0.611	0.611
99	कालु सिंह पिता रतन सिंह अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	51/3	0.611	0.611
	योग		0.611	0.611
100	पन्नालाल पिता रतन सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	52/1	0.097	0.097
	योग		0.097	0.097
101	करण सिंह पिता रतन सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	52/2	0.097	0.097
	योग		0.097	0.097
102	कालु सिंह पिता रतन सिंह अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	52/3	0.097	0.097
	योग		0.097	0.097
103	पन्नालाल पिता रतन सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	53/1	0.624	0.624
	योग		0.624	0.624

104	करण सिंह पिता रतन सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	53/2	0.625	0.625
	योग		0.625	0.625
105	कालु सिंह पिता रतन सिंह अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	53/3	0.625	0.625
	योग		0.625	0.625
106	पन्नालाल पिता रतन सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	54/1	0.173	0.173
	योग		0.173	0.173
107	करण सिंह पिता रतन सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	54/2	0.173	0.173
	योग		0.173	0.173
108	कालु सिंह पिता रतन सिंह अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	54/3	0.172	0.172
	योग		0.172	0.172
109	पन्नालाल पिता रतन सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	55/1	0.172	0.172
	योग		0.172	0.172
110	करण सिंह पिता रतन सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	55/2	0.173	0.173
	योग		0.173	0.173
111	कालु सिंह पिता रतन सिंह अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	55/3	0.173	0.173
	योग		0.173	0.173
112	राधेश्याम पिता रामचंद्र जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	56	1.048	1.048
	योग		1.048	1.048
113	मथरालाल पिता कंवरलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	57/1	1.226	1.226
	योग	57/1/2	0.271	0.271
			1.497	1.497
114	रामनारायण पिता कंवर लाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	57/1/3	0.271	0.271
	योग		0.271	0.271
115	मथरालाल पिता कंवरलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	57/2	0.506	0.506
116	योग		0.506	0.506
	रामनारायण पिता कंवरलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	57/3	0.506	0.506
	योग		0.506	0.506
117	रामनारायण पिता कंवरलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	58	0.684	0.684
	योग		0.684	0.684

118	कालु अमर सिह पिता बल्देव जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	63	0.733	0.733
119	योग जयनारायण बद्रीलाल पिता कालु सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	65/1	0.733 1.226	0.733 1.226
	योग		1.226	1.226
120	भेरु सिह जगन्नाथ सिह पिता नंदलाल 1/2, कंवरलाल बापूलाल अमर सिह गोपीलाल मुन्नालाल पिता भंवरलाल जाति धाकड़ 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	65/2/1	0.506	0.506
	योग		0.506	0.506
121	मथुरालाल पिता कंवरलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	65/2/2	0.315	0.315
122	योग रामनारायण पिता कंवरलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	65/2/3	0.315 0.316	0.315 0.316
	योग		0.316	0.316
123	कालु अमर सिह पिता बल्देव जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	66	1.189	1.000
	योग		1.189	1.000
124	अमरु बाई पिता नारायण सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	67/1	0.595	0.595
125	योग सौरम बाई पति बद्रीलाल जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	67/2	0.595 0.594	0.595 0.594
	योग		0.594	0.594
126	नारायण सिह पिता जालम सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	69	2.683	2.683
	योग		2.683	2.683
127	राधेश्याम पिता फत्ता, कौशल्या बाई पति राधेश्याम जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	70	2.059	1.359
128	योग नारायण सिह पिता जालम सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	72/2	2.059 3.035	1.359 0.700
	योग		3.035	0.700
129	गोरुधन पिता रुगनाथ सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	72/3/1	1.072	0.772
	योग		1.072	0.772
130	मथुरालाल पिता कंवरलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	72/4	2.529	0.150
131	योग रुद्धनाथ सिंह पिता अमर सिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	72/5/3	0.117	0.117

9391

	योग		0.117	0.117
132	बद्रीलाल पिता मथुरालाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	74/1/1/2	0.165	0.165
	योग		0.165	0.165
133	कब्बुबाई बैवा हीरा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	74/3/1	2.404	1.504
	योग		2.404	1.504
134	राधाकिशन पिता तुलसीराम जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	74/2	1.267	1.000
	योग		1.267	1.000
135	रामप्रसाद पिता मथरालाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	74/3/2	0.126	0.126
	योग		0.126	0.126
136	देवी सिह पिता राम सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	79	0.166	0.166
	योग		0.166	0.166
137	लाल सिह पिता राम सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	80	0.255	0.255
	योग		0.255	0.255
138	लाल सिह पिता राम सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	81/1	0.086	0.086
	योग		0.086	0.086
139	देवी सिह पिता राम सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	81/2	0.039	0.039
	योग		0.039	0.039
140	देवी सिह पिता राम सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	82	0.253	0.253
	योग		0.253	0.253
141	देवी सिह पिता राम सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	83	0.049	0.049
	योग		0.049	0.049
142	लाल सिह पिता राम सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	84/1	0.101	0.101
	योग		0.101	0.101
143	देवी सिह पिता राम सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	84/2	0.102	0.102
	योग		0.102	0.102
144	लाल सिह पिता राम सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/1	0.057	0.057
	योग		0.057	0.057
145	देवी सिह पिता राम सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/2	0.056	0.056
	योग		0.056	0.056

7791

146	लाल सिह पिता राम सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	86/1	0.241	0.241
	योग		0.241	0.241
147	देवी सिह पिता राम सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	86/2	0.241	0.241
	योग		0.241	0.241
148	लाल सिह पिता राम सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	87/1	0.360	0.360
	योग		0.360	0.360
149	देवी सिह पिता राम सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	87/2	0.361	0.361
	योग		0.361	0.361
150	लाल सिह पिता राम सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	88	0.125	0.125
	योग		0.125	0.125
151	लाल सिह पिता राम सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	89/1	0.321	0.321
	योग		0.321	0.321
152	देवी सिह पिता राम सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	89/2	0.322	0.322
	योग		0.322	0.322
153	देवी सिह पिता राम सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	91	0.012	0.012
	योग		0.012	0.012
154	देवीलाल पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	92/1	0.065	0.065
	योग		0.065	0.065
155	गंगाराम पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	92/2	0.064	0.064
	योग		0.064	0.064
156	गणपत केसर बाई रामबाई पिता रामकिशन जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	93/1	0.227	0.227
	योग		0.227	0.227
157	सिद्धुलाल गोकुल पिता माधू जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	93/2	0.190	0.190
		94	0.036	0.036
	योग		0.226	0.226
158	देवीसिंह पिता रामसिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	95/1	0.101	0.101
	योग		0.101	0.101
159	लाल सिह पिता राम सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	96/1	0.178	0.178
	योग		0.178	0.178

160	देवी सिंह पिता राम सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	96/2	0.065	0.065
	योग		0.065	0.065
161	लाल सिंह पिता राम सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	101	0.012	0.012
	योग		0.012	0.012
162	लाल सिंह पिता राम सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	102/1	0.134	0.134
	योग		0.134	0.134
163	देवी सिंह पिता राम सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	102/2	0.145	0.145
	योग		0.145	0.145
164	गणपत केसर बाई रामबाई पिता रामकिशन जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	104/1	0.039	0.039
	योग		0.039	0.039
165	श्रीनाथ गाकूल पिता माधू जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	104/2	0.062	0.062
	योग		0.062	0.062
166	गणपत केसर बाई रामबाई पिता रामकिशन जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	105	0.024	0.024
	योग		0.024	0.024
167	उंकार पिता गणेश जाति माली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	106	0.065	0.065
	योग		0.065	0.065
168	लाल सिंह पिता राम सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	107	0.166	0.166
	योग		0.166	0.166
169	गणपत केसर बाई रामबाई पिता रामकिशन जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	108	0.012	0.012
	योग		0.012	0.012
170	देवीसिंह पिता मेताब सिंह जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	111/1	0.026	0.026
	योग		0.026	0.026
171	लाल सिंह पिता राम सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	111/2/1	0.014	0.014
	योग		0.014	0.014
172	देवसिंह पिता राम सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	111/2/2	0.013	0.013
	योग		0.013	0.013
173	कालू अमर सिंह पिता पिता बलदेव जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	112	0.368	0.368
	योग		0.368	0.368
174	मथुरालाल पिता कंवरलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	113/1	0.069	0.069

	योग		0.069	0.069
175	रामनारायण पिता कंवरलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	113/2	0.069	0.069
	योग		0.069	0.069
176	सौरम बाई पति कालु सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	114	0.101	0.101
	योग		0.101	0.101
177	कालु अमर सिंह पिता बल्देव जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	115/2	0.036	0.036
	योग		0.036	0.036
178	रामबाबू सुरेश पिता बापू, शातिबाई बैवा बापू जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	121	0.559	0.559
	योग		0.559	0.559
179	मथरालाल पिता कंवरलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	122/1	0.140	0.140
	योग		0.140	0.140
180	रामनारायण पिता कंवरलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	122/2	0.139	0.139
	योग		0.139	0.139
181	सौरम बाई पति कालु सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	123	0.024	0.024
	योग		0.024	0.024
182	सौरम बाई पति कालु सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	124	0.053	0.053
	योग		0.053	0.053
183	सौरम बाई पति कालु सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	125	0.024	0.024
	योग		0.024	0.024
184	मथरालाल पिता कंवरलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	126/1	0.152	0.152
	योग		0.152	0.152
185	रामनारायण पिता कंवरलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	126/2	0.152	0.152
	योग		0.152	0.152
186	मोहन राधेश्याम देवीसिंह पिता रामनारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	127/1	0.081	0.081
	योग		0.081	0.081
187	राधेश्याम पिता रामनारायण सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	127/2	0.081	0.081
	योग		0.081	0.081
188	देवी सिंह पिता रामनारायण सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	127/3	0.081	0.081
	योग		0.081	0.081

189	गोविंद पिता शंकर जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	127/4	0.082	0.082
	योग		<b>0.082</b>	<b>0.082</b>
190	मोहन राधेश्याम देवीसिंह पिता रामनारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	128/1	0.083	0.083
	योग		<b>0.083</b>	<b>0.083</b>
191	राधेश्याम पिता रामनारायण सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	128/2	0.083	0.083
	योग		<b>0.083</b>	<b>0.083</b>
192	देवीसिंह पिता रामनारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	128/3	0.083	0.083
	योग		<b>0.083</b>	<b>0.083</b>
193	गोविंद पिता शंकर जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	128/4	0.083	0.083
	योग		<b>0.083</b>	<b>0.083</b>
194	मोहन राधेश्याम देवीसिंह पिता रामनारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	129/1	0.009	0.009
	योग		<b>0.009</b>	<b>0.009</b>
195	राधेश्याम पिता रामनारायण सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	129/2	0.009	0.009
	योग		<b>0.009</b>	<b>0.009</b>
196	देवीसिंह पिता रामनारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	129/3	0.009	0.009
	योग		<b>0.009</b>	<b>0.009</b>
197	गोविंद पिता शंकर जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	129/4	0.009	0.009
	योग		<b>0.009</b>	<b>0.009</b>
198	कालु अमर सिंह पिता बलदेव जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	130	0.328	0.328
	योग		<b>0.328</b>	<b>0.328</b>
199	मोहन राधेश्याम देवीसिंह पिता रामनारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	131/1/1	0.006	0.006
	योग		<b>0.006</b>	<b>0.006</b>
200	राधेश्याम पिता रामनारायण सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	131/1/2	0.006	0.006
	योग		<b>0.006</b>	<b>0.006</b>
201	देवसिंह पिता रामनारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	131/1/3	0.007	0.007
	योग		<b>0.007</b>	<b>0.007</b>
202	गोविंद पिता शंकर जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	131/1/4	0.007	0.007
	योग		<b>0.007</b>	<b>0.007</b>
203	कालु अमर सिंह पिता बलदेव जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	131/2	0.027	0.027

	योग		0.027	0.027
204	पूरा पिता भंवर लाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	132	0.202	0.202
		133	0.227	0.227
	योग		0.429	0.429
205	देवीलाल पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	134/1	0.071	0.071
	योग		0.071	0.071
	206 गंगाराम पिता लक्ष्मण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	134/2	0.071	0.071
	योग		0.071	0.071
207	सिद्धनाथ पिता माधोसिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	135/1	0.322	0.322
	योग		0.322	0.322
	208 मथरा पिता कंवरलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	135/2	0.322	0.322
	योग		0.322	0.322
209	नारायण सिंह पिता जालम सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	136/2	0.036	0.036
	योग		0.036	0.036
	210 नारायण सिंह पिता जालम सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	137	0.214	0.214
	योग		0.214	0.214
211	सौरम बाई पति कालु सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	138	0.243	0.243
	योग		0.243	0.243
	212 राधेश्याम पिता रामनारायण सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	139	0.024	0.024
	योग		0.024	0.024
213	सौरम बाई पति कालु सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	140	0.024	0.024
		141	0.036	0.036
	योग		0.060	0.060
214	पूरा पिता पूना जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	142/2	0.057	0.057
	योग		0.057	0.057
	215 पूरा पिता पूना जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	143/2	0.057	0.057
	योग		0.057	0.057
216	सौरम बाई पति कालु सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	146	0.089	0.089
		147	0.036	0.036
		148	0.036	0.036
	योग	2400	0.161	0.161

217	रामबाबू सुरेश पिता बापू , शांतिबाई बैवा बापू जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी योग	149	0.061	0.061
218	जयनारायण बद्रीलाल पिता कालु सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी योग	150	0.368	0.368
219	रामबाबू सुरेश पिता बापू शांति बाई बैवा बापू जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी योग	151 152	0.178 0.178	0.178 0.178
220	रामबाबू सुरेश पिता बापू शांति बाई बैवा बापू जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी योग	153	0.061	0.061
221	सौरम बाई पति कालु सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी योग	154	0.077	0.077
222	नारायण सिह पिता जालम सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी योग	155 156	0.519 0.024	0.519 0.024
223	नारायण सिह पिता जालम सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी योग	157	0.065	0.065
224	रामबाबू सुरेश पिता बापू शांति बाई बैवा बापू जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी योग	158	0.024	0.024
225	पन्नालाल करण सिंह कालू सिंह पिता रतन, हिस्सा 33 पैसे , लक्ष्मण पिता उंकार, रामबाबू सुरेश पिता बापू , शांति बाई बैवा बापू , हिस्सा 67 पैसे जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी योग	160	0.809	0.809
226	पूरा पिता पूना जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी योग	161/2	0.096	0.096
227	पूरा पिता पूना जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी योग	162/2	0.006	0.006
228	पूरा पिता पूना जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी योग	163/2	0.303	0.303
229	मोहन राधेश्याम देवीसिंह पिता रामनारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	164/1	0.205	0.205

	योग		<b>0.205</b>	<b>0.205</b>
230	राधेश्याम पिता रामनारायण सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	164/2	0.205	0.205
	योग		<b>0.205</b>	<b>0.205</b>
231	देवसिंह पिता रामनारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	164/3	0.206	0.206
	योग		<b>0.206</b>	<b>0.206</b>
232	गोविंद पिता शंकर जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	164/4	0.206	0.206
	योग		<b>0.206</b>	<b>0.206</b>
233	जयनारायण बद्रीलाल पिता कालु सिंह ना.बा.सरपरस्त पिता कालु सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	165	0.758	0.758
	योग		<b>0.758</b>	<b>0.758</b>
234	भैरू सिंह जगन्नाथ सिंह पिता नंदलाल 1/2, कंवरलाल बापूलाल अमर सिंह गोपीलाल मुन्नलाल पिता भंवरलाल जाति धाकड़ 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	167	0.773	0.773
	योग		<b>0.773</b>	<b>0.773</b>
235	कालु सिंह पिता मांगीलाल जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	168	1.404	1.404
	योग		<b>1.404</b>	<b>1.404</b>
236	कालु सिंह पिता मांगीलाल जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	169/1	0.761	0.761
	योग		<b>0.761</b>	<b>0.761</b>
237	बद्रीलाल पिता नारायण सिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	169/2	1.416	1.416
	योग		<b>1.416</b>	<b>1.416</b>
238	मोहन राधेश्याम देवीसिंह पिता रामनारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	170/1	0.152	0.152
	योग		<b>0.152</b>	<b>0.152</b>
239	राधेश्याम पिता रामनारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	170/2	0.152	0.152
	योग		<b>0.152</b>	<b>0.152</b>
240	देवसिंह पिता रामनारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	170/3	0.152	0.152
	योग		<b>0.152</b>	<b>0.152</b>
241	गोविंद पिता शंकर जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	170/4	0.151	0.151
	योग		<b>0.151</b>	<b>0.151</b>
242	पूरा पिता भंवर लाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	171	0.773	0.773
	योग		<b>0.773</b>	<b>0.773</b>

243	गणपत केसर बाई रामबाई पिता रामकिशन जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	172/1	0.438	0.438
		173	0.202	0.202
		योग	0.640	0.640
244	सिद्धलाल गोकुल पिता माधू जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	172/2	0.639	0.639
		योग	0.639	0.639
245	शंकर लाल पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	174/1/1	1.000	1.000
		योग	1.000	1.000
246	सिद्धनाथ पिता किशन जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	174/1/2	1.000	1.000
		योग	1.000	1.000
247	रमेश पिता अमरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	174/1/3	1.000	1.000
		योग	1.000	1.000
248	प्रभुलाल पिता भंवर लाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	174/1/4	1.300	1.300
		योग	1.300	1.300
249	देवीसिंह पिता भागीरथ जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	174/1/5	1.000	1.000
		योग	1.000	1.000
250	पूरा पिता भंवर लाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	174/1/6	1.000	1.000
		योग	1.000	1.000
251	जयनारायण बद्रीलाल पिता कालु सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	174/2	0.316	0.316
		योग	0.316	0.316
252	रामबाबू सुरेश पिता बापू शांति बाई बैवा बापू जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	175/1	1.417	1.417
		176/2	0.165	0.165
		योग	1.582	1.582
253	जयनारायण बद्रीलाल पिता कालु सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	175/2	2.379	2.379
		योग	2.379	2.379
254	जयनारायण बद्रीलाल पिता कालु सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	176/1	0.113	0.113
		177	1.998	1.998
		योग	2.111	2.111
255	मोहन राधेश्याम देवीसिंह पिता रामनारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	178/1	0.475	0.475
		योग	0.475	0.475
256	राधेश्याम पिता रामनारायण सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	178/2	0.475	0.475

	योग		0.475	0.475
257	देवसिंह पिता रामनारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	178/3	0.474	0.474
	योग		0.474	0.474
258	गोविंद पिता शंकर जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	178/4	0.474	0.474
	योग		0.474	0.474
259	नारायण सिंह पिता जालम सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	179	1.226	1.226
	योग		1.226	1.226
260	अमरु बाई पिता नारायण सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	184/2/1	2.739	2.239
	योग		2.739	2.239
261	सौरम बाई पति बद्रीलाल जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	184/2/2	2.571	2.071
	योग		2.571	2.071
262	शंकर पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	185/1	0.150	0.150
	योग		0.150	0.150
263	कैलाश पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	185/2	0.200	0.200
	योग		0.200	0.200
264	नारायण सिंह पिता जालम सिंह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	186	0.227	0.227
	योग		0.227	0.227
265	कैलाश पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	187/1	0.200	0.200
	योग		0.200	0.200
266	रमेश पिता अमरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	187/2	0.350	0.350
	योग		0.350	0.350
267	सिंह, लालड़कांवुर पिता किशन, ककुबाई बेवा किशन जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	188/1/1	1.000	1.000
	योग		1.000	1.000
268	पन्नालाल पिता रतन जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	188/1/2	1.000	1.000
	योग		1.000	1.000
269	बने सिंह पिता लालसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	188/1/3	2.000	2.000

	योग		2.000	2.000
270	जयनारायण बद्रीलाल पिता कालु सिह जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	194/3/1	0.594	0.500
	योग		0.594	0.500
271	राधेश्याम पिता फत्ता, कौशल्या बाई पति राधेश्याम जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	194/4	0.822	0.822
	योग		0.822	0.822
272	राधेश्याम पिता रामचंद्र जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	188/3/4	1.000	0.050
	योग		1.000	0.050
273	बापूलाल पिता तुलसीराम जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	194/6	2.013	0.200
	योग		2.013	0.200
	योग		129.254	118.327

नोट :— भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू – अर्जन अधिकारी सारंगपुर कार्यालय में किया जा सकता है।

11546  
08/02/17

क्रमांक /भू-अर्जन/2015-16 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित आबादी के अन्तर्गत निर्मित मकान जिनका कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित हैं, जिसकी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (के 30 सन 2013) की धारा-19 की उपधारा 1 के उपबन्धों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि कि निम्न वर्णित अनुसूची 1 में अंकित आबादी की भूमि सर्वे न. 230, 332/1, 332/2, 352/1 का कुल रकबा 3.068 हेक्टेयर पर रिथत परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**-: अनुसूची (1) :-**

**मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के द्वूष क्षेत्र में प्रभावित मकान :- ग्राम ढूगरपुर**

स.क.	आबादी का विवरण है-		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	प्रयोजन
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा				
1	2	3	4	5	6	7
1	230	1.037	आबादी	162	25734.83	मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण
2	332/1	1.727				
3	332/2	0.253				
4	352/1	0.051				
महायोग :-	4	3.068				
			महायोग :-	162	25734.83	

**परिसम्पत्तियों का विवरण**

स.क.			मकान मालिक का नाम	मकान नम्बर	अर्जीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	
1			इन्द्रसिंह पिता रामलाल जाति सौंधिया	1	117.22	/
2			भंवरलाल पिता प्यारजी जाति सौंधिया	2/1	119.86	/
3			दशरथ पिता भंवरलाल जाति सौंधिया	2/2	166.96	/
4			दरियावसिंह पिता मोहनलाल जाति सौंधिया	3/1		
			नारायणसिंह पिता मोहनलाल जाति सौंधिया	3/2		
			मावसिंह पिता मोहनलाल जाति सौंधिया	3/3	378.78	/
			मोहरसिंह पिता मोहनलालजी जाति सौंधिया	3/4		
5			हेमतसिंह पिता अनारसिंह जाति सौंधिया	4	110.00	/
6			कमलसिंह पिता अनारसिंह जाति सौंधिया	5/1	62.64	/
7			अनारसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया	5/2	33.06	/
8			कालूसिंह पिता अनारसिंह जाति सौंधिया	6/1	136.04	/
9			सरजन पिता निर्मयसिंह जाति सौंधिया	6/2	42.12	/
10			निर्मयसिंह पिता प्यारजी जाति सौंधिया	6/3	169.34	/
11			धापूबाई बेवा हजारीलाल जाति सौंधिया	6/4	150.51	/
12			श्रीलाल पिता देवीलाल जाति सौंधिया	7/1	174.15	/
13			भंवरीबाई बेवा श्री देवीलाल जाति सौंधिया	7/2	243.00	/
14			नौरगबाई बेवा मांगीलाल जाति सौंधिया	8	419.26	/
15			रामकलावाई बेवा कमलसिंह जाति सौंधिया	9	95.55	/
16			हजारीलाल पिता जगन्नाथ जाति कारीगर	10/1	40.84	/

संक्र.	आवादी का विवरण हुमें		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जीनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	प्रयोजन
	आवादी के सर्वे नं.	कुल एकबा				
1	2	3	4	5	6	7
17			मोहन पिता जगन्नाथ जाति कारीगर	10/2	26.25 ✓	
18			विष्णु पिता जगन्नाथ जाति कारीगर	10/3	38.91 ✓	
19			जगन्नाथ पिता उँकार जाति कारीगर	10/4	25.30 ✓	
20			गोकुल प्रसाद पिता जगन्नाथ जाति कारीगर	11	76.56 ✓	
21			आनन्दीलाल पिता मांगीलाल जाति सौंधिया	12	110.16 ✓	
22			श्रीलाल पिता श्री देवीलाल जाति सौंधिया	13	157.15 ✓	
23			धीरपसिंह पिता श्री दौलजी जाति सौंधिया	14	113.48 ✓	
24			रामकरण पिता हजारीलाल जाति सौंधिया	15	109.93 ✓	
25			शिवसिंह पिता केशरजी जाति सौंधिया	16	169.23 ✓	
26			इन्द्रसिंह पिता दरियावसिंह जाति सौंधिया	17/1	105.88 ✓	
27			लखनसिंह पिता दरियावसिंह जाति सौंधिया	17/2	105.88 ✓	
28			अमृतलाल पिता बिहारीलाल जाति सौंधिया	18/1	89.92 ✓	
29			गोपाल पिता मांगीलाल जाति सौंधिया	18/2	85.85 ✓	
30			कालूसिंह पिता मोतीलाल जाति सौंधिया	19	164.54 ✓	
31			प्रेमसिंह पिता हीरालाल जाति सौंधिया	20	103.74 ✓	
32			किशनलाल पिता पूरजी जाति सौंधिया	21	96.04 ✓	
33			संतोषबाई बेवा जगदीश जाति सौंधिया	22	134.38 ✓	
34			हिन्दुसिंह पिता देवीलाल जाति सौंधिया	23	150.62 ✓	
35			संतोषबाई बेवा जगदीश जाति सौंधिया	24	100.70 ✓	
36			राधेश्याम पिता रामसिंह जाति सौंधिया	25	174.46 ✓	
37			शिवनारायण पिता बनेसिंह जाति सौंधिया	26	200.09 ✓	
38			धीरपसिंह पिता हरीसिंह जाति सौंधिया	27/1	29.52 ✓	
			बलवन्त पिता हरीसिंह जाति सौंधिया	27/2		
39			बापू पिता हरीसिंह जाति सौंधिया	28/1	31.41 ✓	
			हरीसिंह पिता मोतीलाल जाति सौंधिया	28/2		
40			जगदीश पिता भैवरलाल जाति सौंधिया	29	29.64 ✓	
41			कुमेसिंह पिता प्यारजी जाति सौंधिया	30	192.05 ✓	
42			धीरपसिंह पिता हरीसिंह जाति सौंधिया	31	59.13 ✓	
43			बलवन्तसिंह पिता हरीसिंह जाति सौंधिया	32	62.60 ✓	
44			अमृतलाल पिता धीसालाल जाति सौंधिया	33	21.35 ✓	
45			मांगीलाल पिता धीसालाल जाति सौंधिया	34	23.10 ✓	
46			पप्पू पिता बनेसिंह जाति सौंधिया	35	159.84 ✓	
47			बापूलाल पिता हरीसिंह जाति सौंधिया	36	80.10 ✓	
48			पर्वत पिता शिवनारायण जाति सौंधिया	37	221.45 ✓	
49			लक्ष्मीचंद पिता कुमेसिंह जाति सौंधिया	38	125.88 ✓	
50			जगन्नाथ पिता रायसिंह जाति सौंधिया	39	172.58 ✓	
51			बीरमसिंह पिता श्री बापूलाल जाति सौंधिया	40	188.98 ✓	
52			प्रेमसिंह पिता छीतालाल जाति सौंधिया	41/1	178.81 ✓	
53			भैवरलाल पिता छीतालाल जाति सौंधिया	41/2	35.26 ✓	
54			कमलसिंह पिता भैवरलाल जाति सौंधिया	41/3	91.81 ✓	
55			देवीसिंह पिता भैवरलाल जाति सौंधिया	41/4	54.38 ✓	

संक्र.	आबादी का विवरण है.मे.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अजनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	प्रयोजन
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकवा				
1	2	3	4	5	6	7
56			जगदीश पिता भंवरलाल जाति सौंधिया	42 a	89.46 /	
57			धीरपसिंह पिता अमरसिंह जाति सौंधिया	42 b	108.41 /	
58			मांगीलाल पिता श्री अमरसिंह जाति सौंधिया	43	160.54 /	
59			राधेश्याम पिता श्री कालूजी जाति सौंधिया श्यामसिंह पिता श्री कालूजी जाति सौंधिया	44	131.48 /	
60			भगवानसिंह पिता कालूजी जाति सौंधिया	45	131.92 /	
61			मांगीलाल पिता पूरजी जाति हरिजन देवचंद पिता मांगीलाल जाति हरिजन मोहन पिता मांगीलाल जाति हरिजन बनवारी पिता देवचंद जाति हरिजन	46/1 46/2 46/3 46/4	187.66 /	
62			कमलसिंह पिता भांगीलाल जाति सौंधिया	46/B	98.00 /	
63			प्रभुलाल पिता पूराजी जाति हरिजन	47	89.88 /	
64			गोकुल पिता मदनलाल जाति हरिजन	48	88.38 /	
65			दिनेश पिता सिद्धुलाल जाति हरिजन	49	35.60 /	
66			ओमप्रकाश पिता सिद्धुलाल जाति हरिजन महेन्द्रसिंह पिता सिद्धुलाल जरति हरिजन	50/1 50/2	67.38 /	
67			भंवरलाल पिता मांगीलाल जाति हरिजन महेश पिता भंवरलाल जाति हरिजन मुकेश पिता भंवरलाल जाति हरिजन सतीश पिता भंवरलाल जाति हरिजन	51/1 51/2 51/3 51/4	114.21 /	
68			मांगीलाल पिता भागचंद जाति हरिजन श्यामबाबू पिता मांगीलाल जाति हरिजन ऐलकार पिता मांगीलाल जाति हरिजन	52/1 52/2 52/3	148.54 /	
69			हरीसिंह पिता बीरमसिंह जाति हरिजन	53	79.72 /	
70			बालू पिता बीरमसिंह जाति हरिजन	54	68.26 /	
71			समरीबाई बैंगा बीरमसिंह जाति हरिजन	55	39.96 /	
72			निर्मयसिंह पिता प्यारजी जाति सौंधिया सर्जनसिंह पिता निर्मयसिंह जाति सौंधिया प्रतापसिंह पिता निर्मयसिंह जाति सौंधिया दरियावबाई बैंवा प्यारजी जाति सौंधिया	56/1 56/2 56/3 56/4	159.90 /	
73			पूरसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया	57	183.22 /	
74			देवीलाल पिता श्रीलालजी जाति सौंधिया कृष्णलाल पिता देवीलाल जाति सौंधिया कुमेरसिंह पिता श्री देवीलाल जाति सौंधिया भगवानसिंह पिता श्री देवीलाल जाति सौंधिया	58/1 58/2 58/3 58/4	201.09 /	
75			अनोखसिंह पिता बंशीलाल जाति सौंधिया रामनाशायण पिता बंशीलाल जाति सौंधिया रामबाबू पिता बंशीलाल जाति सौंधिया बंशीलाल पिता भेरसिंह जाति सौंधिया	59/1 59/2 59/3 59/4	526.47 /	

स.क.	आवादी का विवरण है-		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अजनीय मकान का भाप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	प्रयोजन
	आवादी के सर्वे नं.	कुल रकबा				
1	2	3	4	5	6	7
76			देवीसिंह पिता श्री रतनलाल जाति सौंधिया	60/1	125.15 ✓	
77			रतनलाल पिता श्री जगन्नाथ जाति सौंधिया	60/2	17.21 ✓	
78			दुलेसिंह पिता रतनलाल जाति सौंधिया	61	120.31 ✓	
79			गजराजसिंह पिता रतनलालजी जाति सौंधिया	62	129.15 ✓	
80			नारायणसिंह पिता अनारसिंह जाति सौंधिया	63/1	324.36 ✓	
			हरीसिंह पिता अनारसिंह जाति सौंधिया	63/2		
81			अमृतलाल पिता घ्यारजी जाति सौंधिया	64/1	115.29 ✓	
82			हिन्दुसिंह पिता जगन्नाथ जी जाति सौंधिया	64/2	84.75 ✓	
83			पर्वतसिंह पिता श्री हीरालाल जाति सौंधिया	65/1	171.59 ✓	
84			हीरालाल पिता पूरजी जाति सौंधिया	65/2	23.80 ✓	
85			विजयसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया	66/1	185.85 ✓	
			भगवानसिंह पिता विजयसिंह जाति सौंधिया	66/2		
86			अमृतलाल पिता घ्यार जी जाति सौंधिया जगदीश पिता अमृतलाल जाति सौंधिया चैनसिंह पिता अमृतलाल जाति सौंधिया न्यालसिंह पिता अमृतलाल जाति सौंधिया	67	445.82 ✓	
87			भंवरलाल पिता घ्यारजी जाति सौंधिया	68/1	79.50 ✓	
88			प्रेमसिंह पिता भंवरलाल जाति सौंधिया	68/2	232.58 ✓	
89			भारतसिंह पिता देवीलाल जाति सौंधिया	69	207.76 ✓	
90			दशरथ पिता देवीलाल जाति सौंधिया	70	210.09 ✓	
91			देवीलाल पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया	71	77.35 ✓	
92			गजराजसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति सौंधिया	72/1	114.09 ✓	
93			हेमतसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति सौंधिया	72/2	114.09 ✓	
94			देवीलाल पिता कालू जाति सौंधिया नारू पिता कालू जाति सौंधिया मोगजी पिता कालू जाति सौंधिया रामलाल पिता कालू जाति सौंधिया	73/1 73/2 73/3 73/4	225.00 ✓	
95			नारायणसिंह पिता अनारसिंह जाति सौंधिया	74	163.40 ✓	
96			हरीसिंह पिता अनारसिंह जाति सौंधिया	75	163.40 ✓	
97			बंशीलाल पिता गेदांलाल जाति सौंधिया	76	171.94 ✓	
98			बापूलाल पिता मांगीलाल जाति सौंधिया	77	256.14 ✓	
99			गजराजसिंह पिता रतनलाल जाति सौंधिया	78	104.40 ✓	
100			बनेसिंह पिता श्री बापूलालजी जाति सौंधिया	79	172.31 ✓	
101			बीरमसिंह पिता हजारीलाल जाति सौंधिया	80	86.80 ✓	

स.क्र.	आबादी का विवरण हे.में		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7
102			पर्वतसिंह पिता हजारीलाल जाति सौंधिया पप्पूसिंह पिता हजारीलाल जाति सौंधिया	81/1 81/2	272.06 /	
103			सूरजसिंह पिता श्री प्रेमसिंह जाति सौंधिया	82/1	150.58 /	
104			रुपसिंह पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया	82/2	218.34 /	
105			चंद्रसिंह पिता विजयसिंह जाति सौंधिया	83	164.71 /	
106			कुमेरसिंह पिता अमरसिंह जाति सौंधिया	84/1	58.67 /	
107			धीरपसिंह पिता अमरसिंह जाति सौंधिया	84/2	63.97 /	
108			कंवरलाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया	84/3	81.90 /	
109			भंवरलाल पिता मांगीलाल जाति सौंधिया	85	85.91 /	
110			इंद्रसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया	86	234.06 /	
111			लक्ष्मीनारायण पिता देवीलाल जाति सौंधिया	87	218.64 /	
112			देवसिंह पिता श्री भंवरलाल जाति सौंधिया	88/1	61.14 /	
113			रामेश्वर पिता श्री प्रेमसिंह जाति सौंधिया	88/2	42.73 /	
114			जगदीश पिता कंवरलाल जाति सौंधिया	89	93.01 /	
115			गंगाराम पिता भेरुजी जाति सौंधिया	90	98.34 /	
116			इंद्रसिंह पिता श्री रामलाल जाति सौंधिया	91/1	109.05 /	
117			भंवरलाल पिता रामलाल जी जाति सौंधिया	91/2	95.81 /	
118			हजारीलाल पिता श्री बिहारीलाल जाति सौंधिया	92/1	71.15 /	
119			चन्द्रसिंह पिता बिहारीलाल जाति सौंधिया	92/2	66.07 /	
120			रामसिंह पिता समदासिंह जाति सौंधिया कंवरलाल पिता रामसिंह जाति सौंधिया सुनील पिता कंवरलाल जाति सौंधिया रमेश पिता रामसिंह जाति सौंधिया राधेश्याम पिता रामसिंह जाति सौंधिया	93	159.76 /	
121			कन्हैयालाल पिता श्री गेंदालालजी जाति सौंधिया	94	153.69 /	
122			मांगीलाल पिता श्री केशरजी जाति सौंधिया देवीलाल पिता मांगीलाल जाति सौंधिया श्यामलाल पिता देवीलाल जाति सौंधिया रामबाबू पिता देवीलाल जाति सौंधिया	95	228.35 /	
123			रामेश्वर पिता विजयसिंह जाति सौंधिया	96/1	204.29 /	
124			राधेश्याम पिता जगदीश जाति सौंधिया	96/2	153.45 /	
125			दोल जी पिता श्री गंगाराम जाति सौंधिया	97/1	235.60 /	
126			रामकलाबाई देवा कमलसिंह जाति सौंधिया	97/2		
127			प्रेमसिंह पिता श्री देवीलाल जाति सौंधिया	98	229.02 /	
128			रामनारायण पिता श्री मांगीलाल जाति सौंधिया दिलीप पिता रामनारायण जाति सौंधिया	99	272.72 /	
			रामकरण पिता हजारीलालजी जाति सौंधिया	100/1	245.03 /	

संक.	आबादी का विवरण है.नं.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	प्रयोजन
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकवा				
1	2	3	4	5	6	7
			लखन पिता हरीसिंह जाति सौंधिया	100/2		
129			इन्द्रसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया	101	371.40 ✓	
130			रूपसिंह पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया / सुनिल पिता रामगोपाल जाति सोनी (विवादित)	102	146.56 ✓	
131			पर्वतसिंह पिता सेवाजी जाति भोपा	103	85.02 ✓	
132			बीरसिंह पिता हजारीलाल जाति सौंधिया	104	166.32 ✓	
133			रामनिवास पिता कालुसिंह जाति सौंधिया	105	39.60 ✓	
134			भारतसिंह पिता प्यारजी जाति सौंधिया कालूसिंह पिता प्यारजी जाति सौंधिया प्यारजी पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया	106/1 106/2 106/3	265.37 ✓	
135			मोहनलाल पिता जगन्नाथ जी जाति कारीगर सुतार	107	105.70 ✓	
136			हेमराज पिता श्री शिवसिंह जाति सौंधिया रामबाबू पिता शिवसिंह जाति सौंधिया	108/1 108/2	208.60 ✓	
137			देवसिंह पिता बिहारी जाति भोपा	109	79.45 ✓	
138			दरियावरसिंह पिता मोहनलाल जाति सौंधिया	110	352.62 ✓	
139			नारायणसिंह पिता मोहनलालजी जाति सौंधिया	111	63.84 ✓	
140			उंकार पिता जगन्नाथ जाति भोपा	112	101.31 ✓	
141			देवनारायण पिता गोकुलप्रसाद जाति विश्वकर्मा	113	170.36 ✓	
142			महेश पिता बीरम जाति राव	114	76.32 ✓	
143			कमलसिंह पिता मांगीलाल जाति सौंधिया	115	63.01 ✓	
144			रामकला पति हेमतसिंह जाति सौंधिया	116	129.18 ✓	
145			कंवरलाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया धीरपसिंह पिता अमरसिंह जाति सौंधिया कुमेसिंह पिता अमरसिंह जाति सौंधिया	117/1 117/2 117/3	355.30 ✓	
146			रामनिवास पिता भगवानसिंह जाति सौंधिया	118	92.12 ✓	
147			सर्जनसिंह पिता देवसिंह जाति सौंधिया	119	28.08 ✓	
148			मावसिंह पिता मोहनलाल जाति सौंधिया	120	151.20 ✓	
149			दुलीबाई पति भंवरलाल जाति सौंधिया कुलताबाई पति दशरथसिंह जाति सौंधिया	121/1 121/2	244.26 ✓	
150			लखनसिंह पिता दरियावरसिंह जाति सौंधिया	122	321.10 ✓	
151			दरियावरसिंह पिता केशरजी जाति सौंधिया	123	386.02 ✓	
152			इन्द्रसिंह पिता दरियावरसिंह जाति सौंधिया	124	570.72 ✓	
153			सूरजसिंह पिता श्री विजयसिंह जाति सौंधिया	125	864.07 ✓	
154			घनश्याम पिता विजयसिंह जाति सौंधिया	126	1130.14 ✓	

संक्र.	आबादी का विवरण हे.मे.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	प्रयोजन	
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकवा					
1	2	3	4	5	6	7	
155			विजयसिंह पिता श्री केशरसिंह जाति सौंधिया दौलजी पिता रघुनाथजी जाति सौंधिया	127	148.83 /		
156			बीरमसिंह पिता दौलजी जाति सौंधिया कैलाशसिंह पिता श्री दौलजी जाति सौंधिया	128	757.62 /		
157			नाथूलाल पिता नवलजी जाति सौंधिया देवसिंह पिता नाथूलाल जाति सौंधिया सुल्तान पिता बालूसिंह जाति सौंधिया रोडीबाई बेवा बालूसिंह जाति सौंधिया	129	326.69 /		
158			धीरपसिंह पिता अमरसिंह जाति सौंधिया	130 / 1	8.70 /		
159			नन्दलाल पिता बापूलाल जाति सौंधिया	130 / 2	14.19 /		
160			देवसिंह पिता चन्द्रसिंह जाति सौंधिया	131	345.42 /		
161			बीरमसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया	132	26.13 /		
162			मोहनदास पिता नवलजी जाति सौंधिया	133	83.16 /		
योग :-					25734.83		
					2.573 हेक्टे.		

अर्जन हेतु प्रस्तावित कुल मकान 162

### अनुसूची (2)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है – मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण

भूमि के नवशे (ल्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

11547  
०८/०२/१७

प्र. क.

राजगढ़ दिनांक

**प्रारंभिक अधिसूचना**

(अंतर्गत धारा – 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) घूंकी राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बौद्ध निर्माण के ढूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्व कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

ग्राम – कालापीपल		तहसील – सारंगपुर	जिला राजगढ़
क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर में	अर्जित रकबा
		कुल रकबा	
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बौद्ध परियोजना के निर्माण में एवं ढूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	163.746	151.392
<b>योग</b>		<b>163.746</b>	<b>151.392</b>

**अनुसूची (2)**

(1) कुण्डलिया बौद्ध परियोजना में प्रभावित होने से

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा			
				2	3	4	5
1	भेरसिंह शंकरसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/2/1	0.886	0.886			
					<b>योग</b>	<b>0.886</b>	<b>0.886</b>
2	मोड़सिंह पिता बिशनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/2/2	0.101	0.101			
					<b>योग</b>	<b>0.101</b>	<b>0.101</b>
3	भवरलाल पिता बिशनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/2/3	0.101	0.101			
					<b>योग</b>	<b>0.101</b>	<b>0.101</b>
4	बल्लभसिंह, गुलाबसिंह पिता बिसन सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/2/4	0.203	0.203			
					<b>योग</b>	<b>0.203</b>	<b>0.203</b>
5	मंगलसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/3/1	0.221	0.221			
					<b>योग</b>	<b>0.221</b>	<b>0.221</b>
6	बाबूसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/3/2	0.221	0.221			
					<b>योग</b>	<b>0.221</b>	<b>0.221</b>
7	सज्जनसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/3/3	0.222	0.222			
					<b>योग</b>	<b>0.222</b>	<b>0.222</b>
8	बलवानसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/3/4	0.222	0.222			
					<b>योग</b>	<b>0.222</b>	<b>0.222</b>

9	पीरुलाल पिता गणपत जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/6/1	0.506	0.506
	योग		<b>0.506</b>	<b>0.506</b>
10	बद्रीलाल धीसालाल पिता जगन्नाथ जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/6/2	2.529	2.529
	योग		<b>2.529</b>	<b>2.529</b>
11	पारस पिता बलदेव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/6/2/2/1	0.422	0.422
	योग		<b>0.422</b>	<b>0.422</b>
12	बंशीलाल पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/6/2/2/3	0.421	0.421
	योग		<b>0.421</b>	<b>0.421</b>
13	मानसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/6/2/2/4/1	0.211	0.211
	योग		<b>0.211</b>	<b>0.211</b>
14	रामसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/6/2/2/4/2	0.211	0.211
	योग		<b>0.211</b>	<b>0.211</b>
15	जगन्नाथसिंह भालसिंह प्रहलादसिंह चन्द्रसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/6/3/1	2.710	2.710
	योग		<b>2.710</b>	<b>2.710</b>
16	शंकरसिंह पिता गोपालसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/6/4	2.529	2.529
	योग		<b>2.529</b>	<b>2.529</b>
17	रोदू पिता किशन जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/6/5	2.023	2.023
	योग		<b>2.023</b>	<b>2.023</b>
18	मांगीलाल पिता पूरा भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/6/6	1.518	1.518
	योग		<b>1.518</b>	<b>1.518</b>
19	विक्रमसिंह भेरसिंह शंकरसिंह, पानकुंवर पिता पिता अर्जुनसिंह, चतरुबाई बेवा, अर्जन सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/6/7/1	2.529	2.529
	योग		<b>2.529</b>	<b>2.529</b>
20	जगन्नाथसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/6/8	1.011	1.011
	योग		<b>1.011</b>	<b>1.011</b>
21	बापूलाल पिता नारायण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/6/9	2.529	2.529
	योग		<b>2.529</b>	<b>2.529</b>
22	प्रेमसिंह पिता नाथसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/7/1	1.073	1.073
	योग		<b>1.073</b>	<b>1.073</b>
23	सिद्धसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/7/2	1.073	1.073
	योग		<b>1.073</b>	<b>1.073</b>

24	भगवानसिंह पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/8/1	0.150	0.150
	योग		0.150	0.150
25	पारस पिता बल्देव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/8/2	0.201	0.201
	योग		0.201	0.201
26	शिवनारायण पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/8/3	0.150	0.150
	योग		0.150	0.150
27	मानसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/8/4/1	0.100	0.100
	योग		0.100	0.100
28	रामसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/8/4/2	0.100	0.100
	योग		0.100	0.100
29	विक्रमसिंह पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/8/5	0.150	0.150
	योग		0.150	0.150
30	राधेश्याम पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/8/6	0.151	0.151
	योग		0.151	0.151
31	भईया पिता बुला जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/9/2/1	0.506	0.506
	योग		0.506	0.506
32	सागर पिता भंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/9/2/2	1.896	1.896
	योग		1.896	1.896
33	गणपत पिता नानजी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/17 3/26	0.065	0.065
	योग		0.065	0.065
34	आत्मराम पिता पीरुलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/18/1	1.568	1.568
	योग		1.568	1.568
35	मानीलाल पिता दातू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/18/3/1	1.201	1.201
	योग		1.201	1.201
36	बापूलाल पिता दातू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/18/3/2	1.201	1.201
	योग		1.201	1.201
37	रोडूलाल पिता भेरुलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/22 3/23	0.506	0.506
	योग		0.368	0.368
			0.874	0.874
38	भोनीसिंह पिता गोरखनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/25	0.089	0.089
	योग		0.089	0.089

39	प्रहलादसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/30 3/39	0.445	0.445
	योग		0.445	0.445
40	प्रहलाद पिता हिन्दुसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/40	1.517	1.517
	योग		1.517	1.517
41	शकरसिंह पिता गोपालसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/42	0.506	0.506
	योग		0.506	0.506
42	पीरलाल पिता गणपत जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	5	0.291	0.291
		6	0.024	0.024
		योग	0.315	0.315
43	भगवानसिंह पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7/1 8/1 9/1 10/1	0.088	0.088
		योग	0.088	0.088
44	पारस पिता बल्देव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7/2	0.038	0.038
	योग		0.038	0.038
45	बंशीलाल पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7/3	0.037	0.037
		योग	0.037	0.037
46	शिवनारायण पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7/4 8/4 9/4 10/4	0.088	0.088
		योग	0.088	0.088
47	विक्रमसिंह पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7/5 8/5 9/5 10/5	0.089	0.089
		योग	0.089	0.089
48	राधेश्याम पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7/6 8/6 9/6 10/6	0.089	0.089
		योग	0.089	0.089
49	पारस पिता बल्देव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8/2	0.037	0.037
	योग		0.037	0.037
50	बंशीलाल पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8/3	0.038	0.038
		योग	0.038	0.038
51	पारस पिता बल्देव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9/2	0.057	0.057
		योग	0.057	0.057
52	बंशीलाल पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9/3	0.057	0.057
		योग	0.057	0.057

53	पारस पिता बल्देव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	10/2	0.046	0.046
	योग		0.046	0.046
54	बंशीलाल पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	10/3	0.047	0.047
	योग		0.047	0.047
55	पीरुलाल पिता गणपत जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	12/1	0.442	0.442
	योग		0.442	0.442
56	भईया पिता बूला जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	12/2	0.442	0.442
	योग		0.442	0.442
57	मांगीलाल पिता दातू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	12/3/1	0.221	0.221
	योग		0.221	0.221
58	बापूलाल पिता दातू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	12/3/2	0.222	0.222
	योग		0.222	0.222
59	भगवानसिंह पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	13/1/1	0.185	0.185
	योग		0.185	0.185
60	शिवनारायण पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	13/1/2	0.185	0.185
	योग		0.185	0.185
61	विक्रमसिंह पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	13/1/3	0.185	0.185
	योग		0.185	0.185
62	राधेश्याम पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	13/1/4	0.158	0.158
	योग		0.158	0.158
63	बंशीलाल पिता कालू गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	13/3	0.741	0.741
	योग		0.741	0.741
64	प्रेमसिंह पिता नाथूसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14	0.053	0.053
		15	0.077	0.077
	योग		0.130	0.130
65	सिद्धूसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	16	0.227	0.227
	योग		0.227	0.227
66	प्रेमसिंह पिता नाथूसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	17	0.441	0.441
	योग		0.441	0.441
67	मोड़सिंह पिता बिशनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	19	0.482	0.482
	योग		0.482	0.482
68	प्रेमसिंह पिता नाथूसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	20	0.340	0.340

		21	0.024	0.024
		22	0.368	0.368
		23	0.036	0.036
	योग		<b>0.768</b>	<b>0.768</b>
69	सिद्धूसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	24	0.202	0.202
	योग		<b>0.202</b>	<b>0.202</b>
70	प्रेमसिंह पिता नाथूसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	25/1	0.006	0.006
	योग		<b>0.006</b>	<b>0.006</b>
71	सिद्धूसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	25/2	0.006	0.006
	योग		<b>0.006</b>	<b>0.006</b>
72	सिद्धूसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	26	0.214	0.214
	योग		<b>0.291</b>	<b>0.291</b>
	योग		<b>0.505</b>	<b>0.505</b>
73	प्रेमसिंह पिता नाथूसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	28/1	0.702	0.702
	योग		<b>0.702</b>	<b>0.702</b>
74	सिद्धूसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	28/2	0.702	0.702
	योग		<b>0.702</b>	<b>0.702</b>
75	भेरुसिंह शंकरसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	29/1	0.659	0.659
	योग		<b>0.659</b>	<b>0.659</b>
76	मंगलसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	29/2/1	0.161	0.161
	योग		<b>0.161</b>	<b>0.161</b>
77	बाबूसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	29/2/2	0.161	0.161
	योग		<b>0.161</b>	<b>0.161</b>
78	सज्जनसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	29/2/3	0.161	0.161
	योग		<b>0.161</b>	<b>0.161</b>
79	बलवानसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	29/2/4	0.162	0.162
	योग		<b>0.162</b>	<b>0.162</b>
80	मनोहरसिंह दुलेसिंह पिता केसरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	30/1	0.215	0.215
	योग		<b>0.215</b>	<b>0.215</b>
81	तेजसिंह पिता केसरसिंह भारतसिंह पिता तेंवरलाल राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	30/2	0.215	0.215
	योग		<b>0.215</b>	<b>0.215</b>
82	पप्पूसिंह मोहनसिंह पिता केसरसिंह, प्रेमकुवर बेवा केसर सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	30/3	0.215	0.215
	योग		<b>0.215</b>	<b>0.215</b>

83	भंवरलाल पिता बिशनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	30/4	0.215	0.215
	योग		<b>0.215</b>	<b>0.215</b>
84	बल्लभसिंह गुलाबसिंह पिता बिशनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	30/5	0.431	0.431
	योग		<b>0.431</b>	<b>0.431</b>
85	अमरसिंह पिता नाथू गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	33	0.441	0.441
		34	0.482	0.482
	योग		<b>0.923</b>	<b>0.923</b>
86	मंगोलबाई बैवा निर्मलसिंह पारसकुमार पिता निर्मलसिंह जया देवी बैवा प्रवीणकुमार ऋषभकुमार अक्षयकुमार पिता प्रवीणकुमार नाठबाऊसरो माता जया देवी जारि महाजन पता निवासी ग्राम छापीहड़ा भूमि स्वामी	35	0.272	0.272
	योग		<b>0.272</b>	<b>0.272</b>
87	भईया पिता बूला जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	36	0.785	0.785
		37	0.268	0.268
	योग		<b>1.053</b>	<b>1.053</b>
88	सिद्धूसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	39	0.077	0.077
		40	0.304	0.304
		41/2	0.035	0.035
	योग		<b>0.416</b>	<b>0.416</b>
89	चन्द्रसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	42	0.089	0.089
	योग		<b>0.089</b>	<b>0.089</b>
90	चन्द्रसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	44	0.049	0.049
		43/2	0.138	0.138
		45	0.125	0.125
	योग		<b>0.312</b>	<b>0.312</b>
91	भईया पिता बूला जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	46	0.190	0.190
	योग		<b>0.190</b>	<b>0.190</b>
92	भोनीसिंह पिता गोरखनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	47	0.227	0.227
	योग		<b>0.227</b>	<b>0.227</b>
93	बाबूलाल पिता उमराव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	49/1	0.202	0.202
	योग		<b>0.202</b>	<b>0.202</b>
94	गोरखन पिता बलदेव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	49/2	0.203	0.203
	योग		<b>0.203</b>	<b>0.203</b>

95	मनोहरबाई पिता मानसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	50	0.024	0.024
	योग		<b>0.024</b>	<b>0.024</b>
96	भगवानसिंह जगदीश नारायणसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	50/1	0.008	0.008
	योग		<b>0.008</b>	<b>0.008</b>
97	घनश्याम पिता प्रभुलाल जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	51	0.380	0.380
	योग		<b>0.380</b>	<b>0.380</b>
98	पप्पूसिंह मोहनसिंह पिता केसरसिंह प्रेमकुंवरबाई बैवा केसरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	52	0.024	0.024
	योग		<b>0.024</b>	<b>0.024</b>
99	चंद्रसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	54	0.049	0.049
	योग		<b>0.049</b>	<b>0.049</b>
100	शिवनारायण पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	56/1/2	0.013	0.013
	योग		<b>0.013</b>	<b>0.013</b>
101	विकमसिंह पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	56/1/3	0.013	0.013
	योग		<b>0.013</b>	<b>0.013</b>
102	राधेश्याम पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	56/1/4	0.013	0.013
	योग		<b>0.013</b>	<b>0.013</b>
103	बाबूलाल पिता उमराव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	56/2	0.051	0.051
	योग		<b>0.051</b>	<b>0.051</b>
104	भगवानसिंह पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	56/2/1	0.012	0.012
	योग		<b>0.012</b>	<b>0.012</b>
105	शिवनारायण पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	57/1/2	0.084	0.084
	योग		<b>0.084</b>	<b>0.084</b>
106	विकमसिंह पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	57/1/3	0.084	0.084
	योग		<b>0.084</b>	<b>0.084</b>
107	राधेश्याम पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	57/1/4	0.084	0.084
	योग		<b>0.084</b>	<b>0.084</b>
108	बाबूलाल पिता उमराव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	57/2/1	0.126	0.126
	योग		<b>0.126</b>	<b>0.126</b>
109	मेवाबाई पिता बाबूलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	57/2/1/1	0.063	0.063
	योग		<b>0.063</b>	<b>0.063</b>
110	सीताराम पिता उमरावसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	57/2/2	0.126	0.126

	योग		0.126	0.126
111	प्रभूलाल पिता उमरावसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	57/2/3	0.084	0.084
	योग		<b>0.084</b>	<b>0.084</b>
112	पीरुलाल पिता गणपत जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	58/1	0.176	0.176
	योग		<b>0.176</b>	<b>0.176</b>
113	मोड़सिंह पिता बिशनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	60/1	0.024	0.024
	योग		<b>0.024</b>	<b>0.024</b>
114	भंवरलाल पिता बिशनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	60/2	0.024	0.024
	योग		<b>0.024</b>	<b>0.024</b>
115	बल्लभसिंह गुलाबसिंह पिता बिशनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	60/3	0.047	0.047
	योग		<b>0.047</b>	<b>0.047</b>
116	भगवानसिंह पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	62/1	0.028	0.028
	योग		<b>0.028</b>	<b>0.028</b>
117	शिवनारायण पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	62/2	0.029	0.029
	योग		<b>0.029</b>	<b>0.029</b>
118	विक्रमसिंह पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	62/3	0.028	0.028
	योग		<b>0.028</b>	<b>0.028</b>
119	राधेश्याम पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	62/4	0.028	0.028
	योग		<b>0.028</b>	<b>0.028</b>
120	विक्रमसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	63/1/1	0.042	0.042
	योग		<b>0.042</b>	<b>0.042</b>
121	मंगलसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	63/2/1	0.015	0.015
	योग		<b>0.015</b>	<b>0.015</b>
122	बाबूसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	63/2/2	0.015	0.015
	योग		<b>0.015</b>	<b>0.015</b>
123	सजनसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	63/2/3	0.015	0.015
	योग		<b>0.015</b>	<b>0.015</b>
124	बलवानसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	63/2/4	0.016	0.016
	योग		<b>0.016</b>	<b>0.016</b>
125	विक्रमसिंह भेरसिंह शंकरसिंह प्रेमकुंवर पिता अर्जुनसिंह, घटरुबाई बेवा अर्जुनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	64/1	0.061	0.061
	योग		<b>0.061</b>	<b>0.061</b>

126	मानसिंह, केशर सिंह, हरीनारायण, रमेश पिता भागीरथ ज्ञाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	64/2	0.190	0.190
	योग		0.190	0.190
127	मांगीलाल पिता दातू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	66	0.012	0.012
	योग		0.012	0.012
128	हेमचन्द पिता प्रभूलाल जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	67/1	0.045	0.045
	योग		0.045	0.045
129	मनोहरलाल पिता प्रभूलाल जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	67/2	0.045	0.045
	योग		0.045	0.045
130	रामकरण पिता प्रभूलाल जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	67/3	0.044	0.044
	योग		0.044	0.044
131	कमलकिशोर पिता प्रभूलाल जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	67/4	0.044	0.044
	योग		0.044	0.044
132	नारायणसिंह पीरसिंह पिता मांगीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	68	0.239	0.239
	योग		0.239	0.239
133	पीरलाल पिता गणपत जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	69/1	0.064	0.064
	योग		0.064	0.064
134	भईया पिता बूला जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	69/2	0.064	0.064
	योग		0.064	0.064
135	मांगीलाल पिता दातू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	69/3/1	0.032	0.032
	योग		0.032	0.032
136	बापूलाल पिता दातू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	69/3/2	0.032	0.032
	योग		0.032	0.032
137	नारायणसिंह पीरसिंह पिता मांगीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	70	0.166	0.166
	योग		0.166	0.166
138	बापूलाल पिता सदा जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	71	0.101	0.101
	योग		0.101	0.101
139	श्रीराम मंदिर कालेश्वर	72	0.077	0.077
	योग		0.077	0.077
140	नारायणसिंह पीरलाल पिता मांगीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	73 74	0.089	0.089
	75		0.138	0.138
	76		0.024	0.024
	योग		0.251	0.251
141	प्रहलादसिंह पिता हिन्दूसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	77 78/2	0.202	0.202

	योग	0.202	0.202
142	नारायणसिंह पीरुलाल पिता मांगीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	79	0.142
	योग		0.142
143	बाबूलाल पिता उमरावसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	80/1/1	0.029
	योग		0.029
144	सीताराम पिता उमरावसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	80/1/2	0.029
	योग		0.029
145	प्रमूलाल पिता उमरावसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	80/1/3	0.019
	योग		0.019
146	भगवानसिंह पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	80/2/1	0.009
	योग		0.009
147	शिवनारायण पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	80/2/2	0.009
	योग		0.009
148	बशीलाल पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	80/2/3	0.012
	योग		0.012
149	मानसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	80/2/4/1	0.006
	योग		0.006
150	विक्रमसिंह पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	80/2/5	0.010
	योग		0.010
151	राधेश्याम पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	80/2/6	0.010
	योग		0.010
152	लखनसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	81	0.166
	योग		0.166
153	पीरुलाल पिता गणपत जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	83/1	0.120
	योग		0.120
154	भईया पिता बूला जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	83/2	0.121
	योग		0.121
155	मांगीलाल पिता दातू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	83/3/1	0.075
	योग		0.075
156	बापूलाल पिता दातू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	83/3/2	0.075
	योग		0.075
157	भंवरलाल पिता बिशनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	84/2	0.012

	योग	0.012	0.012
158	नारायणसिंह पीरुलाल पिता मांगीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	86	0.845
	योग		<b>0.845</b>
159	अमरसिंह पिता नाथू गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	88	0.178
	योग		<b>0.178</b>
160	चंदरसिंह पिता हिन्दूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	89	0.024
	योग		<b>0.024</b>
		90	0.356
	योग		<b>0.356</b>
161	अमरसिंह पिता नाथू गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	91	0.458
	योग		<b>0.458</b>
		92	0.077
	योग		<b>0.077</b>
162	परबतसिंह पिता हिन्दूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	93	0.024
	योग		<b>0.024</b>
163	चन्द्रसिंह पिता हिन्दूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	94	0.227
	योग		<b>0.227</b>
164	परबतसिंह पिता हिन्दूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	95	0.494
	योग		<b>0.494</b>
165	दरयावासिंह पिता बापूसिंह बहादूरसिंह पिता भगवानसिंह सौंधिया	96	0.571
	योग		<b>0.571</b>
		97	0.036
		98	0.125
		99 100	0.036
	योग		<b>0.036</b>
			<b>0.768</b>
166	बल्लभसिंह गुलाबसिंह पिता बिशनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	103/1	0.063
	योग		<b>0.063</b>
167	तेजसिंह पिता केसरसिंह भारतसिंह पिता तेंवरलाल राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	103/2	0.062
	योग		<b>0.062</b>
168	विक्रमसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	104/1	0.061
	योग		<b>0.061</b>
169	मंगलसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	104/2/1	0.041
	योग		<b>0.041</b>
170	बाबूसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	104/2/2	0.041
	योग		<b>0.041</b>
171	सज्जनसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	104/2/3	0.042
			<b>0.042</b>

	योग	0.042	0.042
172	बलवानसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	104/2/4	0.043 0.042
	योग	0.043	0.042
173	मांगीलाल पिता दातू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	105/1	0.012 0.012
	योग	0.012	0.012
174	बापूलाल पिता दातू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	105/2 106	0.012 0.010 0.022
	योग	0.012 0.010 0.022	0.012 0.010 0.022
175	पीरुलाल पिता गणपत जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	106/1	0.019 0.019
	योग	0.019	0.019
176	भईया पिता बूला जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	106/2	0.019 0.019
	योग	0.019	0.019
177	मंगलसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	107/1	0.085 0.085
	योग	0.085	0.085
178	बाबूसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	107/2	0.085 0.085
	योग	0.085	0.085
179	सज्जनसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	107/3	0.085 0.085
	योग	0.085	0.085
180	बलवानसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	107/4	0.085 0.085
	योग	0.085	0.085
181	बल्लभसिंह गुलाबसिंह पिता बिशनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	108/2	0.004 0.004
	योग	0.004	0.004
182	पप्पूसिंह मोहनसिंह पिता केसरसिंह प्रेमकुवरबाई बैवा केसरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	108/3	0.005 0.005
	योग	0.005	0.005
183	बल्लभसिंह गुलाबसिंह पिता बिशनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	109/2 110/1/2	0.119 0.029 0.148
	योग	0.119 0.029 0.148	0.119 0.029 0.148
184	पप्पूसिंह मोहनसिंह पिता केसरसिंह प्रेमकुवरबाई बैवा केसरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	110/1/3	0.029 0.029
	योग	0.029	0.029
185	मंगलसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	110/2/1	0.019 0.019
	योग	0.019	0.019

186	बाबूसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	110/2/2	0.019	0.019
	योग		<b>0.019</b>	<b>0.019</b>
187	सज्जनसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	110/2/3	0.019	0.019
	योग		<b>0.019</b>	<b>0.019</b>
188	बलवानसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	110/2/4	0.020	0.020
	योग		<b>0.020</b>	<b>0.020</b>
189	मानसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	111	0.214	0.214
	योग		<b>0.214</b>	<b>0.214</b>
190	कालू बनेसिंह प्रेमसिंह राजूबाई पिता भंवरलाल मु0 अनोखीबाई बैवा भंवरलाल जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	112/1	0.071	0.071
	योग		<b>0.071</b>	<b>0.071</b>
191	रेशमबाई पिता हिन्दुसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	112/2	0.071	0.071
	योग		<b>0.071</b>	<b>0.071</b>
192	देवसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	112/3	0.072	0.072
	योग		<b>0.072</b>	<b>0.072</b>
193	प्रह्लादसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	113	0.785	0.785
	योग		<b>0.785</b>	<b>0.785</b>
194	देवीलाल गंगाराम पिता लछमण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	114	0.417	0.417
	योग		<b>0.417</b>	<b>0.417</b>
195	गुड़डीबाई पति करणसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	115/1	0.178	0.178
	योग		<b>0.178</b>	<b>0.178</b>
196	रोडू हरि सिदू कर्घनबाई ममताबाई पिता नारायण बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	115/2	0.178	0.178
	योग		<b>0.178</b>	<b>0.178</b>
197	कालू बनेसिंह प्रेमसिंह राजूबाई पिता भंवरलाल मु0 अनोखीबाई बैवा भंवरलाल जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	116/1	0.312	0.312
	योग		<b>0.312</b>	<b>0.312</b>
198	रेशमबाई पिता हिन्दुसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	116/2	0.311	0.311
	योग		<b>0.311</b>	<b>0.311</b>
199	देवसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	116/3	0.311	0.311
	योग		<b>0.311</b>	<b>0.311</b>
200	गुड़डीबाई पति करणसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	117/1/1	0.017	0.017
	योग		<b>0.017</b>	<b>0.017</b>

201	रोहु हरि सिदू कंचनबाई ममताबाई पिता नारायण बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	117/1/2	0.018	0.018
	योग		<b>0.018</b>	<b>0.018</b>
202	कालूसिंह पिता नरभेसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	117/2	0.036	0.036
	योग		<b>0.036</b>	<b>0.036</b>
203	बलवंतसिंह पिता बंशीलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	118/1	0.152	0.152
	योग		<b>0.152</b>	<b>0.152</b>
204	अर्जुनसिंह पिता देवीलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	118/2	0.075	0.075
	119		<b>0.077</b>	<b>0.077</b>
	योग		<b>0.152</b>	<b>0.152</b>
205	मांगीलाल पिता मेहताब जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	120	0.405	0.405
	योग		<b>0.405</b>	<b>0.405</b>
206	सिद्धुसिंह, रामलाल पिता रतन सिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	121/1/1	0.090	0.090
	योग		<b>0.090</b>	<b>0.090</b>
207	मनोहरबाई पिता मानसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	121/2	0.036	0.024
	योग		<b>0.036</b>	<b>0.024</b>
208	गुडडीबाई पति करणसिंह सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	121/2/1	0.012	0.012
	योग		<b>0.012</b>	<b>0.012</b>
209	जोरावरसिंह पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	121/3/2	0.031	0.031
	योग		<b>0.031</b>	<b>0.031</b>
210	जोरावरसिंह पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	122/1/2	0.018	0.018
	योग		<b>0.018</b>	<b>0.018</b>
211	जोरावरसिंह पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	122/2/2	0.045	0.045
	योग		<b>0.045</b>	<b>0.045</b>
212	जोरावरसिंह पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	123/1/2	0.012	0.012
	योग		<b>0.012</b>	<b>0.012</b>
213	सिद्धुसिंह, रामलाल पिता रतनसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	123/2/1	0.024	0.024
	योग		<b>0.024</b>	<b>0.024</b>
214	जोरावरसिंह पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	123/2/2	0.025	0.025
	योग		<b>0.025</b>	<b>0.025</b>
215	सिद्धुसिंह, रामलाल पिता रतनसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	123/2/3	0.033	0.033
	योग		<b>0.033</b>	<b>0.033</b>
216	जोरावरसिंह पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	123/3/2	0.032	0.032

	योग	0.032	0.032
217	मंगोलबाई बैवा निर्मलसिंह पारसकुमार पिता निर्मलसिंह जेण्या देवी बैवा प्रवीणकुमार, ऋषभकुमार अक्षयकुमार पिता प्रवीणकुमार नाठवाठसर० माता जया देवी जाति महाजन पता निवासी ग्राम छापीहेडा भूमि स्वामी	124/1/1	0.255 0.190
	योग	0.255	0.190
218	सिद्धसिंह पिता रत्नसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	124/1/2	0.065 0.065
	योग	0.065	0.065
219	भगवानसिंह जगदीश नारायणसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	128/1	0.026 0.026
	योग	0.026	0.026
220	मनोहरबाई पिता मानसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	128/2	0.077 0.051
	योग	0.077	0.051
221	इन्दरसिंह पिता बापूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	129/1	0.214 0.214
	योग	0.214	0.214
222	नारायणसिंह पीरुलाल पिता मांगीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	131	0.053 0.012 0.012
	योग	0.077	0.077
223	रोडुलाल पिता भेरुलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	174/1	0.316 0.300
	योग	0.316	0.300
224	नारायणसिंह पीरुसिंह पिता मांगीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	180/1 181	0.963 0.113
	योग	1.076	0.626
225	भेरुसिंह अमरसिंह देवीसिंह पिता शिवसिंह मु० गंगाबाई बैवा शिवसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	183/1	2.518 1.518
	योग	2.518	1.518
226	मंगलसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	183/2/1 184 185/1	0.679 0.500
	योग	0.679	0.500
227	बाबूसिंह पिता भोनीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	183/2/2 184 185/1	0.680 0.500
	योग	0.680	0.500
228	गणपत पिता नानजी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	185/3/1	1.011 0.470
	योग	0.898	0.470
	योग	1.909	0.940

229	बाबूलाल पिता धीसा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	291/43/5	0.500	0.300
	योग		0.500	0.300
230	जगदिश पिता लक्ष्मण जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	291/43/6	0.500	0.500
	योग		0.500	0.500
231	गंगाराम पिता अमरा जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	291/43/9	1.000	0.550
	योग		1.000	0.550
232	भगवानसिंह जगदीश नारायणसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	300/1	0.190	0.190
	योग	301/1	0.067	0.067
	योग		0.257	0.257
233	चन्द्रकलाबाई मनोहरबाई अनुसुइया पिता मानसिंह प्रेमबाई बेवा मानसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	300/3	0.190	0.190
	योग	301/3	0.068	0.068
	योग		0.258	0.258
234	नारायणसिंह पीरलाल पिता मांगीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	302	0.101	0.101
		303	0.239	0.239
		304	0.543	0.543
		305	0.237	0.237
		306	0.065	0.065
		307	0.202	0.202
	योग		1.387	1.387
235	मोहन पिता पूरा दरयावबाई बेवा पूरा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	309/1	0.033	0.033
	योग		0.033	0.033
236	रोदू हरि सिद्दू कंचनबाई मस्ताबाई पिता नारायण बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	309/2	0.032	0.032
	योग		0.032	0.032
237	देवीलाल गंगाराम पिता लछमण जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	310 281/4	1.100	1.100
	योग		1.100	1.100
238	देवरसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	311/1	0.315	0.315
	योग		0.315	0.315
239	बाबूलाल पिता देवीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	312	0.543	0.543
	योग		0.543	0.543
240	करणसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	311/2	0.316	0.316
	योग		0.316	0.316

241	बाबूलाल पिता देवीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	313 314 338/1/3	1.672	1.672
	योग		<b>1.672</b>	<b>1.672</b>
242	अर्जुनसिंह पिता देवीलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	316	0.036	0.036
	योग		<b>0.036</b>	<b>0.036</b>
243	रोडलाल पिता नारायण जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	317 318	0.226	0.226
	योग		<b>0.226</b>	<b>0.226</b>
244	मोहन पिता पूरा, दर्यावं बाई बेवा पूरा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	319/1 324/1	0.297	0.297
	योग		<b>0.297</b>	<b>0.297</b>
245	रोडू हरि सिद्धू कंचनबाई ममताबाई पिता नारायण जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	319/2 324/2	0.296	0.296
	योग		<b>0.296</b>	<b>0.296</b>
246	देवसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	320/1	0.095	0.095
	योग		<b>0.095</b>	<b>0.095</b>
247	करणसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	320/2	0.095	0.095
	योग		<b>0.095</b>	<b>0.095</b>
248	इन्दरसिंह पिता बापूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	323	0.429	0.429
	योग		<b>0.429</b>	<b>0.429</b>
249	भगवानसिंह जगदीश नारायणसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	325/1	0.041	0.041
	योग		<b>0.041</b>	<b>0.041</b>
250	चन्द्रकलाबाई मनोहरबाई अनुसुइया पिता मानसिंह प्रेमबाई बेवा मानसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	325/2	0.042	0.042
	योग		<b>0.042</b>	<b>0.042</b>
251	चन्द्रसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	326/1	0.071	0.071
	योग		<b>0.071</b>	<b>0.071</b>
252	परबतसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	326/2	0.071	0.071
	योग		<b>0.071</b>	<b>0.071</b>
253	मनोहरलाल पिता प्रभूलाल जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	327	0.202	0.202
	योग		<b>0.202</b>	<b>0.202</b>
254	मोहन पिता पूरा, दर्यावं बाई बेवा पुरा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	329	0.024	0.024
	योग		<b>0.024</b>	<b>0.024</b>
255	दरयावसिंह इन्दरसिंह पिता बापूसिंह बहादुरसिंह पिता भगवान सिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	331	0.190	0.190

	योग		<b>0.190</b>	<b>0.190</b>
256	इन्द्रसिंह पिता बापूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	332	0.036	0.036
	योग		<b>0.036</b>	<b>0.036</b>
257	बालुसिंह पिता परथीसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	403	1.055	0.800
	योग		<b>1.055</b>	<b>0.800</b>
258	रोदू हरि सिद्धू कंचनबाई ममताबाई पिता नारायण बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	333	0.024	0.024
	योग		<b>0.024</b>	<b>0.024</b>
259	शंकरलाल पिता रुग्नाथ शैतानबाई बेवा रुग्नाथ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	335	0.036	0.036
		336	0.458	0.458
	योग		<b>0.494</b>	<b>0.494</b>
260	पारस पिता बलदेव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	337/1	0.118	0.118
	योग		<b>0.118</b>	<b>0.118</b>
261	बंशीलाल पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	337/2	0.119	0.119
	योग		<b>0.119</b>	<b>0.119</b>
262	मानसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	337/3/1	0.059	0.059
	योग		<b>0.059</b>	<b>0.059</b>
263	रामसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	337/3/2	0.059	0.059
	योग		<b>0.059</b>	<b>0.059</b>
264	शंकरलाल पिता रुग्नाथ, शैतानबाई बेवा रुग्नाथ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	338/1	0.138	0.138
	योग		<b>0.138</b>	<b>0.138</b>
265	भगवानसिंह पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	338/2/1 340/2/1	0.029	0.029
	योग		<b>0.029</b>	<b>0.029</b>
266	पारस पिता बलदेव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	338/2/2	0.008	0.008
	योग		<b>0.008</b>	<b>0.008</b>
267	बंशीलाल पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	338/2/3	0.008	0.008
	योग		<b>0.008</b>	<b>0.008</b>
268	शिवनारायण पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	338/2/4 340/2/2	0.030	0.030
	योग		<b>0.030</b>	<b>0.030</b>
269	विक्रमसिंह पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	338/2/5 340/2/5	0.030	0.030
	योग		<b>0.030</b>	<b>0.030</b>
270	राधेश्याम पिता कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	338/2/6 340/2/6	0.030	0.030
	योग		<b>0.030</b>	<b>0.030</b>

271	बाबूलाल पिता देवीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	339	0.125	0.125
	योग		0.125	0.125
272	माधोलाल पिता भवरलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	340/1	0.215	0.215
	योग		0.215	0.215
273	गोखन पिता बलदेव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	340/2/2	0.031	0.031
	योग		0.031	0.031
274	बंशीलाल पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	340/2/3	0.032	0.032
	योग		0.032	0.032
275	रामसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	340/2/4/2	0.016	0.016
	योग		0.016	0.016
276	माधोलाल पिता भवरलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	341	0.024	0.024
	योग		0.024	0.024
277	प्रहलाद सिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	342/1	0.032	0.032
	योग		0.032	0.032
278	दरयावसिंह पिता रायसिंह जाति रेवारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	342/2	0.033	0.033
	योग		0.033	0.033
279	नारायणसिंह पीरसिंह पिता मांगीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	343	2.337	2.337
		344		
		345		
		347		
		348		
		349/1		
	योग		2.337	2.337
280	भवरलाल काना गिरधारी लक्ष्मण रामा पिता किशन पप्पूबाई बेवा किशन जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	346	1.100	1.100
	योग		1.100	1.100
281	कमलसिंह पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	349/2 349/4 381/3	1.053	1.053
	योग		1.053	1.053
282	चन्दरसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	349/3 350 351	1.389	1.389
	योग		1.389	1.389
283	हरिरसिंह पिता परबतसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	352/1	0.506	0.506
	योग		0.506	0.506
284	तरवरसिंह पिता परबतसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	353/1	0.506	0.506
	योग		0.506	0.506

285	ईश्वरसिंह पिता परबतसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि रखामी	352/2	0.506	0.506
	योग		<b>0.506</b>	<b>0.506</b>
286	कालूसिंह पिता परबतसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि रखामी	353/2	0.506	0.506
	योग		<b>0.506</b>	<b>0.506</b>
287	सिधनाथ, रामलाल पिता रत्नसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि रखामी	354/1 362/1 369/5/2 281/6/2	1.152	1.152
	योग		<b>1.152</b>	<b>1.152</b>
288	नारायणसिंह शिवसिंह पिता जोरावरसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि रखामी	354/2 369/5/1 381/6/1 369/3/2	1.246	1.246
	योग		<b>1.246</b>	<b>1.246</b>
289	कमलसिंह आत्माराम पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि रखामी	355/1 362/3	0.461	0.461
	योग		<b>0.461</b>	<b>0.461</b>
290	राधाबाई पति परबतसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि रखामी	356/1 357 358 359/2/1 362/6/1	0.999	0.999
	योग		<b>0.999</b>	<b>0.999</b>
291	लक्षण पिता किशन जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि रखामी	356/2 359/2/2 362/6/2	0.506	0.506
	योग		<b>0.506</b>	<b>0.506</b>
292	नारायणसिंह पीरुलाल पिता मांगीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि रखामी	359/1	1.137	1.137
	योग		<b>1.137</b>	<b>1.137</b>
293	मानसिंह, केशर सिंह, हरीनारायण, रमेश पिता भागीरथ जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि रखामी	360/1	0.643	0.643
	योग		<b>0.643</b>	<b>0.643</b>
294	मांगीलाल पिता मेहताब जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि रखामी	360/2	0.279	0.279
	योग		<b>0.279</b>	<b>0.279</b>
295	गणपत पिता धीसा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि रखामी	361/2 263/1	0.506	0.506
	योग		<b>0.506</b>	<b>0.506</b>
296	बाबूलाल पिता धीसा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि रखामी	361/3/2	0.379	0.379
	योग		<b>0.379</b>	<b>0.379</b>
297	प्रभूलाल पिता धीसा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि रखामी	361/3/3 361/4/3 362/4/3	0.371	0.371
	योग		<b>0.371</b>	<b>0.371</b>

298	गणपत पिता धीसा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	362/1/1 363/3 363/4	0.253	0.253
		योग	0.253	0.253
299	बापूलाल पिता मन्नालाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	362/2/1 369/1/1 381/1/1	0.354	0.354
		योग	0.354	0.354
300	कंवरलाल पिता मन्नालाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	362/2/2 369/1/2 381/1/2	0.354	0.354
		योग	0.354	0.354
301	मांगीलाल पिता मेहताब जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	362/7	0.796	0.796
		योग	0.796	0.796
302	बापूलाल पिता मन्नालाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	363/1	0.315	0.315
		योग	0.315	0.315
303	कंवरलाल पिता मन्नालाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	363/2	0.315	0.315
		364/2	0.417	0.417
		योग	0.732	0.732
304	बापूलाल पिता मन्नालाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	364/1 365	0.416	0.416
		योग	0.416	0.416
305	प्रेमबाई पति कमलकिशोर जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	366/1/1	0.253	0.253
		योग	0.253	0.253
306	कालूसिंह पिता नरभैसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	366/1/2 366/2	0.670	0.670
		योग	0.670	0.670
307	कालूसिंह पिता नरभैसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	367/1 367/2	0.441	0.441
		368	0.369	0.369
		योग	0.810	0.810
308	गुड्डीबाई पति नारायणसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	370/1	0.481	0.481
		योग	0.481	0.481
309	गोरथन पिता बलदेव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	371/1	0.565	0.565
		योग	0.565	0.565
310	बंशीलाल पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	371/2	0.565	0.565
		योग	0.565	0.565
311	देवसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	370/2/1	0.241	0.241

	योग	0.241	0.241
312	करणसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	370/2/2	0.241
	योग		<b>0.241</b>
313	मानसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	371/3/1	0.282
	योग		<b>0.282</b>
314	रामसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	371/3/2	0.282
	योग		<b>0.282</b>
315	मोहन पिता पूरा, दर्याव बाई बेवा पूरा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	372/1	0.473
	योग		<b>0.473</b>
316	रोडू हरि सिदू कंचनबाई ममताबाई पिता नारायण जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	372/2	0.474
	योग		<b>0.474</b>
317	कालूसिंह पिता नरभेसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	373	0.910
	योग		<b>0.910</b>
318	सिदूसिंह रामलाल पिता रत्नसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	374	0.708
	योग		<b>0.708</b>
319	जोरावरसिंह पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	375/2	0.342
	योग		<b>0.342</b>
320	भगवानसिंह पिता चेन्सिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	376	0.506
	योग		<b>0.506</b>
321	जोरावरसिंह पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	377/2	0.077
	योग		<b>0.077</b>
322	सिदूसिंह रामलाल पिता रत्नसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	378/1/1	0.379
	योग		<b>0.379</b>
323	नारायणसिंह शिवसिंह पिता जोरावरसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	378/1/2	0.380
	योग		<b>0.380</b>
324	सिदूसिंह रामलाल पिता रत्नसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	378/2/1	0.272
	योग		<b>0.272</b>
325	जोरावरसिंह पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	378/2/2	0.272
	योग		<b>0.272</b>
326	रामलाल पिता रत्नसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	379	0.190
	योग		<b>0.190</b>
327	सिदूसिंह रामलाल पिता रत्नसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	380/1	0.556

	योग		<b>0.556</b>	<b>0.556</b>
328	जोरावरसिंह पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	380/2	0.557	0.557
	योग		<b>0.557</b>	<b>0.557</b>
329	बापूलाल पिता मन्नालाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	381/2	0.152	0.152
	योग		<b>0.152</b>	<b>0.152</b>
330	सिद्धूसिंह रामलाल पिता रतनसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	381/2/1	0.045	0.045
	योग		<b>0.045</b>	<b>0.045</b>
331	जोरावरसिंह पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	381/2/2	0.044	0.044
	योग		<b>0.044</b>	<b>0.044</b>
332	कंवरलाल पिता मन्नालाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	381/3	0.152	0.152
	योग		<b>0.152</b>	<b>0.152</b>
333	अहमदबाई पिता परथीसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	381/5	0.065	0.065
	योग		<b>0.065</b>	<b>0.065</b>
334	सिद्धूसिंह रामलाल पिता रतनसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	381/7/1	0.063	0.063
	योग		<b>0.063</b>	<b>0.063</b>
335	जोरावरसिंह पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	381/7/2	0.063	0.063
	योग		<b>0.063</b>	<b>0.063</b>
336	अहमदबाई पिता परथीसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	381/9	0.429	0.429
	योग		<b>0.429</b>	<b>0.429</b>
337	कालूसिंह पिता नरभेसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	382	1.036	1.036
	योग		<b>1.036</b>	<b>1.036</b>
338	सिद्धूसिंह रामलाल पिता रतनसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	383/1	0.095	0.095
	योग		<b>0.095</b>	<b>0.095</b>
339	जोरावरसिंह पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	383/2	0.095	0.095
	योग		<b>0.095</b>	<b>0.095</b>
340	जोरावर सिंह पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	384/1	0.487	0.487
		384/2	0.488	0.488
	योग		<b>0.975</b>	<b>0.975</b>
341	मनोहरबाई पिता मानसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	386	0.555	0.555
	योग		<b>0.555</b>	<b>0.555</b>
342	कालूसिंह पिता नरभेसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	387	1.392	1.392

	योग	1.392	1.392
343	बंशीलाल पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	388/1 389/1	0.151 0.151
	योग	<b>0.151</b>	<b>0.151</b>
344	पारस पिता बलदेव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	388/2 389/2	0.151 0.151
	योग	<b>0.151</b>	<b>0.151</b>
345	मानसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	388/3/1 389/3/1	0.075 0.075
	योग	<b>0.075</b>	<b>0.075</b>
346	रामसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	388/3/2 389/3/2	0.076 0.076
	योग	<b>0.076</b>	<b>0.076</b>
347	राजलबाई पिता दातू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	390 391/1/1/2	0.253 0.253
	योग	<b>0.253</b>	<b>0.253</b>
348	शिवसिंह पिता मनोहरसिंह जाति रेवारी पता निवासी ग्राम सारंगपुर भूमि स्वामी	391/2/1	0.120 0.120
	योग	<b>0.120</b>	<b>0.120</b>
349	प्रह्लाद सिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	391 391/1/1	0.253 0.253
	योग	<b>0.253</b>	<b>0.253</b>
350	राजलबाई पिता दातू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	391/2/2	0.100 0.100
	योग	<b>0.100</b>	<b>0.100</b>
351	भगवानसिंह जगदीश नारायणसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	392/1	0.034 0.034
	योग	<b>0.034</b>	<b>0.034</b>
352	चन्द्रकलाबाई मनोहरबाई अनुसुइया पिता मानसिंह प्रेमबाई बैवा मानसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	392/3	0.033 0.033
	योग	<b>0.033</b>	<b>0.033</b>
353	भगवानसिंह जगदीश नारायणसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	393/1	0.046 0.046
	योग	<b>0.046</b>	<b>0.046</b>
354	चन्द्रकलाबाई मनोहरबाई अनुसुइया पिता मानसिंह प्रेमबाई बैवा मानसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	393/3	0.046 0.046
	योग	<b>0.046</b>	<b>0.046</b>
355	राजनबाई पिता दातू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	394/1	0.518 0.518
	योग	<b>0.518</b>	<b>0.518</b>
356	मनोहरबाई पिता मानसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	398	1.214 1.214
	योग	<b>1.214</b>	<b>1.214</b>

357	बिहारी पिता धीसा जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	399/1	0.372	0.372
	योग		<b>0.372</b>	<b>0.372</b>
358	गोरीलाल पिता धीसा जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	399/2	0.373	0.373
	योग		<b>0.373</b>	<b>0.373</b>
359	मोडसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	400/1	0.067	0.067
	योग		<b>0.067</b>	<b>0.067</b>
360	बशीलाल पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	400/2	0.066	0.066
	योग		<b>0.066</b>	<b>0.066</b>
361	मनोहरबाई पिता मानसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	401	0.101	0.101
	योग		<b>0.101</b>	<b>0.101</b>
362	भगवानसिंह जगदीश नारायणसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	401/1	0.034	0.034
	योग		<b>0.034</b>	<b>0.034</b>
363	राजनबाई पिता दातू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	402/1	1.176	1.176
	योग		<b>1.176</b>	<b>1.176</b>
364	शिवसिंह पिता मनोहरसिंह जाति रेवारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	402/2	1.176	1.176
	योग		<b>1.176</b>	<b>1.176</b>
365	मनोहरबाई पिता मानसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	404 405	0.255	0.255
	योग		<b>0.255</b>	<b>0.255</b>
366	भगवानसिंह जगदीश नारायणसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	404/1  405/1	0.034 0.051	0.034 0.051
	योग		<b>0.085</b>	<b>0.085</b>
367	भगवानसिंह पिता चेनसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	406	0.214	0.214
	योग		<b>0.214</b>	<b>0.214</b>
368	भगवानसिंह पिता चेनसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	408	0.862	0.862
	योग		<b>0.862</b>	<b>0.862</b>
369	सिद्धुसिंह,रामलाल पिता रतन सिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	410/1	1.068	1.068
	योग		<b>1.068</b>	<b>1.068</b>
370	जोरावरसिंह पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	410/2/2	1.068	1.068
	योग		<b>1.068</b>	<b>1.068</b>
371	सिद्धुसिंह,रामलाल पिता रतन सिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	411/1	1.247	1.247
	योग		<b>1.247</b>	<b>1.247</b>

372	जोरावरसिंह पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	411/2	1.246	1.246
	योग		1.246	1.246
373	कालू बनेसिंह प्रेमसिंह राजबाई पिता भंवरलाल अनोखीबाई बैवा भंवरलाल जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	412/1	0.621	0.621
	योग		0.621	0.621
374	रेशमबाई पिता हिन्दुसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	413	0.482	0.482
	योग		0.482	0.482
375	चन्द्रकलाबाई मनोहरबाई अनुसुइया पिता मानसिंह प्रेमबाई बैवा मानसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	414/3	0.016	0.016
	योग		0.016	0.016
376	सिददूसिंह रामलाल पिता रतनसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	415	0.595	0.595
	योग		0.595	0.595
377	परबतसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	418	0.418	0.418
	योग		0.418	0.418
378	सिददूसिंह पिता रतनसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	419	0.708	0.708
	योग		0.708	0.708
379	जोरावरसिंह पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	420/1/2	0.089	0.089
	योग		0.089	0.089
380	कमलसिंह पिता प्रभुलाल जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	403/1	0.528	0.528
	योग		0.528	0.528
381	सिद्धुसिंह, रामलाल पिता रतन सिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	420/2/1	0.089	0.089
	योग		0.089	0.089
382	जोरावरसिंह पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	420/2/2	0.090	0.090
	योग		0.090	0.090
383	सिद्धुसिंह, रामलाल पिता रतन सिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	421/3/1	0.130	0.130
	योग		0.130	0.130
384	हरिसिंह पिता परबतसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	422/1	1.036	1.036
	योग		1.036	1.036
385	सिददूसिंह पिता रतनसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	422/3	0.559	0.559
	योग		0.559	0.559
386	सिद्धुसिंह, रामलाल पिता रतन सिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	422/3/1	0.030	0.030
	योग		0.030	0.030

387	जोरावरसिंह पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	422/3/2	0.031	0.031
	योग		<b>0.031</b>	<b>0.031</b>
388	विजयसिंह पिता नाथमल जाति महाजन पता निवासी ग्राम छापीहेड़ा भूमि स्वामी	423	0.557	0.557
	योग		<b>0.557</b>	<b>0.557</b>
389	भगवानसिंह पिता चेनसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	424/1	0.660	0.660
	योग		<b>0.660</b>	<b>0.660</b>
		424/2/1	0.884	0.884
		424/3	0.381	0.381
		425/1	0.643	0.643
	योग		<b>2.568</b>	<b>2.568</b>
390	भोलाराम प्रभुलाल भैवरीबाई दरयावबाई भूलाबाई पिता नाथू जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	426/1	0.394	0.394
	योग		<b>0.394</b>	<b>0.394</b>
391	रामलाल पिता नाथूलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	426/2	0.389	0.389
	योग		<b>0.389</b>	<b>0.389</b>
392	गंगाराम पिता रत्ता जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	426/3	0.783	0.783
	योग		<b>0.783</b>	<b>0.783</b>
393	श्रीलाल पिता खेमराज जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	427/1/1/1 427/2/1 427/3/1 427/4/1	1.897	1.897
	योग		<b>1.897</b>	<b>1.897</b>
394	जगदीश पिता मांगीलाल जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	427/1/1/2 427/2 427/3 427/4	0.379	0.379
	योग		<b>0.379</b>	<b>0.379</b>
395	जगदीश पिता मांगीलाल जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	427/1/1/3 427/2 427/3 427/4	1.012	1.012
	योग		<b>1.012</b>	<b>1.012</b>
396	कालू पिता कनीराम जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	427/2/2 427/3/2 427/4/2	0.253	0.253
	योग		<b>0.253</b>	<b>0.253</b>
397	रुगनाथ पिता कनीराम जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	427/1/3 427/2/3 427/3/3 427/4/3	0.253	0.253
	योग		<b>0.253</b>	<b>0.253</b>

398	जगदीश पिता मांगीलाल जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	427/1/4 427/2/4 427/3/4 427/4/4	0.253	0.253
	योग		0.253	0.253
399	कालू रुगनाथ पिता कनीराम जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	427/5	1.285	1.000
	योग		1.285	1.000
400	लीलाबाई पति रमेश जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	427/7/1	0.687	0.687
	योग		0.687	0.687
401	सिद्धूसिंह रामलाल पिता रत्नसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	427/7/2/2/2	0.266	0.266
	योग		0.266	0.266
402	रत्नसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	427/8	1.838	1.338
	योग		1.838	1.338
403	जोरावरसिंह पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	428/2/2	0.030	0.030
	योग		0.030	0.030
404	जोरावरसिंह पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	428/3/2	0.018	0.018
	योग		0.063	0.063
	योग		0.101	0.101
	योग		0.182	0.182
405	सिद्धूसिंह, रामलाल पिता रत्न सिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	429/1/1 429/2/1	0.246	0.246
	योग		0.246	0.246
406	जोरावरसिंह पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	429/2/2	0.146	0.146
	योग		0.146	0.146
407	जगदीश पिता शिवलाल जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	430/2	0.190	0.190
	योग		0.190	0.190
408	कालू बनेसिंह प्रेमसिंह राजूबाई पिता भंवरलाल अनोखीबाई बैवा भंवरलाल जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	431	0.353	0.353
	योग		0.353	0.353
409	हरिसिंह पिता परबतसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	432/1	0.125	0.125
	योग		0.125	0.125
410	अहमदबाई पिता परथीसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	432/2	1.923	1.923
	योग		1.923	1.923
411	जगदीश पिता शिवलाल जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	433	0.239	0.239
	योग		0.239	0.239

412	कलाबाई पति श्रीलाल जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	434	0.405	0.600
		435	0.336	
413	मांगीलाल बाबपूलाल पिता बंशीलाल भूलीबाई बैवा बंशीलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	437/1/5	1.000	1.000
		योग	0.741	0.600
414	समदर सिह पिता मैरुसिह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	437/1/8	1.000	0.550
		योग	1.000	1.000
415	लक्ष्मण, रतन,दूर्गा पिता शिवजी, जानी बाई पति शिवजी जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	489/13	3.796	0.150
		योग	3.796	0.150
416	रोडू हरि सिदू कंचनबाई ममताबाई पिता नारायण जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	489/6	2.529	1.000
		योग	2.529	1.000
417	गोरीलाल पिता धीसा जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	489/3	1.339	1.339
		योग	1.339	1.339
418	इन्दरसिंह दरयावसिंह पिता बापूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	489/15/2	2.500	0.500
		योग	2.500	0.500
		महायोग	163.746	151.392

ग्राम कालापीपल की आबादी क्षेत्र खसरा नम्बर 130, 126, 127, 129/2, 134, 135, 136, 137, 138, 140/1/2 की परिसमतियां भी अधिग्रहण की जाना है।

नोट :— भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू—अर्जन अधिकारी सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तरुण कुमार पिथोड़े, उपसचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 16 फरवरी 2017

क्र. 725/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 12/अ-82/16-17

### प्रारंभिक अधिसूचना

**(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)**

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की आने वाली पिपरी वितरण शाखा नहर की माईनर नहर-9, के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यों हेतु । ग्राम—मुण्डला तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 0.085 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 0.21..... एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है :— अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं ।)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की आने वाली पिपरी वितरण शाखा नहर की माईनर नहर-9, के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यों हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है । इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है ।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की आने वाली पिपरी वितरण शाखा नहर की माईनर नहर-9, के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यों हेतु ग्राम—मुण्डला तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

### अनुसूची

सं.क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
01	58/3 ✓	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	हादला वल्द दल्लु जाति वारेला पता नि.ग्राम
02	58/9 ✓	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	रामा पिता झापड़ीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
योग				0.085	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी, बछवानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धरा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्य/विक्य, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धरा-15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागु नहीं होंगे।

क्र. 726/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 13/अ-82/16-17

**प्रारंभिक अधिसूचना**  
**(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)**

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आमल्यापानी वितरण शाखा नहर, माईनर - 4, 5, 6, एवं सब माईनर नहरो के निर्माण एंव संबंधित कार्यो हेतु ग्राम-रेहगुन तहसील बड़वानी, जिला बड़वानी में 9.114 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 22.52 एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है : – अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आमल्यापानी वितरण शाखा नहर, माईनर - 4, 5, 6, एवं सब माईनर नहरो के निर्माण एंव संबंधित कार्यो हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आमल्यापानी वितरण शाखा नहर, माईनर - 4, 5, 6, एवं सब माईनर नहरो के निर्माण एंव संबंधित कार्यो हेतु ग्राम-रेहगुन तहसील बड़वानी जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची

संक्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
01	12/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	देवीसिंग पिता अमरा जाति भीलाला पता सा. देह
02	12/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.085	दशरथ पिता जलाल जाति भीलाला पता सा. देह
03	12/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.012	बालीबाई बेवा धमरिया, रालुबाई उर्फ रामकौरबाई पिता धमरिया जाति भिलाला पता सा.देह
04	12/15	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.120	सकरी पति मुरार जाति भीलाला पता नि. ग्राम रेहगुन
05	32/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.210	निमा पिता धना जाति सिर्वी पता नि. ग्राम
06	32/2 32/3 33/2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	पुनाबाई बेवा गुलसिंग जाति भीलाला पता नि. ग्राम
07	33/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.138	ऐमा पिता धना जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
08	34/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.062	तेरसिंग पिता बाउ सात्या पिता बाउ जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
09	34/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.152	पारु पति खुश्याल जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
10	35/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.065	भीका पिता भाना जाति सिर्वी पता सा. देह
11	35/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.068	बोदर पिता विलमन जाति भीलाला निवासी ग्राम
12	35/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.068	खुश्याल पिता गुलाब जाति भीलाला पता रेहगून
13	35/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.052	निमा पिता भाना हामी बेवा भाना जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
14	36/2 218/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.195 0.068	निमा पिता भाना जाति सिर्वी पता सा. देह
15	37/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.082	नवलसिंह पिता बल्लू जाति भिलाला पता निवासी ग्राम
16	38/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.053	ईन्दरसिंग पिता माला जाति भिलाला पता सा.देह

17	38 / 3 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	बालु पिता भारत जाति भिलाला पता सह. देह
18	38 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.052	मांगीलाल पिता प्रताप जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
19	38 / 7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.065	कैलाश पिता माला जाति भिलाला पता निवासी ग्राम
20	40 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	गोपाल पिता जलाल जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
21	40 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.065	जानुबाई पति लुणा जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
22	40 / 7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.135	सुन्दरबाई पति मांगीलाल जाति सिर्वी पता नि. ग्राम
23	40 / 8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.048	सकाराम पिता जलाल जाति भिलाला पता निवासी ग्राम
24	40 / 9	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	मंशाराम पिता जलाल जाति भीलाला नि. ग्राम
25	43 / 1 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	बिरोजबाई पति जगन जाति भिलाला पता सा. देह
26	43 / 2 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.125	काना, बाबू, कैलाश पिता टीकम जाति सिर्वी नि.ग्राम
27	43 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.028	शंकर पिता बाला जाति भिलाला पता सा. देह
28	43 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	बाबू पिता बाला जाति भीलाला पता सा. देह
	201 / 5			0.037	
29	43 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	राजाराम उर्फ राजू पिता प्रताप, सीताबाई, बेवा प्रताप जाति भिलाला पता सह. देह
30	43 / 6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.017	घिरस्या पिता प्रताप जाति भिलाला पता रेहगुन
31	45 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	दशरथ पिता छगन जाति भिलाला पता सा. देह
32	45 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	रतन पिता छगन जाति भीलाला पता सह. देह
33	45 / 7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	डोगरा पिता छगन जाति भिलाला पता सा.देह
	227 / 2			0.080	
34	45 / 8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.075	कमला पति कैलाश जाति भीलाला नि. ग्राम
35	46 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.125	रमेश पिता नथू जाति भीलाला पता सा.देह
36	47 / 1 65 / 4 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.170	लक्ष्मण दीनेश राधा पिता हमा बाली बेवा हमा जाति सिर्वी पता नि.ग्राम

37 बाजी (पर्वत)	47 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.165	मार्गीलाल लोणया गोमा बद्री पिता खेमा जाली बाई बेवा खेमा रुकमा पिता खेमा जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
38	47 / 3 } 65 / 3 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.140	भगवान पिता दामा जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
39	93 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.110	भारत पिता गबड़ीया मुन्ना मुन्नी पिता गबड़िया ना बा गा साती बेवा गबड़िया व साती बेवा गबड़िया फुदा बेवा नथू जाति भिलाला पता निवासी ग्राम
40	93 / 9	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.140	मनोहर सन्तोष पिता लक्ष्मण पुनीबाई बेवा लक्ष्मण जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
41	96 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	बद्री पिता डाया जाति सिर्वी पता सा. देह
42	101 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.125	डोंगर पिता फाटला जाति भीलाला पता. रेहगुन
43	101 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.108	राजाराम पिता डोंगर जाति भीलाला पता नि. ग्राम
44	103 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	सोमल्या पिता गोबरया जाति भीलाला पता नि.ग्राम
45	103 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	भाईजान पिता तुल्या जाति भिलाला पता निवासी ग्राम
46	150 / 2 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	गुलाब पिता मोत्या जाति भीलाला पता रेहगुन
47	153 / 4 } 154 / 5 } 154 / 18 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.023	रन्धोड पिता हगरिया जाति भीलाला पता नि.ग्राम
48	153 / 7 } 154 / 10 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045	मना उर्फ मनोज पिता गोटु जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
49	153 / 10 } 154 / 13 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.061	मुन्ना मड़ीया पिता गोकुल झावरबाई बेवा गोकुल जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
50	153 / 12 } 154 / 15 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	राकेश ना.बा. सुनिल संजय पिता देवा प्रियंका ना.बा पिता देवा ना.बा.गा. झाला बेवा देवा व झाला बेवा देवा जाति भिलाला पता निवासी ग्राम
51	153 / 19 } 154 / 24 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.022	राजु पिता दला जाति भिलाला पता निवासी ग्राम
52	153 / 20 } 154 / 25 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.016	मंगल्या पिता दला जाति भिलाला पता निवासी ग्राम

53	154 / 3 235 / 2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.124	सीताराम पिता हगरिया जाति सीर्वी पता सा.देह
54	154 / 16 153 / 13 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.036	रेलमबाई पति कन्हैया जाति भिलाला पता नि.ग्राम
55	172 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.005	मगत्या भगवान पिता नहारसिंग नन्दा बेवा नहारसिंग जाति भीलाला पता नि.ग्राम
56	172 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.053	मालुबाई पिता रामसिंग शान्तिबाई बेवा रामसिंग जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
57	181 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	सीताराम, पिता भुवान जाति भिलाला पता सा. देह
58	181 / 7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	हीरा पिता भुवान जाति भीलाला पता सा. देह
59	183 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.065	रणछोड़, मांगीलाल पिता रुखड़िया जाति सीर्वी पता निवासी ग्राम
60	183 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.560	नरान पिता मना जाति सीर्वी पता सा. देह
61	184 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.072	नरसिंग पिता लटू जाति भिलाला पता सा. देह
62	186 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	सरदार, राजाराम, भुरालाल, हीरालाल, मुकेश पिता मलजी, लाडुबाई बेवा मलजी जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
	187 / 4 }			0.060	
63	186 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.315	इसराम पिता गमीर जाति भिलाला पता सा. देह
	187 / 5			0.100	
64	187 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.052	नानला पिता गमीरा जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
65	187 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	नहारसिंग, सुरसिंग, दुरसिंग, भारसिंग पिता शोभाराम, भुरवी बेवा शोभाराम मांगीलाल पिता भावसिंग, मंगा पिता छितु जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
	188 / 1				
	188 / 2				
	190 / 2				
66	187 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	रलजी पिता गमीरा जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
67	196	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.435	मुला पिता मना जाति सीर्वी पता सा. देह
68	200 / 2 217 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.128	जगदीश पिता शंकर जाति सीर्वी पता नि.ग्राम
69	201 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.054	गोपाल पिता रन्छोड़ जाति भिलाला पता रेहगुन

70	201/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.055	कनसिंग पिता प्रताप जाति भिलाला पता रेहगुन
71	201/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045	रामा पिता भदु जाति भीलाला पता सा. देह
72	201/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.048	कन्हैया अनारसिंग पिता शंकर जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
73	202/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.031	गेदालाल पिता मोना जाति भिलाला पता नि.ग्राम
74	202/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.037	सन्तोष बसु मन्नी पिता धीर्या बा.गा. कमली बेवा धिर्या व कमली बेवा धिर्या जाति भिलाला सा.देह
75	202/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.037	शिवराम पिता राबडिया जाति भिलाला पता नि.ग्राम
76	204 218/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.076 0.058	लूना पिता धना जाति सिर्वी पता सा. देह
77	205	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.073	चन्द्रसिंग पिता रन्धोड जाति भिलाला पता रेहगुन
78	206/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	रामा पिता फाटा जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
79	206/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045	ईन्द्रसिंग पिता फाटा जाति भिलाला पता निवासी ग्राम
80	209/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.068	लूना पिता खेमा जाति सिर्वी पता सा. देह
81	209/4 291/3 292/6 292/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045 0.185	मांगीलाल पिता खेमा जाति सिर्वी पता सा. देह
82	210	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.068	पन्नालाल पिता बद्री जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
83	223 224/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	गीता पिता माला माहंग्या आलबाई भुराबाई पिता फाटा गंगाबाई बेवा फाटा माहंग्या ना.बा.गा.गंगाबाई बेवा फाटा दुटा पिता पेमा जोगा गणपत पिता भंगा सीलबाई बेवा भंगा जाति भीलाला
84	228/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.078	हिरुबाई पति मांगीलाल जाति भिलाला पता सा.देह
85	267	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	नेमाजी पिता मोतीजी जाति सिर्वी पता सा. देह
86	274/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	गोपाल पिता निमा जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
87	277/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.065	डाया पिता मेघा जाति सिर्वी पता सा. देह

88	277 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.053	पन्नालाल पिता मेधा, गेन्दीबाई बेवा मेधा पता सा.देह
89	277 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.055	हुक्मा पिता मेधा जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
90	277 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.110	लालु राजू दिनेश पिता गोपाल लिलावाई बेवा गोपाल जाति सीर्वी पता—रेहगुन
91	278 / 2 278 / 3 / 1 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.087	लालु पिता केशा जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
92	283	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	प्रेमबाई पति झाबरिया भायरबाई पति नहारसिंग पता सा.देह
93	289 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.085	घीसालाल पिता खेमा जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
94	289 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.092	मांगीलाल गोमा पिता खेमा जाति सिर्वी पता सा.देह
95	289 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.047	तुलसीराम पिता मोतिलाल जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम—बालकुँआ
96	289 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	गंगाराम पिता मोतिलाल जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
97	290 / 1 291 / 1 292 / 3 292 / 4 / 1 / क	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.262	नैना पिता लिम्बा जमना बेवा लिम्बा जाति सिर्वी पता सा. देह
98	291 / 2 292 / 4 292 / 5 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.098	गोमा पिता खेमा जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
99	296	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.174	नरसींग पिता जामसिंग जाति भिलाला पता सा. देह
100	297	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.136	कैलाश पिता दामा जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
योग				9.114	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्कथापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा—11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू—अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा—12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू—अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने,

किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या बेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्य/विक्य, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागु नहीं होंगे।

क्र. 727/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 14/अ-82/16-17

**प्रारंभिक अधिसूचना**  
**(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्वर्वस्थापन के उचित प्रतिकर और**  
**पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)**

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना आमल्यापानी वितरण शाखा नहर, माईनर नहर एवं उप नहरो के निर्माण एवं संबंधित कार्यो हेतु ग्राम-बालकुआ तहसील बड़वानी, जिला बड़वानी में 9.741 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 2.407 एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी) / प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जाँच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है) : – अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना आमल्यापानी वितरण शाखा नहर, माईनर नहर एवं उप नहरो के निर्माण एवं संबंधित कार्यो हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला-निरंक तहसील-निरंक के ग्राम-निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना आमल्यापानी वितरण शाखा नहर, माईनर नहर एवं उप नहरो के निर्माण एवं संबंधित कार्यो हेतु ग्राम-बालकुआ तहसील बड़वानी जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची

संकेत	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
01	29/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	मुकेश गीता मायदा पिता रेमसिंग जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
	35/4			0.190	
02	35/1/क	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	सरदार पिता गला जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
	36/2				
	36/3				
03	35/1/ख	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.085	पन्नालाल रूपसिंग कनसिंग पिता तेरसिंग कंचन तारा पिता तेरसिंग फुच्चा बेवा तेरसिंग लक्ष्मण राधेश्याम पिता देवीसिंग कमली बेवा देवीसिंग जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
04	35/11 } 36/4 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.015	मगल्या पिता गला जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
05	35/12	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	मगन पिता गला जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
	35/13			0.020	
06	88/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	लीलाबाई पति हीराजी झुमाबाई बेवा वालाजी जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
07	89/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.048	अम्बाराम श्यामलाल पिता रंछोड
	359/1			0.065	शान्तिलाल पिता मोती मालूबाई बेवा रंछोड जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
08	133/8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	बुदा पिता धनसिंग जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
09	134/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.150	जगदीश पिता भीमा जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
10	134/4 } 140/4 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	बाबु पिता भीमा जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
11	142/2 } 143/1 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	लालसिंग पिता रणसिंग धुलकीबाई बेवा रणसिंग जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
12	143/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.058	नुरा पिता रामसिंग जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
13	143/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045	नराण पिता गलसिंग चुनकीबाई पिता भारसिंग नबुबाई पिता भारसिंग जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
14	144/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	गणस्या पिता हजार जाति भीलाला पता निवासी ग्राम धाबाबावडी
	144/9			0.050	

१४ १५ १६	144 / 6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.012	शोभाराम पिता हजार जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
	143 / 6 } 144 / 3 }			0.060	
	144 / 7			0.035	मंशाराम पिता हजार जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
१७	144 / 8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	अम्बाराम पिता हजार जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
	143 / 5 } 144 / 2 }			0.030	
	151 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	रुमाल पिता बुदा जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
१९	151 / 3 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	गलसिंग पिता रामा जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
२०	151 / 3 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	रमेश बद्री सीताराम पिता भारसिंग शोभाराम मंशाराम पिता द्वावालसिंग जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
२१	151 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.130	गोमा नहारसिंग पिता फाटा कुवरबाई जुखाबाई जिवलीबाई पिता फाटा जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
	213 / 1 / 2			0.160	
२२	151 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	रमेश शांतीलाल लालसींग सुरेश पिता दुरसींग जसमा ललीता पिता दुरसींग मांगीबाई बेवा दुरसींग जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
२३	151 / 16	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	राजाराम पिता भुवान जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
२४	155 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	दरबार पिता जिरला जाति भीलाला पता सा.देह
२५	155 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	मांगीलाल पिता वेस्ता जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
२६	154 / 2 } 155 / 2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	सुभान पिता जिरला जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
	155 / 5			0.005	
२७	158 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.027	ईलाबसिंग पिता अमरसिंग जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
२८	158 / 2 } 158 / 4 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.032	भावसिंग पिता अमरसिंग जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
	158 / 3			0.032	
३०	158 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.042	गुलाबसिंग पिता अमरसिंग जाति भीलाला पता निवासी ग्राम

31	158 / 6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.070	नयनसिंग पिता मांगीलाल जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
32	158 / 12	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.022	मुकेश पिता मांगीलाल गेदाबाई बेवा मांगीलाल जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
33	158 / 13	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	चैनसिंग पिता मांगीलाल जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
34	172	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.058	सुभान पिता भारसिंग जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
35	203	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.075	गोपाल रुखडिया पिता उदिया लोण्या पिता भुरा रायसिंग धिस्या सुखलाल पिता रायसिंग गंगा बेवा रायसिंग कैलाश पिता दरियाव चमेली बेवा दरियाव कन्हैया मंशाराम रामेश्वर पिता काशीराम कावेरी बेवा काशीराम कोमल सेवन्ती मन्जु पिता काशीराम अमरा पन्नालाल पिता मगत्या बिरोज बेवा मगत्या लक्ष्मण नयन मगा पिता उमराव कमला राजल पिता उमराव गोपी बेवा उमराव राजीव बद्री पिता जलाल जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
36	213 / 2 213 / 4 219 220 / 3 220 / 5 221 229 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.110	रामसिंग रेमसिंग रूपसिंग जामसिंग गुलाबसिंग धनसिंग पिता पेमा फाटला रेमसिंग पिता खेमजी भंगडा पिता नानटा मुखा रुखा पिता नानटा कैशरी बेवा नानटा जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
37	222 / 3 223 / 4 223 / 1 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.120	रेमता पिता बाथु जाति भीलाला पता सा. देह
38	222 / 5 225 / 2 410 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.042 0.010	झुझार हजारीया कुवरसींग दुवालासींग पिता बाढ्या सुकली बेवा बाढ्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
39	222 / 4 223 / 2 / 2 223 / 3 223 / 6 248 / 9	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100 0.045	भिकला पिता केरा जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
40	223 / 5 224 226 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.214	नहाला पिता मगल्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम

41	226/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.222	सिंगदार धना बोन्दरसिंग गोपाल रूपसिंग केशराम पिता लाबडा चुनकी बेवा लाबडा जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
42	228/1/7 228/5/2 230/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.055	फुलसिंग पिता आपसिंग कोहरीबाई बेवा आपसिंग जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
43	222/2 227/2/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	मालसिंग पिता आपसिंग कोहरीबाई बेवा आपसिंग जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
	228/5/1			0.085	
	410/1			0.055	
	410/2			0.035	
44	244/9	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	रुमसिंग पिता गोबरिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
45	244/10	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	भावसिंग पिता जामसिंग जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
46	245/3 246 248/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.140	बोन्दर पिता पेमसिंग रुमाल चमारिया तुमारिया पिता खरस्या राहली बेवा खरस्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
47	248/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	भावसिंग हरसिंग नानला पिता जामसिंग पुनी बेवा जामसिंग रामसिंग पिता गोमरिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
48	248/8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.056	केशराम पिता रेमता जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
49	244/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	दुरसिंग पिता बाथु जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
	248/10			0.048	
	354/2			0.066	
50	268/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.070	जगदीश पिता नाथाजी जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
51	268/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.032	श्रीमाताजी मंदिर सिर्वी पच बालकुवा खेड़ लीला पति हीरा बाली झुमा बेवा बाला जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
52	268/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	लीलाबाई पति हीरा जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
53	295/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.175	गोमा पिता हेमा जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
54	298	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.120	श्रीराम मन्दिर ग्राम बालकुआ प्रबंधक जिलाध्यक्ष महोदय बडवानी संरक्षण
55	300/4 309/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.032	गोविंद पिता मांगीलाल जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम

56	305/1/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.085	भगवान पिता बद्री जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
57	305/1/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.075	जितेन्द्र पिता बद्री जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
58	306/4 306/7 307/2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.086	उमेश पिता मोहन ना.बा.अ.पा.कर्ता भगवतीबाई बेवा मोहन व भगवतीबाई बेवा मोहन जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
59	306/10 307/1 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.110	बाबुलाल पिता रुखदू जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
60	325	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.185	गोपाल पिता अना जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
61	327/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	गोपाल पिता श्यामा अजय पिता गोपाल जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
62	333/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.150	मांगीलाल पिता हिरा समोती बेवा हिरा जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
63	340/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	नेमा पिता मुला जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम बालकुआ
64	348/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.128	मुकेश पिता चमार जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
65	348/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	धिर्या पिता हुकना जाति सिर्वी साकिन देह
66	348/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.128	माणकलाल पिता पंगु जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
67	348/4 348/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.140 0.080	बाबुलाल पिता वेडया कालीबाई बेवा वेडया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
68	348/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.120	अनारसिंग पिता चमार जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
69	348/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.058	चतुरबाई बेवा चमार जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
70	349/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	राजाराम पिता उंकार जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
71	349/8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	कैलाश रंजीत नरेन्द्र पिता सखाराम मंजु संगीता सपना पिता सखाराम लीलाबाई बेवा सखाराम जाति भीलाला पता निवासी ग्राम बालकुआ
72	352/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.125	शिवराम सखाराम थावला रमेश तेनसिंग पिता रायसिंग पुनी बेवा रायसिंग बुदा पति राजाराम झुना रुना बसु रेशम पिता रायसिंग जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
73	352/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.006	बाबु पिता वेरता गुलाबी बेवा वेरता जाति भीलाला पता निवासी ग्राम

74	352/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.055	नरसिंग पिता वेस्ता जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
75	352/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.110	झुझार पिता वेस्ता जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
76	354/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	धन्नालाल पिता भावला जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
77	354/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	सुखलाल पिता भावला जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
78	357/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.048	सुपडिया पिता बाला जाति भीलाला सा. देह
79	359/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	गोपाल कैलाश कल्याणसिंग पिता मार्ग्या जतनबाई बेवा मार्ग्या बद्रीलाल राजु तलकसिंग देवीसिंग पिता लोण्या छगनबाई बेवा लोण्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
80	360/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.054	शान्तिलाल पिता मोती जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
81	362/2 363/2 365/1 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.262	जगदीश पिता नराण जाति सिर्वा पता निवासी ग्राम बालकुआ
82	368/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.175	धरमलाल पिता नराण जाति सिर्वा पता सा. देह
83	368/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045	जुवानसिंग विक्रम रमेश सुरेश राकेश पिता हिरा मगुबाई रंगुबाई रेशमबाई
	368/4			0.095	ममताबाई सुदामाबाई पिता हिरा केशरबाई बेवा हिरा जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
84	368/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.022	गोकुल पिता चौथ्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
85	368/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.048	दित्या पिता बाबू जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
86	368/10	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	झेतरीया पिता गोकुल जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
87	368/11	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	बाबू पिता मन्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
88	368/12	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045	ममता पति कालु राधाबाई पति राकेश जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
89	368/13	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.037	बुदा पिता भोल्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
	368/14			0.070	
90	368/15	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.022	पप्पु काल्या पिता दयाराम सीताबाई बेवा
	368/17			0.010	दयाराम जाति भीलाला पता निवासी

					ग्राम
91	372/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	शारदाबाई पति लुणा जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
	374/2			0.010	
	373/2			0.080	
92	374/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.152	श्री मारुती मन्दीर प्रबन्धक जिलाध्यक्ष महोदय बडवानी पता निवासी ग्राम
93	375/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.164	गोपाल पिता भुता जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
94	383/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.160	रछोड बद्री पिता उंकार नबूबाई पिता उंकार जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
95	394/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.175	रायसिंग पिता रुखडिया शायर शायदा पिता रुखडिया गबरु झितु गंगाराम पप्पु देवीसिंग पिता गुलाब सुगर मनु बल्लु पिता गुलाब जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
96	394/10	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.115	भारत पिता गल्या कमलीबाई पता गल्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
97	397/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.085	भारत पिता गल्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
98	399/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.046	नराण पिता गबदिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
99	399/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.170	गबदिया पिता उदया जाति भीलाला पता सा.देह
100	403/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	जगदीश पिता गोविन्द मीराबाई बेवा
	405/1/3			0.060	गोविन्द पता निवासी ग्राम
101	403/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	हिरा प्रताप पिता उमराव कालु सगीता सपना माया पिरामा ना बा गा कालु पिता रामा भीलाला पता निवासी ग्राम
102	403/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	मालसिंग चैनसिंग अमरसिंग पिता मोती नावागा मथुरा बेवा मोती व मथुरा बेवा मोती जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
103	404/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	ऊकार पिता गमीरा जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
104	402/3 } 405/2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	रुपचन्द सखाराम जयपाल कमल पिता दयाराम रुखडी बेवा दयाराम जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
105	405/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	संतोष मोहन पिता मांगीलाल देवकोर बेवा मांगीलाल जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
106	405/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.095	बाल्या पिता गटल्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम

107	405 / 8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.077	गगाराम पिता मडिया भारतसिंग पिता दलिया गगुबाई बेवा दला दशरथ पिता गोकुल कृष्णकात पिता रण्ठोड जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
108	408 / 1 409 / 7 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.120	माणकलाल पिता पंगु शामाबाई बेवा मंगल्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
109	408 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.110	भीका पिता रेमसिंग जाति बारेला पता निवासी ग्राम सजवानी खम
110	408 / 3 409 / 2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.260	कोटवाल पिता अमरसिंग सुभान पिता लुहारसिंग जाति बारेला पता निवासी ग्राम सजवानी खम
111	408 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	टिकम पिता रेमसिंग बारेला पता निवासी ग्राम
योग				9.741	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्य/विक्य, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

\* भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे ।

क्र. 728/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 15/अ-82/16-17

### प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पिपरी वितरण शाखा नहर की माईनर नहर-6 एवं उप नहरों के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यों हेतु । ग्राम-लिंगवा तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 2.672 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 6.60..... एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जाँच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है : – अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं ।)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पिपरी वितरण शाखा नहर की माईनर नहर-6 एवं उप नहरों के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यों हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है । इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है ।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पिपरी वितरण शाखा नहर की माईनर नहर-6 एवं उप नहरों के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यों हेतु ग्राम-लिंगवा तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

## अनुसूची

स.क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
	2	3	4	5	6
01	40/1 41/1/1}	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.055	दीपक पिता मूलचन्द जाति महाजन नि. बरुफाटक
02	42/1 42/2 44/2}	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	मूलचन्द पिता बाबूलाल जाति महाजन पता नि. बरुफाटक
	44/1/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.155	
03	43 132/6 132/7 134/3 135	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.140	प्रताप गजानंद सीताराम पिता भगवान रमेश बद्रीलाल पिता बिलमण गेंदा बेवा बिलमण माध्या चन्द्रसींग पिता सुका रणजीत शेलेस पिता तुकाराम प्रेमबाई बेवा तुकाराम जगदीश मोहन पिता सखाराम सावरी बेवा सखाराम जाति भिलाला पता नि.ग्राम
04	54/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.475	रामा मोत्या पिता धना निर्भय पिता दसरिया ना.बा. रामा पिता धना मंगल्या पिता राजाराम मुन्ना पिता राजाराम अ.पा.क.सुरजबाई बेवा राजाराम व सुरजबाई बेवा राजाराम जाति भीलाला पता नि. ग्राम
	101/4 102/4}	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.240	
05	54/2 54/3 55/1 55/4}	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.230	अनारसिंह दशरथ बालू पिता चैन्या जाति भीलाला पता नि.ग्राम
06	56/1 103/1}	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.290	गयरी पिता गुलाल जाति भीलाला पता नि. ग्राम
07	56/4 103/2}	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.032	ओमप्रकाश यशकुमार पिता ऊकारसिंह ना.बा.गा. ऊकारसिंह पिता दयारथ जाति भीलाला पता नि.ग्राम
08	56/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.130	मांगीलाल पिता चम्पालाल, रविन्द्र पिता चम्पालाल, बसनती पिता चम्पालाल अ.पा.क. धनुबाई बेवा चम्पालाल व धनुबाई बेवा चम्पालाल जाति भीलाला पता सा. देह
09	59/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	महेश, दीपक पिता तोताराम जाति भीलाला पता नि. ग्राम

10	59 / 2 } 70 / 2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.300	सुरेश पिता बलवंत जाति भीलाला पता नि.ग्राम
11	99 / 7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045	लोण्या पिता दरियाव जाति भीलाला पता नि.ग्राम
12	99 / 8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.055	देवीसिंह पिता दरियाव जाति भीलाला पता नि.ग्राम
13	101 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	प्रताप पिता बिलमन दिनेश मुकेश रमेश पिता कोलू सकरीबाई बेवा कोलू जाति भीलाला पता नि.ग्राम
14	101 / 3 } 102 / 2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	बाला पिता दरयाव जगदीश पिता मदन अ.पा.क.द्वारकी बेवा मदन व द्वारकी बेवा मदन जाति भीलाला पता नि.ग्राम
15	119 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	सुरेश रामकुमार प्रवीण पिता सुकराम शान्ताबाई बेवा सुकराम शिवम आशाराम पिता औंकार जाति बलाई पता नि.ग्राम
16	119 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	राजाराम मांगीलाल रमेश बाबूलाल जगदीश छगन पिता गप्पू भिलीबाई बेवा गप्पू जाति बलाई पता नि.ग्राम
17	119 / 6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	बंसतीबाई पति हिरालाल जाति गवली पता नि.ग्राम बकवाडी
18	122 / 1 } 123 / 2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	अशोक पिता शिवराम कुसुमबाई बेवा शिवराम जाति भीलाला पता नि.ग्राम
19	132 / 10	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.110	शोभाराम पिता गणपत भूरीबाई पति शोभाराम जाति भीलाला पता नि.ग्राम शा.पट्टेदार
योग				2.672	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं

होने देगा। अर्थात् क्य/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (सारे) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आवेदन, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

क्र. 729/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 16/अ-82/16-17

### प्रारम्भिक अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं. 30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली सालखेड़ा माईनर नहर के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यों हेतु ग्राम-गौणपरा तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 0.925 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 2.28.... एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/ प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारम्भिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है : – अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली सालखेड़ा माईनर नहर के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यों हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेकटेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली सालखेड़ा माईनर नहर के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यों हेतु ग्राम-गौणपरा तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची

संक्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (ह.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
01	47/2 } 53 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.172	नथू पिता पोमडिया जाति भीलाला पता नि.ग्राम रणगाव रोड
02	47/3 } 54/1 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.085	संतोष चन्द्र पिता छोटेलाल जाति तेली नि.ग्राम रणगाव रोड
03	47/4 } 55 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	सतीश चन्द्र संतोष सदाशिव पिता छोटेलाल जाति तेली पता नि.ग्राम
04	47/5 } 57/1 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	छोगालाल सुभाष पिता हेरसिंह पानाबाई बेवा हेरसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम
05	58/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	तुकाराम पिता भल्या जाति भीलाला पता नि.ग्राम
06	58/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	भागीरथ पिता आशाराम गजानंद पिता आशाराम राजुबाई बेवा आशाराम जाति भीलाला पता नि.ग्राम
07	62 63 65/2 } 65/3 66/3 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.085	मिश्रीलाल सुपड़ीया पिता सुक्या जाति भीलाला पता नि.ग्राम रणगाव रोड
08	64/1 } 65/4 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.068	महेन्द्र पिता मोहन कलाबाई बेवा मोहन जाति भीलाला पता नि.ग्राम रणगाव रोड
09	64/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.032	गुलाबसिंह पिता दशरीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम
10	64/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	देवीसिंग पिता मेत्या जाति भीलाला पता नि.ग्राम
11	64/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	उम्मेदसिंह पिता मोत्या जाति भीलाला पता नि.ग्राम रणगाव रोड
12	65/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.070	कालूसिंग गंगाराम शोभाराम पिता अमरसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम
13	65/8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.048	कडवा पिता फत्तू जाति भीलाला पता नि.ग्राम रणगाव रोड
योग				0.925	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर सम्मान, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृद्ध को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्य/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

क्र. 730/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 17/अ-82/16-17

### ~~प्रारंभिक अधिसूचना~~

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली दानोद माईनर नहर तथा नरावला माईनर नहर, के निर्माण एवं उनसे संबंधित अन्य कार्यों हेतु। ग्राम-नरावला तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 1.971 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 4.87.... एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी) / प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है : - अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली दानोद माईनर नहर तथा नरावला माईनर नहर, के निर्माण एंव उनसे संबंधित अन्य कार्यो हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेकटेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली दानोद माईनर नहर तथा नरावला माईनर नहर, के निर्माण एंव उनसे संबंधित अन्य कार्यो हेतु ग्राम—नरावला तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची

स.क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (ह.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
01	29/1 } 29/2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	चैनाजी पिता दूधाजी जाति सिर्वी पता नि.ग्राम बिलवानी
02	29/3 } 31/3 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	ओकार पिता हामाजी जाति सिर्वी पता नि. विलवानी
03	32/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.066	भीमा पिता बुदीया जाति भीलाला पता नि. ग्राम
04	32/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.046	कैलाश पिता गुलाबसिंह जाति भीलाला पता नि. नरावला
05	32/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.044	प्रताप पिता गुलाबसिंह जाति भीलाला पता ग्राम
06	33/1 } 35/3 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.075	बाऊ पिता झापडीया जाति अहीर पता नि. खड़की
07	33/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.070	रेवाबाई बेवा राजाराम जाति अहीर नि. खड़की
08	34/1 } 35/2/2/क } 36/2/क }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.074	भगवान पिता नथु जाति अहीर पता नि.ग्राम
09	34/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.076	सालगराम भागीरथ पिता भगवान जाति अहीर पता नि. खड़की

10	37 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	पुन्या पिता भुरिया जाति भीलाला पता नि. ग्राम
11	37 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.038	सड़ीया पिता भुरिया वालीबाई बेवा भुरिया जाति भीलाला पता नि. नरावला
12	37 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.042	शांतीलाल पिता गुलाबसिंह जाति भिलाला पता नि.ग्राम
13	37 / 10	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.042	शंकर पिता गुलाबसिंह जाति भिलाला पता नि.ग्राम
14	38 / 9	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.078	राजाराम पिता बालू जाति भीलाला पता नि. ग्राम
15	38 / 10	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.062	नाना पिता बालू जाति भीलाला पता सा.देह
16	45 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.065	वेडीया पिता जयमल जाति कुलभी पता नि.खड़की
17	46 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.106	छितर पिता करसन नथीबाई बेवा करसन जाति भीलाला पता नि. नरावला
18	46 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.086	गजू पिता करसन जाति भीलाला पता नि. ग्राम
19	47 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.014	सखाराम पिता उदया जाति भीलाला पता नि. ग्राम
20	47 / 8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	कमल पिता दुबल्या जाति भीलाला पता नि. ग्राम
21	47 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.047	झेतरिया पिता उदिया जाति भीलाला पता नि. ग्राम
22	47 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.038	बाबूलाल पिता देविसिंह जाति भीलाला पता नि. ग्राम
	48 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.036	
23	47 / 4 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.048	नहारू पिता देवीसिंह जाति भीलाला पता नि. ग्राम
24	102 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.092	विश्राम पिता भगड़या सुकली बेवा
	102 / 17	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.065	भंगडा जाति भीलाला पता नि.ग्राम
25	102 / 12	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	सोमला कालु दुर्गा रमेश पिता रामसिंह जाति भीलाला पता नि. ग्राम
26	102 / 16	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.102	गुलाबसिंग पिता हमरिया जाति भीलाला नि. ग्राम

27	102 / 18	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.032	सुरसिंग पिता हमरया जाति भीलाला नि. ग्राम
28	105 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.135	झिगलीबाई पति गुलाबसिंह जाति भीलाला पता नि. नरावला
29	105 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	रामलाल पिता गुलाबसिंह जाति भीलाला पता नि. ग्राम
30	105 / 3 } 106 / 2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.052	गोकुल पिता गुलाबसिंह जाति भीलाला पता नि. ग्राम
योग				1.971	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृद्धा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्य/विक्य, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागु नहीं होंगे।

क्र. 731/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 18/अ-82/16-17

~~प्रारम्भिक अधिसूचना~~  
**(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)**

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की पिपरी वितरण शाखा नहर, माईनर नहर तथा उप नहरों के निर्माण एंव उनसे संबंधित कार्यों हेतु ग्राम-छोटी खरगोन तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 8.950 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 2.2:12. एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/ प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारम्भिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है :— अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की पिपरी वितरण शाखा नहर, माईनर नहर तथा उप नहरों के निर्माण एंव उनसे संबंधित कार्यों हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की पिपरी वितरण शाखा नहर, माईनर नहर तथा उप नहरों के निर्माण एंव उनसे संबंधित कार्यों हेतु ग्राम-छोटी खरगोन तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची

संकेत संख्या	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
01	3/2 3/5 5/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	भावसिंह पिता माधू जाति बारेला पता नि. ग्राम
				0.040	
02	3/6 5/5 6/6 6/7 5/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.128	हरदास पिता मूंगा जाति बारेला पता नि. ग्राम
03	3/9	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.015	वाल्या पिता अमरसिंग जाति बारेला पता नि. ग्राम
04	3/11	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045	पांगल्या पिता मालू जाति बारेला पता नि. ग्राम
05	8/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	खजान पिता होलकारया जाति बारेला पता नि. ग्राम
06	8/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	सखाराम मंशाराम रमेस अकाराम पिता जादया ढूकाबाई बेवा जादया जाति बारेला पता नि. ग्राम
	8/6			0.075	
07	8/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	मदन पिता होलकरया जाति बारेला पता नि. ग्राम
	8/5			0.042	
08	8/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.058	राजाराम पिता होलकरया जाति बारेला पता नि. ग्राम
09	8/8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.032	लोण्या सियाराम पिता खेमा जाति बारेला पता नि. ग्राम
10	8/9	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.114	वकील पिता ओंकार देवकीबाई बेवा ओंकार जाति बारेला पता नि. ग्राम
	9/3			0.060	
11	9/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	भीकला पिता ओंकार देवलीबाई बेवा ओंकार जाति बारेला पता नि. ग्राम
12	10	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.320	ओंकार पिता धीसाजी जाति सिर्वी पता नि. ग्राम
	11/1			0.160	
13	11/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.200	महेन्द्र पिता ओंकार जाति सिर्वी नि. ग्राम
14	11/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.160	राजेन्द्र पिता ओंकार जाति सिर्वी पता नि. ग्राम
15	12	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	लालाजी पिता कानाजी जाति सिर्वी पता नि. ग्राम

16	13	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	सुन्दरबाई पिता मनाजी जाति सिर्वी पता सा.देह
17	14/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.112	शिव पिता लक्ष्मण जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
18	19/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.164	प्रेमलाल पिता बद्रीलाल गीताबाई पता बद्रीलाल जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
19	20/5 } 21/3 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.108 0.050	बद्रीलाल पिता केशाजी जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
20	24/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.380	प्रेमलाल पिता केशाजी जाति सिर्वी पता सा.देह
21	24/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.015	मन्नालाल पिता वालाजी सिर्वी पता नि.ग्राम
22	25 } 26 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.570	बाबूलाल औंकार पिता हेमाजी चुनाबाई बेवा हेमाजी जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
23	27/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.160	मांगीलाल पिता अनाजी जाति सिर्वी पता सा.देह
24	27/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.120	मोहन पिता मांगीलाल जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
25	28/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.005	बाबूलाल पिता हेमाजी जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
26	30/2 } 30/11 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.054 0.065	बाबूलाल पिता हीराजी जाति सिर्वी पता सा.देह
27	30/6 } 30/14 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060 0.092	शंकरलाल पिता हीराजी जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
28	30/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.066	भगवान पिता मन्नालाल जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
29	30/8 } 30/10 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.055 0.085	रमेश पिता गोपाल जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
30	32/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.225	मांगीलाल पिता भीकाजी जाति सिर्वी पता सा.देह
31	33/1 } 33/2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.115	किशन पिता जेठाजी जाति सिर्वी पता सा.देह
32	33/5 } 33/6 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	गोपाल पिता जेठाजी जाति सिर्वी पता सा.देह
33	34/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.195	नाथाजी पिता धनाजी जाति सिर्वी पता सा.देह
34	34/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.155	भगवान राधेश्याम पिता धीसाजी दिनेश पिता धीसाजी नेतृबाई बेवा धीसाजी चंदूबाई बेवा दीपाजी जाति सिर्वी

35	34/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.440	गोपल हिरालाल काना बद्रीलाल पिता नाथाजी जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
36	38/1/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	पूराबाई पति दुधाजी जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
37	39/1 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.150	बद्रीलाल पिता लालाजी जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
	39/2 }			0.072	
38	40/4 } 40/6 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.160	नन्दबाई पती किसन जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
39	41/2 } 41/3 } 41/4 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045	दिनेश पिता मांगीलाल अमित पिता मोहनलाल बाबूलाल माधू जी सिर्वी पता नि.ग्राम
40	41/6 } 41/11 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.056	गेंदीबाई बेवा बद्रीलाल वीरुबाई बेवा बद्रीलाल जाति सिर्वी पता सा. देह
41	41/10	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	शंकरलाल पिता खेमाजी जाति सिर्वी पता सा. देह
42	41/12	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.105	हीरालाल पिता खेमाजी जाति सिर्वी पता सा. देह
43	72/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.610	विजय पिता बद्रीलाल जाति सिर्वी पता सा. देह
44	72/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.112	किशनलाल पिता बालाजी जाति सिर्वी पता सा. देह
45	72/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.338	किशोर पिता बद्रीलाल जाति सिर्वी पता नि. ग्राम
46	73/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.212	रमेश पिता मन्नालाल चन्द्रकला बेवा मन्नालाल जाति सिर्वी पता सा.देह
47	75/1 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.310	जगदीश पिता केसाजी जाति सिर्वी पता सा.देह
	75/3 }			0.295	
48	75/2 } 75/4 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	मीराबाई बेवा कानाजी जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
49	76/1 } 76/2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.115	मोहन पिता कानाजी जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
50	75/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	जेठाजी पिता केशाजी जाति सिर्वी पता सा.देह
51	76/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.230	चंद्रकला पति मन्नालाल जाति सिर्वी पता सा.देह
52	99/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.095	रणछोड पिता नराणजी जाति सिर्वी पता नि. ग्राम
	101/2			0.125	
53	103/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.180	सोहन पिता मन्नालाल जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
54	101/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	उत्तम पिता रुपाजी जाति सिर्वी पता सा.देह
	101/5			0.125	

55 क्र.	104	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.210	खेमाजी पुनाजी विराजी—पालचंद पिता मेघाजी जाति मेघवाल भूमि स्वामी
	योग			8.950	✓

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा—11 (1) के उपबधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू—अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा—12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू—अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा—11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्य/विक्य, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा—15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन किया गया है अतः धारा—6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक—30 सन् 2013) की धारा—10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागु नहीं होंगे।

क्र. 732/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 19/अ-82/16-17

### प्रारंभिक अधिसूचना

**(अधिनियम की धारा—11 का भू—अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)**

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली दमदमी वितरण शाखा नहर, तथा उप नहरो के निर्माण एंव उनसे संबंधित अन्य कार्यो हेतु । ग्राम—दमदमी तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 2.702 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 6.68..... एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है :— अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं ।)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली दमदमी वितरण शाखा नहर, तथा उप नहरो के निर्माण एंव उनसे संबंधित अन्य कार्यो हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है । इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है ।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली दमदमी वितरण शाखा नहर, तथा उप नहरो के निर्माण एंव उनसे संबंधित अन्य कार्यो हेतु ग्राम—दमदमी तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

## अनुसूची

संक.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
01	12/1ग 12/2क 15/1ग 15/2 क	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.068	बद्री पिता हीराजी जाति सिर्वी पता नि.ग्राम सिवई
02	12/1/ख 15/1/ख	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	शंकर पिता हीरा जाति सिर्वी पता नि.ग्राम सिवई
03	12/2ख 15/2ख	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.072	बद्री पिता तेजा जी मोहन कैलाश रेखा पिता मांगीलाल कमलाबाई बेवा मांगीलाल जाति सिर्वी पता नि.ग्राम सिवई
04	12/3 13/2 14/2/ख 14/2/ग	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.390	बिशन पिता प्रेमसिंग जाति बारेला पता नि.ग्राम टेमला बुजुर्ग
05	12/4 14/1 15/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.225	पारसबाई पति बाबुलाल जाति महाजन पता नि.ग्राम राजपुर
06	13/3 14/3 14/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	टिकम पिता रेमसिंग जाति बारेला पता नि.ग्राम
07	16/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.032	गेंदालाल पिता लच्छा जाति काढी पता नि.ग्राम राजपुर
08	16/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	परमान्द पिता मन्नालाल जाति महाजन पता नि.ग्राम राजपुर
09	18/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.128	राजाराम पिता खजान जानूबाई बेवा खजान जाति बारेला पता नि.ग्राम
10	18/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045	बद्री जम्बू दयाराम पिता वरजन जमनीबाई बेवा वरजन दिलीप किशोर आशुबाई पिता नानूराम सुशीलाबाई बेवा नानूराम जाति बारेला पता नि.ग्राम
11	19/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	भारत रत्न शांतिलाल पिता गणपत जाति भीलाला भारसिंह पिता इडिया जाति भील पता नि.ग्राम मंदिल
12	53/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.118	मांगीलाल पिता किशन जी जाति सिर्वी पता नि.ग्राम राजपुर

13	53/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	गुलाब नबी पिता यासीन खां जाति मुसलमान पता नि.ग्राम राजपुर
14	53/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.115	त्रिलोक पिता बाबू जाति भारुड़ पता नि.ग्राम चिंचली
15	53/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	टिकम पिता किशनाजी जाति सिर्वी पता नि.ग्राम राजपुर
16	62/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.085	हमीदाबाई पति अलाबक्स जाति पींजारा पता नि.ग्राम राजपुर
17	62/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	राधेश्याम पिता मनाजी जाति सिर्वी पता नि.ग्राम सिवई
18	62/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.330	राधेश्याम पिता मनाजी मंगूबाई बेवा मनाजी जाति सिर्वी पता नि.ग्राम सिवई
19	63	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	रुग्नाथ पिता सुभान जाति बारेला पता नि.ग्राम
20	64/1/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	सुबान रज्जू रजान बद्री पिता नेवजी जाति बारेला पता नि.ग्राम
	64/1/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.085	
21	64/2 } 65/2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.096	दुरसिंग पिता बालाजी जाति बारेला नि.ग्राम
22	92/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	संजय पिता राजाराम जाति काढी पता नि.ग्राम राजपुर
23	94/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.078	रुपा पिता रन्छोड़ जाति सिर्वी पता नि.ग्राम सिवई
24	94/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.160	गजानन्द पिता दुदाजी जाति सिर्वी पता नि.ग्राम सिवई
योग				2.702	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी, बडवानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोइ नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धरा—11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा । अर्थात् क्य/विक्य, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा—15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन किया गया है अतः धारा—6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक—30 सन् 2013) की धारा—10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागु नहीं होंगे ।

क्र. 733/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 20/अ-82/16-17

### प्रारंभिक अधिसूचना

**(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्ब्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)**

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की पिपरी वितरण शाखा नहर, माईनर नहर 10,11,12 तथा उप नहरों के निर्माण एंव उनसे संबंधित कार्यों हेतु ग्राम—पिपरी बुजुर्ग तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 6. 320 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 15.42 एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी) / प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है : – अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की पिपरी वितरण शाखा नहर, माईनर नहर 10,11,12 तथा उप नहरों के निर्माण एंव उनसे संबंधित कार्यों हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की पिपरी वितरण शाखा नहर, माईनर नहर 10,11,12 तथा उप नहरों के निर्माण एंव उनसे संबंधित कार्यों हेतु ग्राम—पिपरी बुजुर्ग तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।



### अनुसूची

संख्या	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
01	18/1 18/3 19/3}	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	अम्बाराम पिता चीन्दर नि. भवती हाल मुकाम मोरगुन जाति भीलाला
02	18/2/1 19/2/1]	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.150	जगदीश पिता लिम्बाजी जाति सिर्वी पता नि. ग्राम
03	18/2/2 19/2/2]	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.046	सीताबाई बेवा मन्नालाल जाति सिर्वी पता नि. ग्राम
04	18/2/3 19/2/3]	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	बालू पिता मन्नालाल जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
05	18/2/4 19/2/4]	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045	कैलाश पिता मन्नालाल जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
06	18/2/5 19/2/5]	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.065	शिवशंकर पिता आशाराम जाति अहीर पता निवासी ग्राम
	20/3/5			0.015	
07	19/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.070	नरेन्द्र पिता जगदीश जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
08	20/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.065	प्यारी बेवा बाला जाति बंजारा पता नि. मोरगुन
09	20/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.043	भागीरथ पिता मंशाराम जाति अहीर पता नि. ग्राम
10	20/4 21/2 26/3/1ख]	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	कैलाशचन्द्र पिता रामकिशन तारादेवी पति जैनेन्द्र जाति महाजन पता नि. ग्राम
				0.040	
11	21/1 25/3 26/3/1क]	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.055	महेश पिता बाबूलालजी जाति महाजन पता नि.ग्राम
12	24 25/2]	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.052	देवकोर पति गंगाराम जाति अहीर पता नि.ग्राम
13	25/1 154/3]	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.088	रामलाल देवकीया जगदीश पिता मंशाराम जातीबाई बेवा मंशाराम जाति अहीर पता नि. ग्राम
14	29/1/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	किशन पिता कन्धा जाति बारेला पता नि.ग्राम
15	53/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.435	उदयराम पिता ऊँकार जाति अहीर पता नि. ग्राम

16	54 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	मोहन पिता गणपत जाति अहिर पता नि. ग्राम
17	54 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	झुमकाबाई पति छोगालाल जाति अहिर पता नि. ग्राम
18	54 / 10	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.032	प्रेमलाल पिता गणपत जाति अहिर पता नि. ग्राम
19	54 / 11	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	घीसीलाल पिता गणपत जाति अहिर पता नि. ग्राम
20	54 / 12	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.036	केशरबाई उर्फ गीताबाई पिता गणपत जाति अहिर पता नि. ग्राम
21	58 / 2 58 / 3 60 / 3 60 / 4 73 / 6 60 / 5 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.330	दरियाव रालिया गुलाब रतन पिता मंजी हटु पिता गलु जाति बारेला पता नि. ग्राम
22	97 / 2 99 / 2 106 / 2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	बालूराम पिता दयाराम जाति सुतार पता निवासी ग्राम सनगांव
23	97 / 4 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.154	रुपाजी पिता भैराजी जाति सिर्वी पता नि. ग्राम
24	97 / 4 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.106	हाटु पिता रंजी जाति बारेला पता नि. ग्राम
25	97 / 5 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.152	फतूराम लालू राजाराम देवराम पिता दुरसिंह जाति बारेला पता नि. ग्राम
26	97 / 7 98 / 6 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.236	सागर पिता बिशन जाति बारेला पता नि. ग्राम
27	98 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.038	नबुबाई पति बद्रीलाल जाति सिर्वी पता नि. ग्राम
28	98 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.202	हीरालाल पिता गांगाजी जाति सिर्वी पता नि. ग्राम
29	98 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	बद्री पिता रुपाजी जाति सिर्वी पता नि. ग्राम
30	98 / 8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	दिनेश पिता बद्रीलाल जाति सिर्वी पता नि. ग्राम
31	105 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.005	जीवन पिता धन्नालाल लीलाबाई बेवा धन्नालाल जाति अहिर पता निवासी ग्राम
32	105 / 2 105 / 6 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.138 0.070	धन्नालाल पिता किशन सोनाबाई बेवा किशन जाति अहिर पता नि. ग्राम
33	105 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	शिवराम पिता नंदीया जाति अहीर पता नि. ग्राम

34	105 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.115	दिलीप भगवान पिता हेमालाल जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
	105 / 11	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.064	शिवराम पिता किशन जाति अहीर पता नि. ग्राम
36	106 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.085	बाबुलाल पिता सिताराम जाति अहीर पता नि. ग्राम
37	106 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.220	बाबुलाल पिता पुराजी जाति सिर्वी पता नि. ग्राम
38	110 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.230	लक्ष्मण पिता गांगाजी जाति सिर्वी पता नि. ग्राम
39	116 / 1 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045	बद्री पिता हाल्या भुरथा हिरा पिता रातु वालकी पिता रातु जाति राठया (बारेला) पता नि.ग्राम
40	116 / 1 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.140	मोहन पिता कानाजी जाति सिर्वी पता नि. ग्राम
41	116 / 3 } 118 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.130	धुल्या पिता तेरसिंह जाति भीलाला पता नि. ग्राम
42	120	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.120	राजेन्द्र पिता कानाजी जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
43	121 / 1 } 122 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.075	राहुल पिता जगदीश जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
44	131 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.140	जगदीश पिता मूलचन्द जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
45	131 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.005	तेजिमल पिता मोतीजी जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
46	132 / 1 } 132 / 2 } 132 / 3 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.175	भगवान पिता ऊंकार जाति अहिर पता नि.ग्राम
	133 / 1			0.108	
47	132 / 6 } 133 / 2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	सालगराम पिता ऊंकार जाति अहिर पता नि.ग्राम
	139 / 4			0.008	
	140 / 1			0.090	
48	136 / 1 } 137 / 3 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045	टीकम योगेश शारदाबाई पिता पन्नालाल जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
49	136 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.055	टीकम पिता पन्नालाल जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
50	136 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.075	योगेश पिता पन्नालाल जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
51	139 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.125	बिशन उर्फ ब्रजमोहन पिता कन्धा झाली बेवा कन्धा जाति बारेला पता निवासी ग्राम

52	143 / 2 143 / 4 } 144 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	उदयराम भोल्या कालुराम पिता नथ्य जाति अहिर पता नि.ग्राम
				0.034	
53	143 / 3 144 / 6 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.095	रुखमणीबाई पति नंदकिशोर जाति नाई पता निवासी ग्राम
54	143 / 5 144 / 8 } 145 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.078	बाबुलाल पिता हिरा जी जाति सिर्वी पता नि. ग्राम
55	144 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.048	सोहनलाल पिता बाबुलाल अपाक. बाबू पिता हिरलाल जाति सिर्वी पता नि. ग्राम
56	144 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.074	देवेन्द्र पिता भगवान ना.बा.गा. भगवान पिता ऊंकार जाति अहिर पता निवासी ग्राम
57	144 / 7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.038	दुर्गाबाई पति मुसद्दीलाल नि.ग्राम जाति महाजन
58	147 / 3 148 / 3 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.134	मांगीलाल पिता राजाराम धिसीबाई बेवा राजाराम जाति अहीर पता निवासी ग्राम
59	154 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	केशिया भोलूराम गुलिया टुकाराम मोहन पिता कालू आनंदीबाई पिता कालू जाति अहिर पता नि. ग्राम ज्ञानाबाई बेवा कालू जाति अहीर पता नि. ग्राम
60	161 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.220	अयोध्याबाई पिता मांगीलाल फुलाबाई बेवा मांगीलाल जाति बेलदार पता निवासी ग्राम
61	161 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.058	राधेश्याम पिता कवड़ीलाल जाति अहीर पता सा.देह
62	162 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.018	शोभाराम पिता नन्दया जाति अहीर पता सा.देह
योग				6.320	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी, बडवानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृद्ध को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होता होगा । अर्थात् क्य/विक्य, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागु नहीं होंगे ।

क्र. 734/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 21/अ-82/16-17

### प्रारंभिक आधिसूचना

**(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)**

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत पिपरी वितरण शाखा नहर, माईनर नहर 5, 7, 8, 9 एवं उप नहरो के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यो हेतु । ग्राम-जलगोन तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में ४, ४५६ हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् १९५० एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी) प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है : – अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं ।)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत पिपरी वितरण शाखा नहर, माईनर नहर 5, 7, 8, 9 एवं उप नहरो के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यो हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है । इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है ।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत पिपरी वितरण शाखा नहर, माईनर नहर 5, 7, 8, 9 एवं उप नहरो के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यो हेतु ग्राम-जलगोन तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

## अनुसूची

खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता	
1	2	3	4	5	6
01	6/2 6/3 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	संतोष पिता छगन जाति कुलमी पता निवासी ग्राम
02	6/10	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	आशाराम ब. किशन जाति कुलमी पता सा.देह
03	9/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.070	नरेन्द्र पिता रमेश जाति कुलमी पता नि.ग्राम
04	11/8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.008	गोकुल लिमजी जाति कुलमी पता नि.ग्राम
05	11/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.015	सखाराम ब. लिमजी जाति कुलमी पता नि.ग्राम
	11/9			0.020	
06	11/10	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	जगन पिता लिमजी जाति कुलमी पता नि.ग्राम
07	11/11	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	बटाऊ ब. लिमजी जाति कुलमी पता नि.ग्राम
08	12/8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	सायदाबाई बेवा फत्तु जाति कुलमी पता निवासी ग्राम
09	14/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	कैलास पिता घुसाई जाति कुलमी पता नि.ग्राम
10	14/4 15/3 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.028	गोपाल पिता घुसाई जाति कुलमी पता निवासी ग्राम
11	14/5 15/8 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	बद्री पिता घुसाई जाति कुलमी पता निवासी ग्राम
12	15/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	लल्लु रमेश पिता सुक्या शिवकोरबाई
	149/9			0.070	बेवा सुक्या जाति कुलमी पता निवासी ग्राम
13	15/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	
	140/4			0.090	
	149/8			0.075	
14	17/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.210	चुन्नीलाल पिता उंकार जाति कुलमी पता नि.ग्राम
15	20/1 31/4 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.205	रामा पिता मुकुन्द कालीबाई बेवा मुकुन्द जाति कुलमी पता निवासी ग्राम
16	20/2 31/7 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	शंकर पिता जालम जाति कुलमी पता सा.देह
17	26	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.120	रामलाल पिता ठाकुर जाति कुलमी
	31/10			0.055	पता नि.ग्राम

वार्ता 18	27/2 27/3 85/2 90/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.220	रेतु पिता धवला शंभू पिता हरजी आरस्या विचला पिता हरजी पिंजारी बेवा हरजी सुरपाल सुकलाल पिता राधू कमलसिंह नवलसिंह पिता गणस्या रूलजी भुलजी पिता रणजी भदा नूरा पिता बुदन जम्बू ज्ञिन्या पिता कानजी बेनकी बेवा कानजी जाति बारेला पता नि.ग्राम
19	27/7 27/8 86/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	बद्री पिता दवला सायदाबाई बेवा दवला जाति कुलमी पता सा.देह
20	31/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.095	गजानंद गणेश पिता राधेश्याम जाति कुलमी पता नि.ग्राम
21	31/2 31/3 32/9	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	नथीबाई परमीबाई गजराबाई गोदावरीबाई पिता गोविन्द जाति कुलमी पता नि.ग्राम
22	31/11	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.120	गोपाल पिता ठाकुर जाति कुलमी पता निवासी ग्राम
23	55/6 56/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	जम्बू जगदीश तिख्या पिता हरसिंग सोटीबाई सीलु बाई बावली बाई पिता हरसिंग पिदीबाई बेवा हरसिंग जाति बारेला पता नि.ग्राम
24	55/7 56/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.065	सफीद ब. नवसिंग जाति बारेला पता नि.ग्राम
25	55/8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	अशोक विनोद महेन्द्र जितेन्द्र सुभाष अमिताभ पिता मांग्या अ.पा.क. शांता बेवा मांग्या भुवा पिता झापड़िया बलाई हादु पिता बहादर बारेला जाति बारेला पता निवासी ग्राम
26	56/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	प्यारीबाई पति लखुराम जाति बारेला पता निवासी ग्राम
27	56/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	लखुराम पिता मंशाराम जाति बारेला पता निवासी ग्राम
28	84/2 104/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.022 0.008	धवल्या पिता भुक्या जाति बारेला पता नि.ग्राम
29	84/3 104/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.005 0.190	गौरीशंकर पि. जैराम जाति बारेला पता नि.ग्राम
30	84/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.055	शंभु पि. जैराम जाति बारेला पता नि.ग्राम
31	84/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	शंभु पिता रायमल जाति बारेला पता सा.देह
32	85/1 90/3 90/4 92/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.170	शांताबाई पिता चन्द्रया मुन्नीबाई बेवा चन्द्रया बेचालीबाई बेवा चन्द्रया जीरभान मांगीलाल भंग्या पिता डुटीया वेचाण धोपटा देवीसिंह पिता गुलजी बाथू पिता रामसिंह ना.बा.गा.

					माँ भीतवा बेवा रामसिंह जाति बारेला
नं। 33/1	103/4 111/7 111/8 111/2/3 113/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	बेचाण बिलदार गणपत बिल्लोरसिंह पिता हिरका ढेड़ीबाई बेवा हिरका जाति बारेला पता नि.ग्राम
34	104/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	जनसंग गौरीशंकर सम्बू पिता जैराम जाति बारेला पता नि.ग्राम
35	104/7 105/6 111/4 111/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.140	जनसंग ब. जैराम जाति बारेला पता नि.ग्राम
36	111/9 113/5 114/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.070	गणेश तीनस्या पिता गुमान जाति बारेला पता नि.ग्राम
37	133/3 133/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.008 0.110	मन्नालाल पिता गजानंद जाति काढी पता निवासी ग्राम
38	142/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.070	बालु पिता किशन जाति भीलाला पता नि. ग्राम मोरगुन
39	142/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	न्यादर पन्या पिता तुमडिया जाति भीलाला पता नि. सा. मोरगुन
40	142/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.016	गंगाराम गणपत पि. रेतु जाति बारेला पता सा.देह
41	142/4 143/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	भुवान पिता डूटा जाति बारेला पता नि.ग्राम
42	142/6 143/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.016	दरियाब ब. फत्या जाति भीलाला पता नि. ग्राम मोरगुन
43	142/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	गंगाराम ब.छल्या जाति बारेला पता निवासी ग्राम
44	142/8 142/9	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025 0.080	वनकर पिता मालू जाति बारेला पता सा. मोरगुन
45	142/11	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	भग्न पिता गंगाराम जाति बारेला पता सा.देह
46	142/12	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.028	गेंदाबाई बेवा रनछोड़ जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
47	143/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	अशोक विनोद महेन्द्र जितेन्द्र सुभाष अभीताप पिता मांग्या अ.पा.क. शांताबाई बेवा मांग्या मुन्ना पिता झापडिया भुरीबाई बेवा झापडिया जाति बलाई पता नि.ग्राम
48	143/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.085	मगन पिता सुक्या नि.ग्राम जाति बलाई
49	144/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	शिवजी रलजी पिता निहाला जंगल्या पिता हाबा भूमिस्वामी गटल्या पिता निहाला जाति बारेला पता सा.देह
50	144/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.155	जगन पिता भोल्या जाति बारेला पता

	184 / 5			0.025	नि.ग्राम
51	149 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	सालकराम पिता लक्ष्मण जाति कुलमी पता निवासी ग्राम
	149 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	धोंधरा पिता धन्या जाति बारेला पता सा.देह
53	149 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.170	मंशाराम ब. धन्या जाति बारेला पता नि.ग्राम
54	149 / 6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.070	पण्डू पिता सुरदास विकम पिता सुरदास अ.पा.क सुरदास पिता चमारिया जाति बारेला पता सा.देह
55	149 / 10	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.065	गजानंद पिता कालू जाति कुलमी पता निवासी ग्राम
56	154 / 1 154 / 2 173 / 1 173 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.250	हिन्दु गुलाल्ला पिता साहदू बायटी बेवा साहदू जाति बारेला पता निवासी ग्राम
57	152	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	बिरला पिता शोभाराम केशरी बेवा
	174 / 2			0.060	शोभाराम हुकुम पिता शोभाराम
	174 / 10			0.075	मंशाराम पिता धन्या जाति बारेला पता नि.ग्राम
58	153 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	टुमन मकून पिता रणजी बायटीबाई बेवा रणजी जाति बारेला पता निवासी ग्राम
59	153 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.055	गटु पिता धरमा जाति बारेला पता सा.देह
60	153 / 3 154 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	सिंगदार जगदीश पण्डू मयाराम पिता केवजी बनीबाई बेवा केवजी जाति बारेला पता निवासी ग्राम
61	155 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.042	सिदला पिता कलजी जाति बारेला पता निवासी ग्राम
62	155 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	मलजी ब. दीत्या जाति बारेला पता निवासी ग्राम
	155 / 6 171			0.175	
63	155 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	शिवजी पिता जालम जाति बारेला पता निवासी ग्राम
64	155 / 7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045	वेलसिंग उर्फ वेलछा पिता सिदला जाति बारेला पता निवासी ग्राम
65	155 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	गोटिया पिता सिदला जाति बारेला पता निवासी ग्राम
66	155 / 5 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.170	रामज्या रुमज्या जितेन्द्र पिता दरबार अ.पा.क. कालीबाई बेवा दरबार व कालीबाई बेवा दरबार जाति बारेला पता निवासी ग्राम
67	163 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.095	मयाराम पिता मांगीलाल जाति बारेला पता निवासी ग्राम

68	165 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	लोभान पिता मंजी जाति बारेला पता निवासी ग्राम
69	165 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.372	
	165 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.008	गटया पिता मंजी जाति बारेला पता निवासी ग्राम
	165 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.240	
70	166 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	हीरालाल ब. शंकर जाति बारेला पता नि.ग्राम
71	166 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	हजारी पिता शंकर जाति बारेला पता सा.देह
72	167 168 / 4 } }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.165	हीरालाल तुलसीराम शिवराम पिता धुल्या मलईबाई बेवा धुल्या सुंदर बेवा प्रेमलाल रुखमणी बेवा प्रेमलाल जाति अहीर पता नि.ग्राम
73	168 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.190	लोकेश पिता तुलसीराम नानुराम पिता आशाराम जाति अहीर पता निवासी ग्राम
74	182 / 3 182 / 8 } }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.245	जेतु पिका बछला वागरी बेवा रेलम लटू पिता केंदला गिरधर पिता साधु सुरमल पिता गणपत अ.पा.क. दादा गिरधर पिता सदू जाति बारेला पता नि.ग्राम
75	182 / 7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.150	रेतु लच्छा खजान पिता सांगला हादू फतु पिता छल्लु जायली बेवा छल्लु बुदन राजु लल्लु शांतीलाल पिता छल्लु जगदीश भुरा जाति बारेला झीना तीनस्या पिता गटाराम नि.ग्राम
76	182 / 16	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.055	बटु पिता मंशा जाति बारेला पता निवासी ग्राम
77	182 / 17	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	विरम प्रेमलाल तुकाराम जगदीश रघु पिता लखुराम जाति बारेला पता नि.ग्राम
78	183 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	लखुराम पिता मंशाराम जाति बारेला पता नि.ग्राम
79	184 / 8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.130	आसाराम पिता शिवजी जाति बारेला सा.देह अ.पा.क शिवजी पिता कलजी जाति बारेला पता सा.देह
80	191 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.140	हादू पिता बहादर जाति बारेला पता सा.देह
योग				7.856	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा—11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू—अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोइ नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

~~भूमि से संबंधित रेखांकन भू—अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।~~

अधिनियम की धारा—11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्य/विक्य, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा—15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन किया गया है अतः धारा—6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक—30 सन् 2013) की धारा—10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागु नहीं होंगे।

क्र. 735/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 22/अ-82/16-17

### प्रारंभिक अधिसूचना

**(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्ब्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)**

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत पिपरी वितरण शाखा नहर, माईनर नहर 5, 7, 8, 9 एवं उप नहरो के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यो हेतु । ग्राम—मोरगुन तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 1.010 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात 2.50.... एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है : – अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं ।)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत पिपरी वितरण शाखा नहर, माईनर नहर 5, 7, 8, 9 एवं उप नहरो के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यो हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है । इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है ।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत पिपरी वितरण शाखा नहर, माईनर नहर 5, 7, 8, 9 एवं उप नहरो के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यो हेतु ग्राम—मोरगुन तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

## अनुसूची

संकेत संख्या	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
01	13/3/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	शिवराम पिता बाला समोतीबाई बेवा बाला जाति बंजारा पता नि. ग्राम
02	13/3/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	हरी पिता झामा जाति बंजारा पता नि. ग्राम
03	17/2 17/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.015	साहग पिता दवला जाति बंजारा पता नि. ग्राम
04	17/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.005	मांगू पिता दवला जाति बंजारा पता नि. ग्राम
05	17/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	शांतीलाल पन्डु पिता हीरालाल विकाश पिता हीरालाल बोंदरीबाई बेवा हीरालाल जाति भीलाला पता नि. ग्राम
06	42/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	वद्री पुत्र झामा जाति बंजारा पता नि. ग्राम
07	42/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	आनन्दीलाल पुत्र नथू जाति बंजारा पता नि. ग्राम
08	42/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	मोहन उंकार पिता सुर्या ना.बा.गा. मोहन पिता सुर्या जाति बंजारा पता नि. ग्राम
09	94/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.120	संतोष पिता काशीराम जाति भीलाला पता नि. ग्राम
10	95/1 95/4 95/8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020 0.030 0.050	मदन पिता छितर जाति भीलाला पता नि. ग्राम
11	95/2 95/5 95/9	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030 0.045 0.050	सखाराम पिता छितर जाति भीलाला पता नि. ग्राम
12	95/3 95/6 95/10	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040 0.040 0.065	धूल्या पिता छितर जाति भीलाला पता नि. ग्राम
13	95/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.120	धूल्या मदन सखाराम पिता छितर रुपाबाई बेवा छितर जाति भीलाला पता नि. ग्राम
योग				1.010	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा—11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू—अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा—12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू—अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृद्ध को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा—11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्य/विक्य, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा—15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन किया गया है अतः धारा—6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक—30 सन् 2013) की धारा—10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

क्र. 736/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 23/अ-82/16-17

### प्रारंभिक अधिसूचना

**(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)**

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली वितरण शाखा सिनगुन एंव मोरानी माईनर तथा भागसुर माईनर 2 के निर्माण एंव उनसे संबंधित अन्य कार्यों हेतु ग्राम—मोरानी तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 5.763 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 14.24. एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी) प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जाँच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है : — अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं)।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली वितरण शाखा सिनगुन एंव मोरानी माईनर तथा भागसुर माईनर 2 के निर्माण एंव उनसे संबंधित अन्य कार्यों हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली वितरण शाखा सिनगुन एंव मोरानी माईनर तथा भागसुर माईनर 2 के निर्माण एंव उनसे संबंधित अन्य कार्यों हेतु ग्राम—मोरानी तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (ह.)	व्यक्ति का नाम और पता	
1	2	3	4	5	6
01	2/1/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.032	वेस्ता पिता भल्या भीलाला पता नि. ग्राम
02	2/1/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.075	रोईन्दा लच्छा पिता कुश्या कमलीबाई बेवा जामू ना.बा. कालू रालू टेढू पिता जामू अ.पा.क. कमलीबाई धुमसिंह पिता रामू ना. बा.ग्यानसिंग पिता रामू अ.पा. धुमसिंह पिता रामू जाति भिलाला पता सा.दे.
03	10/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.132	बोंदर पिता गोमला भीलाला पता सा.देह
04	2/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.022	सोमला पिता भल्या जाति भीलाला पता नि.ग्राम
05	2/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	नानसिंग पिता भल्या जाति भीलाला पता नि.ग्राम
06	2/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	सखाराम पिता शंकर जाति भीलाला पता नि.ग्राम
07	2/13	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.072	हीरासिंह पिता रेमसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम
08	7/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.018	नरसिंह पिता रेमसिंह जाति भिलाला पता नि.ग्राम
	7/5			0.040	
9	7/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.018	ग्यारसिंह पिता रेमसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम
	7/6			0.050	
10	7/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.018	सखाराम पिता रेमसिंह जाति भिलाला पता नि. ग्राम
11	8 15/2 21/1/क 22/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.032	नथी पत्ती जतन रानी रतन पिता कना बाली पिता सुकन जाति भिलाला पता नि. ग्राम
12	9/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.056	मिदू पि. भल्या जाति भीलाला पता सा. देह
13	9/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	रुमला पिता शंकर जाति भिलाला पता नि. ग्राम
14	9/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	जैमला पिता शंकर जाति भिलाला पता नि. ग्राम
15	9/8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	राध्या पिता शंकर जाति भिलाला पता नि. ग्राम

16	9/9	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.026	जगदीश पिता सेकड़िया जाति भीलाला नि. ग्राम
17	9/10	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.028	शोभाराम पिता सेकड़िया जाति भीलाला पता नि.ग्राम
18	9/13	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.018	रमेश पिता सेकड़िया जाति भीलाला पता नि.ग्राम
19	14/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.086	नाथ्या पि. मुशंया जाति भीलाला पता सा.देह
20	18/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.032	भगवान पिता लक्ष्मण जाति माली पता सा. भागसुर
	18/6			0.022	
	18/7				
21	19/2 37/1/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.115	गोपाल पिता चिमनाजी जाति माली पता नि. ग्राम
22	26/2 27/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.300	विक्रम पि. बाबूलाल सिर्वी सा. देह कासेल
23	29/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.108	खजान ज्ञानसींग, केमता भिका पिता रूल्या राधाबाई बेवा रूल्या जाति भीलाला पता सा.दे.
24	29/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.032	मदन पिता गुलज्या जाति भीलाला सा.दे.
25	29/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	राल्या पि. गटु जाति भीलाला पता सा.दे.
26	29/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.016	भोल्या पि. रुखड़या भीलाला पता सा.दे.
27	29/9	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.028	बद्री पिता गुलज्या जाति भीलाला पता नि. ग्राम
28	29/15	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	गुमान पिता केरिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
29	29/16	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.022	खुमान पिता केरिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
30	31/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	पहाड़सिंह पिता रामा जाति तड़वी पता नि.ग्राम
31	31/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.074	कालू पिता हरीसींग जाति भीलाला पता सा.देह
32	31/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.036	गेमा पि.हिरर्ज्या जाति भील पता सा.दे.
33	36/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.068	अनारसिंह सुरसिंह पिता सुकलाल इशराम मुन्ना रुखमाबाई राधा झिंगली पिता फत्या अमरी बेवा फत्या जाति भीलाला पता सा. दे. मोरानी

<b>खंड 4</b>	<b>37 / 1 / 1 39 / 2 39 / 3 } 39 / 3 }</b>	<b>भूमिस्वामी</b>	<b>निजी भूमि</b>	<b>0.098</b>	<b>किशन, हुकुमचन्द पिता चिमनाजी जाति माली नि. ग्राम</b>
35	37 / 1 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.066	गोविंद पिता उंकार जाति माली पता निवासी ग्राम भागसुर
36	37 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.092	संतोष पिता फुलचन्द जाति माली पता निवासी ग्राम भागसुर
37	44 / 2 } 46 / 1 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	राजाराम पिता कोल्या जाति भिलाला नि. ग्राम
38	44 / 4 } 46 / 3 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.046	जसमल पिता रामसिंह जाति भिलाला पता सा.दे.
39	44 / 5 } 46 / 4 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	बाऊ उर्फ बाबूलाल पिता कोल्या जाति भीलाला नि.ग्राम
40	46 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.160	देवीसिंग पिता कोल्या जाति भिलाला नि. ग्राम
41	47 / 2 } 55 / 3 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.056	दयाराम पिता अर्जुन जाति बलाई पता निवासी ग्राम
42	47 / 3 } 55 / 4 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.065	अनिल पिता दयाराम जाति बलाई पता निवासी ग्राम
43	47 / 4 } 55 / 5 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.068	सूरजबाई बेवा गंगाराम कलाबाई कंशरबाई कुसुमबाई पूनाबाई कमलाबाई इमलाबाई लाडकीबाई पिता गंगाराम रामलाल दामोदर पिता गंगाराम जाति बलाई पता निवासी ग्राम
44	48 / 1 } 50 / 3 } 50 / 4 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.110	बंशीलाल पिता भगवान जाति माली पता निवासी ग्राम
45	48 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.164	शांतीलाल पिता गंगाराम जाति माली पता निवासी ग्राम भागसुर
46	68 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	लालु पिता गंगाराम जाति माली पता निवासी ग्राम
47	69 / 1 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.202	गुमान रतन भावसिंह रुमसिंह मदन पिता खेमा भीलाला पता सा.दे.
48	69 / 1 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	जुवानसिंग गिलदार भुवानसिंग पिता गोमा जाति भीलाला पता सा.दे.
49	69 / 1 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	बाल्या पि. नानसिंग जाति भीलाला पता सा.दे.
50	77 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.068	ज्ञानसिंह केरीया जेमला रुमला पिता फुलसिंह जाति भीलाला नि. ग्राम

51	77/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	गुलाब ईलाब कास्या पिता लालसिंह जाति भीलाला नि. ग्राम
52	159/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.180	पुन्या वेखड़या नहारसिंह मालसिंह
	294/2			0.200	लालसिंह कैलाश पिता खुमसिंह गेन्दली बेवा खुमसिंह जाति भीलाला पता सा.दे.
53	159/2 } 161/1 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	रायमल सायमल सोहन पिता रेवला रमती लाड़की दुर्गा पिता रेवला जाति भिलाला पता सा.दे.
54	161/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	नानका पिता चमारिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
	169 } 170/2 }			0.110	
55	167/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.120	जगदीश पिता भीनका जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
56	167/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	केरिया पिता चमारिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
57	170/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.070	गेदिया नानका मोटला खजान रतन पिता जाल्या नानस्या नुरस्या अनस्या रुमला जैमला हतरसिंह चतरसिंह पिता धूलिया बन्नीबाई बेवा धूलिया नूरा पिता रामला रेशमाबाई धूलीबाई रलीबाई पिता रामला जाति भिलाला पता सा.दे.
58	171/1/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	मीरा सारा बाया हनु पिता भारसिंह डुडला पिता लटू शेरसिंह पिता खुमान रेमसिंह पिता किडीया गुली नूरी पिता अमरसिंह समोती बेवा मगरसिंह जिरभान हुकमा पिता मगरसिंह दिनेश भूरु पिता बनसिंह गौराबाई बेवा बनसिंह साया पिता चमार गना सुमरीया पिता सजन जाति भील पता निवासी ग्राम
59	288/4 } 298/3 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.110	जामसिंह पिता इन्द्रसिंह जाति भीलाला नि. ग्राम
60	288/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	सिकदार पिता भीमा जाति भीलाला
	294/1			0.110	पता निवासी ग्राम
	294/8			0.090	
61	294/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.130	विश्राम पिता भीमा जाति भिलाला पता निवासी ग्राम

वार्ता 2	291 / 2}	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.130	रेमसिंह पिता कलजी जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
	291 / 3			0.010	
	319 / 3				
63	319 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	देवीसिंह पिता गुलसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
64	319 / 9	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.034	डुडला पिता मनस्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
	319 / 11			0.036	
	319 / 14			0.100	
65	319 / 10	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	नूरीया पिता मनस्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
66	319 / 13	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	गुणसिंह पिता मुनस्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
67	321 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	गुलाब रूपसिंह भिमका पिता बाला भीलाला पता सा.दे.
68	322 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.315	गयला पिता चमारिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
69	325 / 3 } 327 / 3 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.120	भुवानसिंह ज्वानसिंह गिलदार पिता गोमा सुन्दरीबाई बेवा गोमा रीछा बद्री जैराम हिरमल पिता फत्या जामसिंह सुकलाल नाथू दशरथ भीमसिंह पिता मूस्या बाल्या पिता नानसिंह सोमला फुलस्या मालसिंह पिता डुडला झंझाड ढेढू पिता गुलाब पानी बेवा गुलाब जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
70	334 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	जामसींग पि. जैमला भीलाला पता सा. देह
71	334 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	खुमसिंह पि. जैमला जाति भीलाला पता सा. देह
72	339 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.102	सुभान मालसिंह पिता रेमसिंह जाति भीलाला पता सा.दे.
योग				5.763	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

**भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोइंग नहर बांध साग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।**

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्य/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

क्र. 737/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 24/अ-82/16-17

### प्रारंभिक अधिकृतीयना

**(अधिनियम की धारा—11 का भू—अर्जन, पुनर्वास और पुनर्ब्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)**

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत सिनगुन वितरण शाखा की माईनर नहर, सिनगुन डायरेक्ट माईनर नहर तथा उप नहरो के निर्माण एंव उनसे संबंधित कार्यो हेतु । ग्राम—लाठी तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 2.724 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 6.73.... एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी / प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है : — अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं ।)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत सिनगुन वितरण शाखा की माईनर नहर, सिनगुन डायरेक्ट माईनर नहर तथा उप नहरो के निर्माण एंव उनसे संबंधित कार्यो हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है । इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है ।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली सिनगुन माईनर नहर, तथा उप नहरो, के निर्माण एंव उनसे संबंधित अन्य कार्यो हेतु ग्राम लाठी तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

## अनुसूची

सं. क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
01	18/1 18/2 101/3 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	अनिताबाई पति हंशराज जाति बंजारा सा.देह खड़की
02	33/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.120	भारतसींग पिता राल्या जाति भीलाला पता सा.देह
03	38	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	मना पिता हिरा जाति सिर्वी पता नि.बुदरा
04	40/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	रामा सुपड़िया पिता पुन्या जाति तेली पता सा.देह
05	40/3 42/3 43/1 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.070	भेराजी नथु बद्री निमा तेजुबाई पिता मोत्या गंगाबाई बेवा मोत्या जाति सिर्वी पता सा.बुदरा
06	40/4 49/5 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.075	छगन मुन्ना उर्फ इन्दरसिंह पिता भीमा जाति भीलाला पता नि. ग्राम
	47/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	
	48/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.015	
07	40/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.102	नाथा दुदा पिता धिस्या अ.पा.क. बालकीबाई बेवा धिस्या व बालकीबाई बेवा धिस्या सिर्वी पता नि. बुदरा
08	48/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.075	नानी बेवा काशीराम गीता रेखा पिता काशीराम जाति भीलाला पता नि.ग्राम
09	48/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.084	भुवानसिंग जगदिश कली काल्या पिता चमारिया जाति भिलाला पता सा.देह
10	48/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	गोकुल सरदार पिता दयाराम जाति भीलाला पता सा.देह
11	48/8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.015	दसरथ पिता नथु जाति भीलाला पता नि. ग्राम
12	63/11 64/4 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.075	हिरालाल देवा पिता रामसुर जाति मेघवाल पता सा. देह
13	64/3 65/5 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	ललीतकुमार राकेशकुमार पिता ग्यारसीलाल जाति अग्रवाल पता नि ग्राम राजपुर
	64/5 65/8 66/2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	

14	★ 64 / 6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.125	ललीतकुमार पिता ग्यारसीलाल जाति अग्रवाल पता नि ग्राम राजपुर
15	76 / 1 77 / 2 101 / 4 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	परती पिता मोत्या जाति बंजारा पता सा. खड़की
16	76 / 4 76 / 5 76 / 9 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.032 0.028 0.036	किशोर पिता लक्ष्मण जाति काढी पता नि. राजपुर
17	77 / 3 80 / 1 81 / 4 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.220	नहलुबाई नकलीबाई पातली झमली इडी पिता वेस्ता राजलीबाई बेवा वेस्ता जाति तड़वी
18	81 / 2 81 / 3 82 / 1 83 / 3 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.200	चंदु चैना पूना रमेश पिता शिवराम कमलाबाई बेवा शिवराम जाति बंजारा पता सा. खड़की
19	87 / 1 88 / 1 89 / 6 90 / 4 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.290	
20	84 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.092	रैमान जैमान पिता दशरथ जुवानसिंग नानसिंग पिता दुरसिंग वालसिंग पिता दुरसिंग ना. बा. मां धनुबाई व धनुबाई बेवा दुरसिंग जाति तड़वी
21	89 / 2 90 / 1 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	कालु पिता हरजा जाति बंजारा पता सा. खड़की
22	89 / 5 90 / 2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.172	सीताराम पिता सुक्या जाति बंजारा पता सा. खड़की
23	103	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.110	रामसिंग सुरपाल पिता वेस्ता मेथु पिता रावजी खेमा न्यादर पिता अनसिंग जाति तड़वी
24	106 113 / 1 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.120	महेश पिता बाबूलाल जाति महाजन पता सा. राजपुर
25	114	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.110	छितु पिता पातलिया सुरसिंह पिता छीतु कनीबाई कालीबाई ढुढलीबाई पिता ईडा मानसी बेवा ईडा जाति तड़वी पता सा. देह
26	116 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.125	दलसिंग पिता पुन्या जाति तड़वी पता नि. ग्राम
	योग			2.724	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू—अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोइ नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू—अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृद्ध को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्य/विक्य, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागु नहीं होंगे।

क्र. 738/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 25/अ-82/16-17

~~प्रारंभिक अधिसूचना~~

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर परियोजना के अन्तर्गत नरावला माईनर नहर के निर्माण एंव उनसे संबंधित कार्यों हेतु ग्राम-दानोद राजपुर, जिला बड़वानी में 1.094 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् १.०९४ हेक्टर (सामाजिक समाधात अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वा दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी) प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाधात रिपोर्ट/प्रारंभिक जाँच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है : – की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत नरावला माईनर नहर के निर्माण एंव उनसे कार्यों हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत नरावला माईनर नहर के निर्माण एंव उनसे कार्यों हेतु ग्राम-दानोद तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की स प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

सं. क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
01	589 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.122	अनिल रमेश पिता नार्या गनीबाई बेवा नार्या जाति भीलाला पता सा.देह
02	589 / 2 / 2 589 / 3 / 2 589 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.210	पुनमचन्द्र पिता लटू जाति भीलाला पता सा.देह
03	589 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.112	रायसिंग पिता गोमला जाति भीलाला पता नि.ग्राम सा.देह

04	590 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.132	देउ पिता सोमला जाति बारेला पता सा.देह
05	590 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.048	बाला पिता हरि जाति भारुड पता सा.देह
06	590 / 11	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045	हगरिया पिता हरि जाति भारुड पता सा.देह
07	590 / 12	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.062	ठाकुर आशाराम पिता नारायण सजन सिकोर पिता नारायण जाति भारुड पता सा.देह
08	634 / 1 } 635 / 1 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.180	तुलसीराम पिता गौवीन्द जाति भारुड पता सा.देह
09	634 / 2 } 635 / 3 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.085	शिवराम, तुकाराम धन्नालाल पिता करसन पारुबाई केशरबाई उमाबाई पिता करसन जाति भारुड पता सा.देह
10	634 / 3 } 635 / 4 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.070	दामा पिता पुन्या जाति भारुड पता सा.देह
11	635 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.028	शोभाराम पिता गौविन्द जाति भारुड पता निवासी ग्राम
योग				1.094	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृद्धा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित लिप्तादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धरा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्य/विक्य, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

क्र. 739/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 26/अ-82/16-17

### प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली सिनगुन वितरण शाखा नहर माईनर नहर तथा उप नहरों के निर्माण हेतु ग्राम-कांसेल तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 4.904 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 12.12 एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी) / प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है) : – अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली सिनगुन वितरण शाखा नहर माईनर नहर तथा उप नहरों के निर्माण हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली सिनगुन वितरण शाखा नहर माईनर नहर तथा उप नहरों के निर्माण हेतु ग्राम-कांसेल तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची

संक्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (ह.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
01	8/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.065	उत्तम पिता रामलाल जाति सिर्वी पता नि. ग्राम साली
02	18/2 19/4 217/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.075	परमानन्द पिता जालम जाति भीलाला पता नि.ग्राम
03	19/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	कंचनबाई पति परमानन्द जाति भीलाला पता नि.ग्राम
04	19/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.048	पुन्या धन्नालाल पिता सिगदार जाति भीलाला पता नि.ग्राम
05	39/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.210	गोविन्द पिता रनछोड जाति सिर्वी मिहिर कुमार पिता उपेन्द्र नाथ विश्वास जा. नमो शुद्र बलाई पता नि.ग्राम
06	39/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.094	हेमा किशन दुर्गाबाई पिता ऊँकार भानीबाई बेवा ऊँकार जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
07	39/3 54/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	किशन पिता ऊँकार जाति सिर्वी नि.ग्राम
08	54/6/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	चिन्द्र पिता शंकर जाति भीलाला पता नि.ग्राम
	54/8/1			0.028	
	54/16/1 ख			0.045	
09	54/16/1क	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.065	दयाराम जगदिश पिता बोन्दर मांगी बेवा बोन्दर ममता कला पिता बोन्दर मोहन मायाराम पिता राजाराम जमुना बेवा राजाराम जाति भीलाला पता नि.ग्राम
10	64/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	भारत पिता खुश्याल जाति भीलाला पता नि.ग्राम
11	64/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.095	मन्नालाल पिता धनसिंग जाति भीलाला पता नि.ग्राम
12	72/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.070	लालु पिता गोविन्द जाति भीलाला पता नि.ग्राम
13	72/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.015	चन्दनबाई बेवा नैनसिंह गिरवरसिंह राधेश्याम कनुबाई पुष्पाबाई लक्ष्मीबाई पिता नैनसिंह जाति भीलाला

14	82/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.254	मंशाराम बशीलाल पिता लालसिंग जाति भीलाला पता नि.ग्राम
15	82/9	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	लालसिंग पिता वाला जाति भीलाला पता नि.ग्राम
16	88/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.064	गोमती बेवा सोन्या बुधीबाई पिंजारीबाई पिता सोन्या जाति तडवी पता नि.ग्राम
17	89/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.170	सुनिल पिता जगदीश जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
18	89/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.128	चेनालाल पिता मना जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
19	90/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	जुवानसिंह, गिलदार, भुवानसिंह पिता गोमला जाति भीलाला पता नि.ग्राम मोरानी
20	90/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.055	हिरमल पिता फत्या भीलाला पता नि.ग्राम मोरानी
21	90/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	नारसिंह पिता रिछा जाति भीलाला पता नि.ग्राम मोरानी
22	91/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.116	भगवान पिता उंकार जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
	91/3			0.094	
23	91/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.094	बाबूलाल पिता रन्छोड जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
24	91/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.054	सुनिल पिता बद्री जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
	92/1			0.030	
25	91/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.008	बाबूलाल गोपाल किशोर पिता रन्छोड जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
26	91/9	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	गोपाल किशोर बाबूलाल पिता रन्छोड धनु शांता पिता रणछोड भूरीबाई बेवा रणछोड जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
27	92/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.075	राजेश सुनिल पिता बद्री जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
28	92/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.038	बद्री पिता औंकार जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
29	108	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.125	गेंदालाल पिता शिवजी जाति भीलाला पता नि.ग्राम
30	113/1/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	इसराम पिता जालम जाति भील पता नि.ग्राम
31	113/1/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.022	मेथाबाई बेवा रामसिंह सुभाष कालू रविन्द्र रेखा गीता शोभली पिता बाबू द्वारकीबाई बेवा बाबम जाति भील पता नि.ग्राम

32	113 / 1 / 6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.054	जवानसिंग पिता फत्या जाति भीलाला पता नि.ग्राम
	133 / 2			0.108	
	135 } 136 / 3 }			0.045	
33	113 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	इगराम कालू भुरसिंह भगू पेमा रतन सना पिता रीछा लाडकू रूपा बेवा रीछा कवीता पिता मोहन सुभाष संजू मंजू राहुल पिता कुवारसिंह नूराबाई बेवा कुवारसिंह पेमसिंह गोपाल वाला बाकेश पिता कन्या दलीबाई बेवा कन्या तेजू भंगू पिता कन्या गोविन्द मदन गेंदालाल कमल पिता लक्ष्मण रेशमा पिता लक्ष्मण गोराबाई बेवा लक्ष्मण जाति भील पता नि.ग्राम
34	114 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.032	छगन मकराम भेरिया खंजान मतुबाई हिटरीबाई पिता अन्या पानुबाई बेवा अन्या जाति भील पता नि.ग्राम
35	114 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.028	रामा पिता फुदा जाति तड़वी पता नि.ग्राम
36	115 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.078	लालीबाई पति खेमाजी जाति सिर्वी पता नि.छाटल गांव तह.गोगांवा
37	115 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.062	रवीन्द्र पिता खेमाजी जाति सिर्वी पता नि.छाटल गांव तह. गोगावा
38	120 / 9	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.115	दितला पिता धन्जा जाति भीलाला पता नि.ग्राम
39	122	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.285	रेमसिंह पिता ठासन्या शिवनाथ रामला पिता फुलसिंह शोभाराम बाबू पिता जान्या गंजी पिता रूपला सुरसिंह पिता मन्या सेमसिंह गुलसिंह सना पिता रायसिंह गीता सीता लाली लीला पिता केशला जाति भील पता नि.ग्राम
40	133 / 1 / क	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.018	रुपसिंग पिता जालम जाति तड़वी पता नि.ग्राम
41	144	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	बंशीलाल पिता मालसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम
42	146 / 1 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.110	दशरथ कन्हैया मन्या थावरिया राणकी सोरठ पिता गणपत गोरखी बेवा गणपत जाति बंजारा पता नि.ग्राम
43	146 / 2 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	मयाराम पिता चैनसिंग जाति भीलाला पता नि.ग्राम

44	146 / 2 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.028	निहाला पिता धनसिंग जाति भीलाला पता नि.ग्राम
45	147 / 12	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.044	रतन्या धन्या पिता फकीरा जाति भीलाला पता नि.ग्राम
46	179 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.062	दामा पिता बाला जाति बंजारा पता नि.ग्राम
47	179 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	केदार पिता रुपा गोरीबाई बेवा रुपा जाति बंजारा पता नि.ग्राम
	179 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	
48	189	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	नहारया पिता सरवण जाति भीलाला पता नि.ग्राम
49	216 / 2 218 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.150	भारत पिता बद्री जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
50	217 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.036	जगन पिता रुपसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम
51	223 231 / 3 231 / 4 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.402	बद्री पिता अमरा जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
52	226 / 1 231 / 9 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.095	बद्रीलाल पिता मना जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
53	226 / 3 227 / 2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.015	हरजी शंकर पिता रन्छोड व हिरु बेवा रन्छोड जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
54	227 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	सुभाष पिता मना जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
55	227 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	पेमालाल पिता मना जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
56	228 / 2 229 / 2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.032	हरदू पिता मंदोर जाति बंजारा पता नि.ग्राम
57	229 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.022	मोरसिंग पिता झापडू जाति बंजारा पता नि.ग्राम
58	229 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.056	अनिता पति कैलाश जाति भीलाला पता नि.ग्राम
59	231 / 18	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	दलुबाई बेवा अमरा जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
योग				4.904	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा—11 (1) के उपबधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू—अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा—12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू—अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा—11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्य/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा—15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन किया गया है अतः धारा—6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक—30 सन् 2013) की धारा—10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

क्र. 740/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 27/अ-82/16-17

~~प्रारम्भिक अधिनियम~~

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं. 30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली सिनगुन वितरण शाखा नहर, सिनगुन माईनर नहर तथा उप नहरों के निर्माण एंव उनसे संबंधित अन्य कार्य हेतु । ग्राम-बुदरा तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 2.036 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 5.03... एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी) प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारम्भिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है : – अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं ।)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली सिनगुन वितरण शाखा नहर, सिनगुन माईनर नहर तथा उप नहरों के निर्माण एंव उनसे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है । इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है ।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली सिनगुन वितरण शाखा नहर, सिनगुन माईनर नहर तथा उप नहरों के निर्माण एंव उनसे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बुदरा तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची

स.क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (ह.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
01	1/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.222	हुकुचन्द पिता नानूराम जाति तेली पता निवासी ग्राम

02	1/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.120	मुकेश पिता लोणया जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
03	27/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.104	रुपा पिता दला जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
	28/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	
04	27/5 27/9 29/2 29/12}	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	हरजी पिता धिसाजी जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
05	27/8 29/5/1}	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	गांगाजी पिता भानाजी जाति सिर्वी निवासी ग्राम
06	28/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	रोली पति भुवानसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम
07	28/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.055	प्रेमचन्द पिता भीकमचन्द जाति जैन पता नि. भागसुर
08	29/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.115	श्याणा पिता मकुन्द जाति बलाई पता निवासी ग्राम
09	29/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	वर्षा पति प्रकाशचन्द जाति जैन पता निवासी ग्राम
10	29/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	बाबु पिता धना जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
11	49/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.132	भेरा पिता मोती जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
12	49/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.130	सीताबाई पति बद्री जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
13	52/2 53/1}	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.070	वना पिता रामा जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
14	124/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.260	पन्नालाल पिता भेराजी जाति पता सिर्वी नि.ग्राम
15	124/2 125/2}	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.152	मोहन पिता भेरा जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
16	126/1/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.056	मुन्ना पिता भारसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम
	152/1 152/4 153/3}	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.014	
17	149	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.068	गोविन्द बद्री पिता भाना गेंदीबाई बेवा भाना जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
18	155/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	गोविन्द पिता नानकया रसली बेवा नानकया रामसिंह पिता मालसिंह हीरा बंशी पिता मालसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम

19	156 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.048	मांगीलाल पिता मोती जाति सिर्वी पता निवासी भागसुर
20	156 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	गोमा पिता मोती जाति सिर्वी निवासी भागसुर
योग				2.036	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृद्ध को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्य/विक्य, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागु नहीं होंगे।

क्र. 741/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 28/अ-82/16-17

**प्रारंभिक अधिसूचना**  
**(अधिनियम की धारा—11 का भू—अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)**

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत पिपरी वितरण शाखा नहर, माईनर नहर 1, 3, 5, 6 एवं उप नहरो के निर्माण एंव उनसे संबंधित कार्यों हेतु ग्राम—बासवी तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 5.827 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 14.50 एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी) / प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है : — अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं ।)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत पिपरी वितरण शाखा नहर, माईनर नहर 1, 3, 5, 6 एवं उप नहरो के निर्माण एंव उनसे संबंधित कार्यों हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत पिपरी वितरण शाखा नहर, माईनर नहर 1, 3, 5, 6 एवं उप नहरो के निर्माण एंव उनसे संबंधित कार्यों हेतु ग्राम—बासवी तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।



### अनुसूची

स.कं.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
01	2/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	संतोष सूरज पिता गंगाराम कवीता पिता गंगाराम ना.बा.गा. जानादीबाई बेवा गंगाराम रेशाबाई बेवा शिवा जाति बारेला पता नि.ग्राम
02	3/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.220	खजान मदन राजाराम पिता होलकरया सखाराम मंशाराम रमेश मकाराम पिता जादया छुकाबाई बेवा जादया जाति बारेला पता नि.ग्राम छोटी खरगोन
03	3/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.195	देवजी पिता नायका जाति बारेला पता नि.ग्राम छोटी खरगोन
04	5/1 } 6/1 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.495	सखाराम पिता गट्या जयमल रमेश पिता डेडा पिंजारीबाई बेवा डेडा जाति बारेला पता नि.ग्राम
05	5/2 } 6/2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.135	गोपाल पिता नाथाजी जाति सिर्वा पता नि.ग्राम
06	5/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.215	देवशुर ममदू झबरसिंह सीताराम पिता भावसिंह जाति बारेला पता नि.ग्राम छोटी खरगोन
07	5/4 } 5/6 } 6/7 } 6/8 } 7/2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.202	नारायण पिता वालाजी जाति सिर्वा पता नि.ग्राम छोटी खरगोन
08	27/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.125	छोगालाल पिता मालसिंग जाति भीलाला पता नि.ग्राम
09	27/8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.085	खासडिया पिता मालसिंग जाति भीलाला पता नि.ग्राम
10	29/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	मांगीलाल रुखड़ीया पंछीलाल पिता मंगत श्याणीबाई बेवा मंगत जाति भीलाला पता नि.ग्राम
11	29/8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.140	मांगीलाल पिता मंगत जाति भीलाला पता नि.ग्राम
12	54/1 } 55/3 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.062	रामप्रशाद पिता देवीसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम
13	54/3 55/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045 0.085	उमराव धनजी सखाराम पिता फतू जाति भीलाला पता नि.ग्राम
14	55/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.065	विलमण पिता रूपसिंग जाति भीलाला पता नि.ग्राम

15	56/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.055	शोमा पिता गोपाल जाति भीलाला पता नि.ग्राम
16	60/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.092	लीलाबाई बेवा खेमा जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
17	75/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.018	नयनसिंह पिता बाऊ जाति भीलाला पता सा.देह
18	75/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.085	नारायण पिता जैराम जाति भीलाला पता सा.देह
19	75/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	दशरथ पिता बाऊ जाति भीलाला पता नि.ग्राम
20	75/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	चन्द्रसिंह पिता बाऊ जाति भीलाला पता नि.ग्राम
21	76/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.140	सुमनबाई पति मंशाराम जाति बारेला पता नि.ग्राम छोटी खरगोन
22	77	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.096	शिवराम पिता मंगलसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम
23	78	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	सखाराम पिता गणपत जाति भीलाला पता नि.ग्राम
24	221/1 } 221/2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.105	भगवान पिता वालाजी जाति जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
25	234/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.075	भारतसिंह अनारसिंह सुमनसिंह देवीसिंह जीवनसिंह पिता सदया नि.ग्राम जाति भीलाला
26	234/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	नहारया पिता लक्ष्मण नि.ग्राम जाति भीलाला
	236/1 }			0.060	
	253/2 }			0.058	
	255/3				
27	236/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.092	दयाराम पिता लक्ष्मण नि.ग्राम जाति भीलाला
28	236/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	हीरा पिता लक्ष्मण जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
29	236/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.154	शेरया पिता लक्ष्मण नि.ग्राम जाति भीलाला
30	237/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	रामलाल श्यामलाल किशनलाल पंढरी पिता मंगत्या जाति भीलाला पता नि.ग्राम
31	237/3 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.065	प्रकाश पिता रुखडया नि.ग्राम जाति भीलाला
	238/3 }			0.150	
	240/4				
32	237/4 } 238/4 } 240/2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.098	गबरसिंह पिता रुखडिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम

33	241 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.038	गजानंद पिता फत्या जाति भीलाला पता नि. ग्राम
34	241 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.065	नंदू पिता फत्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
35	241 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	दिनेश पिता गंगाराम जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
36	241 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	ओंकार पिता फत्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
37	244 / 2 } 252 / 4 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.095	लीलाबाई बेवा झबरसिंग जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
38	245 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.098	दिनेश पिता मंगल्या जाति भीलाला पता सा.देह
39	245 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.085	घीर्सा पिता बल्लू जाति भीलाला पता सा.देह
40	246 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.085	दिपक बलीराम पिता जलाल जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
41	246 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.048	कमल प्रवीण पिता शोभाराम जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
42	246 / 4 246 / 7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.024 0.030	महेश पिता गुलाल जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
43	246 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	पन्नालाल पिता शंकर जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
44	249	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.120	मांगीलाल गोपाल पिता धुलाजी जाति सिर्वा पता नि. बकवाडी
45	251	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.250	जगदीश पिता मालसिंग पता नि. ग्राम
46	252 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.230	निर्भयसिंह पिता लोण्या जाति भीलाला पता नि. ग्राम
47	252 / 6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.115	रत्न पिता भोल्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
48	255 / 4 } 255 / 5 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.078	रुखा पिता दुटा जाति भीलाला पता निग्राम
	256			0.200	
49	255 / 7 } 255 / 8 } 271 / 6 } 271 / 7 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.105 0.125	लाछा पिता चिमा रेवजी बालू पिता वरजू आमना जसमा सुकली पिता जामसिंह स्वाती पिता जामसिंह ना. बा.गा. वाल्या पिता किशन जाति वारेला पता नि.ग्राम
50	271 / 8			0.049	अशोक पिता रामा कलाबाई बेवा रामा जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
योग				5.827	

\* यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृद्धा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्य / विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

क्र. 742/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 29/अ-82/16-17

### प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्वर्वस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना आमल्यापानी वितरण शाखा नहर एंव बालकुँआ माईनर नहर के निर्माण एंव संबंधित कार्यों हेतु ग्राम-सजवानी खम तहसील बड़वानी, जिला बड़वानी में 3.205 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 7.92... एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी / प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारम्भिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है : – अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं ।)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना आमल्यापानी वितरण शाखा नहर एंव बालकुँआ माईनर नहर के निर्माण एंव संबंधित कार्यों हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है । इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है ।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना आमल्यापानी वितरण शाखा नहर एंव बालकुँआ माईनर नहर के निर्माण एंव संबंधित कार्यों हेतु ग्राम—सजवानी खम तहसील बड़वानी जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

#### अनुसूची

खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता	
1	2	3	4	5	6
01	16/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	सुनील पिंची पिता गिलदार ना.बा.गा. टेटीबाई व टेटीबाई बेवा गिलदार जाति बारेला पता निवासी ग्राम

02	16/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	वेस्ता सोमारिया मुकेश पिता ढेका जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
03	16/3 15/2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.195	भायसिंग कालू पिता नानसिंह सोनीबाई बेवा नानसिंह जाति बारेला पता सा.देह
04	16/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	बबलु गलू पिता सिलदार ना.बा.गा. दशरीबाई बेवा सुकल्या जाति बारेला पता निवासी ग्राम
05	16/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.015	जगदीश पिता सुकल्या जाति बारेला पता नि.ग्राम
06	47/8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	रायसिंग पिता डेबलीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम
07	47/9	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.150	गटु भाया पिता घुसाई मडिया पिता रावल्या कजरा पिता रामा कालूसिंग पिता भाटु सुरसिंग अंगरिया पिता जामन्या नानी झिनली बेवा जामन्या बीना बेवा जामन्या तिरला भिकला पिता धवल्या रतन पिता डोबल्या सिरला पिता थेबडा जाति बारेला पता नि. ग्राम
08	56/3 56/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040 0.015	फुलसींग पिता छितू जाति बारेला पता सा.देह
09	56/6 58/3 57/2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.290	चेनर्सींग मांगला पिता जैमाल रेलकी झैलकी पिता जैमाल जाति बारेला पता सा.देह
10	56/8 57/1 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025 0.020	मंशाराम जामसिंग गारस्या पिता तिन्छा सुडी बेवा तिन्छा सखाराम पिता मोहनसिंग मोटली बेवा मोहनसिंग जाति बारेला पता सा.देह
11	103/2 104 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.075 0.080	गिन्या पिता फुगरीया जाति बारेला पता नि. ग्राम
12	125/3 125/4 128/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	खुमान, भायसिंग रेमसींग, धनसिंग पिता गिल्या, चतरिया अतरिया भाया लल्लू पिता वेरसिंग जाति बारेला पता नि.ग्राम
13	125/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045	कोटवाल, पिता अमरसिंह जाति बारेला पता नि. ग्राम
14	125/10	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	किशन दुनी मुख्यो पिता गुरजी हादु विरभान पिता लच्छा जाति बारेला पता नि. ग्राम
15	126	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.240	गोबरीया पिता किशन डोंगरसिंग पिता सुमजी कोटवालनी बेवा सुमजी रुमसिंग भवरसिंग पिता खजी जाति बारेला पता नि.ग्राम

16	128 / 1 128 / 6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040 0.020	भाया पिता वेरसिंग जाति बारेला पता नि.ग्राम
17	128 / 2 128 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.075 0.275	खुमान, भायसिंग प्रेमसींग, धनसिंग पिता गिल्या, जाति बारेला पता नि.ग्राम
18	128 / 4 128 / 7 128 / 13	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030 0.050 0.050	अतरिया पिता वेरसिंग जाति बारेला पता नि.ग्राम
19	128 / 8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	लल्लु पिता वेरसिंग जाति बारेला पता निवासी ग्राम
20	128 / 10	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045	चतरिया पिता वेरसिंग जाति बारेला पता निवासी ग्राम
21	130 / 3 132 / 2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	गुटिया पिता गंजी जाति बारेला पता निवासी ग्राम
22	131	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	रोशन, हसन, पिता तेरसिंग ना.बा.गा. छगन, रेवसिंग, केवसींग, भुरकी पिता मन्जी, केला बेवा मन्जी जाति बारेला पता निवासी ग्राम
23	141 / 1 / 1 162 / 11	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.085 0.100	हसन देविसिंग भूरा पिता पेमा झुझार नानस्या बाटा पिता सुरभान सायदा बेवा सुरभान जाति बारेला पता निवासी ग्राम
24	141 / 8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	किशन पिता मनसिंग जाति बारेला पता निवासी ग्राम
25	147	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.140	रणसींग काहरीया पिता भोल्या कालु पिता भीमसींग जंहानीर पिता बुदला फुली बेवा बुदला जाति बारेला पता नि.ग्राम
26	148 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	जाहगीर पिता बुदला फली बेवा बुदला कालु पिता भीमसिंग जाति भिलाला पता निवासी ग्राम
27	148 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.005	शब्बीर पिता जादगीर जाति बारेला पता निवासी ग्राम
28	150 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	कालसिंग पिता गमीर जाति बारेला पता निवासी ग्राम
29	162 / 1 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.140	बाटीबाई बेवा विरभान नाबागा बाटीबाई बेवा विरभान सुरभान पिता सोमा व पानुबाई बेवा सोमा जाति बारेला पता निवासी ग्राम (अहस्तान्तरणीय)
30	162 / 1 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	रूपसिंग पिता लाल्या जाति बारेला पता निवासी ग्राम (अहस्तान्तरणीय)
31	189 / 2 196	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100 0.025	लुहारसिंग पिता रालम जाति बारेला पता निवासी ग्राम
32	197 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	किशन ढुनी मुरखी पिता गुरजी जाति बारेला पता नि. ग्राम

33	201 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	दाऊ नाजु अगरसिंग वजु रिछा पिता भीमा ठुनीबाई बेवा भीमा जाति बारेला पता नि. ग्राम
34	202 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	बिनाज्या अनाज्या देवसिंग नवसिंग पिता तेरसिंग जाति बारेला पता नि. ग्राम
35	207 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	तिखारिया पिता रेमला बारेला पता नि.ग्राम
योग				3.205	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू—अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोइ नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू—अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्य/विक्य, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

\* सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागु नहीं होंगे।

क्र. 743/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 30/अ-82/16-17

### प्रारंभिक अधिसूचना

**(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं. 30 सन् 2013)**

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पिपरी वितरण शाखा नहर की माईनर नहर, मोयदा माईनर नहर तथा उप नहरों के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यों हेतु । ग्राम-मोयदा तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 1.472 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात 3.64... एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी) प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है : – अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं )

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पिपरी वितरण शाखा नहर की माईनर नहर, मोयदा माईनर नहर तथा उप नहरों के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यों हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है । इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है ।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पिपरी वितरण शाखा नहर की माईनर नहर, मोयदा माईनर नहर तथा उप नहरों के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यों हेतु ग्राम-मोयदा तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

## अनुसूची

खंड.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (ह.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
01	18/3 36 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	मांगीलाल पिता तेजाजी जाति सिर्वी पता नि. ग्राम
02	37/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.070	बाबू पिता जसू जाति भीलाला पता नि.ग्राम
03	46/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.196	शांताबाई बेवा दुदालाल राजू पिता दुदालाल दिलीप पिता दुदालाल अ.पा.क.शांताबाई बेवा दूदालाल जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
04	46/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	सोहन पिता भेराजी जाति सिर्वी नि. ग्राम सालखेडा
05	47/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	कमल पिता भीकाजी जाति सिर्वी पता नि. ग्राम
06	49/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.200	शेखर पिता कानाजी जाति सिर्वी पता नि. ग्राम
07	54	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.135	उंकार पिता भगाजी जाति सिर्वी पता नि. ग्राम छोटीखरगोन
08	56/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	नथुलाल पिता पुराजी जाति सिर्वी पता नि. ग्राम
09	56/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.005	गणपत पिता रामा जाति भीलाला पता नि.ग्राम
10	57/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	कालूराम गुलाबसिंह पिता किशन जाति भीलाला पता नि.ग्राम
11	57/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.175	बाबूराम देवीसिंह अशोक पिता रात्या जशोदाबाई बेवा रात्या जाति भीलाला पता नि.ग्राम
12	97	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.390	नीमाजी पिता रूपाजी राजेश पिता नीमाजी दीपक पिता रमेश अ.पा.क. नीमाजी पिता रूपाजी जाति सिर्वी पता नि. ग्राम
13	99/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	शिवराम पिता दितला जाति भीलाला पता नि.ग्राम
14	99/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	झबरसिंह पिता धन्जी जाति भीलाला पता नि.ग्राम
15	99/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	रविन्द्र पिता नहारीया मैदाबाई बेवा नहारीया जाति भीलाला पता नि. ग्राम

16★	99/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.016	नैहरु पिता धंजी जाति भीलाला पता नि.ग्राम
		योग		1.472	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागु नहीं होंगे।

क्र. 744/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 31/अ-82/16-17

**प्रारम्भिक अधिसूचना**

**(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं. 30 सन् 2013)**

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की मोयदा माईनर नहर 2 एवं उप नहर के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यों हेतु ग्राम— रोझानी तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 2.857 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 7.06..... एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/ प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारम्भिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है : – अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं ।)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की मोयदा माईनर नहर 2 एवं उप नहर के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यों हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है । इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है ।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की मोयदा माईनर नहर 2 एवं उप नहर के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यों हेतु ग्राम— रोझानी तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

## अनुसूची

स.क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (ह.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
01	6/4 7/1}	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.054	बद्रीलाल पिता शंकर जाति भीलाला पता नि.ग्राम
02	7/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	लखन पिता मांगीलाल जाति भीलाला पता नि.ग्राम
03	7/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.074	लखन पिता मांगीलाल सावित्रीबाई बेवा मांगीलाल जाति भीलाला पता नि.ग्राम
04	10/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.110	रामलाल पिता चैन्या गेंदीबाई बेवा चैन्या जाति सिर्वी पता नि.ग्राम छोटी खरगोन
05	11/1 11/2}	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045	रमेश पिता हेमाजी नन्दुबाई बेवा हेमाजी मांगीलाल पिता बद्री ना.बा.गा. चन्दुबाई व चन्दुबाई बेवा बद्री जाति सिर्वी पता नि. छोटीखरगोन
06	14/1/4 14/1/10	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020 0.020	सुपडिया पिता अर्जुन जाति भीलाला पता सा. देह
07	14/1/8 14/1/11	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020 0.028	राजेश पिता पुन्या जीवन पिता पुन्या ना.बा.गा.राजेश पिता पुन्या जाति भीलाला पता सा. देह
08	14/1/9	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.018	सीताराम राधेश्याम पिता रामा समोतीबाई बेवा रामा जाति भीलाला पता सा. देह
09	14/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	राधेश्याम पिता झबरसिंह जाति भीलाला पता सा. देह
10	14/3/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.085	भगु पिता बद्री रूपाबाई बेवा बद्री जाति भीलाला पता सा.देह
11	14/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.074	सोमा सुका मयाराम गेंदया बाबू पिता शिवजा जाति भीलाला पता सा. देह
12	14/14	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	गोपाल पिता झबरसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम
13	14/16	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.005	भगु पिता बद्री जाति भीलाला पता पता सा. देह
14	17/1/2 17/1/3 17/5}	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.186	पारुबाई पति गंगाराम जाति भीलाला पता सा. देह

15	17 / 4 18	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.140	धिसीलाल पिता मांगीलाल जाति भीलाला पता सा. देह
	31			0.010	
	108 / 1				
	108 / 2 110 / 1			0.120	
16	19	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.135	पूजासिंग पिता सिगदार जाति भीलाला पता सा. देह
	21 / 1			0.055	
17	21 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.088	गंगाराम पिता मोहन जाति भीलाला पता सा. देह
	22 / 4			0.020	
18	22 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.155	हरेसिंग तुलसीराम आशाराम पिता धन्जा सोनाबाई बेवा धन्जा जाति भीलाला पता सा. देह
19	22 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.034	हरेसिंह पिता श्रवण जाति भीलाला पता नि.ग्राम
20	22 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.034	भारसिंग नवलसिंग पिता रुखडिया गलसिंह प्रदीप प्रमोद पवन स्वर्जील पिता शोभाराम ना.बा.गा. श्यामाबाई व श्यामाबाई बेवा शोभाराम जाति भीलाला पता सा. देह
21	24 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	संतोष पिता लालाजी जाति सिर्वी पता सा. छोटी खरगोन
22	25 / 1 / 2 / 2 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	मंशाराम पिता लिमजा जाति भीलाला पता नि.ग्राम
23	25 / 1 / 2 / 2 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	गोदावरी बेवा लिम्जा जाति भीलाला पता नि.ग्राम
24	25 / 1 / 1 / 2 25 / 1 / 2 / 1 30 / 188 25 / 189	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	पन्नालाल पिता झेतरिया जाति भीलाला पता सा. देह
25	32	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.145	मांगीलाल दयाराम पिता लक्ष्मण जाति भीलाला पता सा. देह
26	33 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.032	बंशीलाल पिता भीका जाति भीलाला पता नि.ग्राम
27	62 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.028	शोभाराम नवल भारत पिता रुखडिया सरवण पिता रायमल हरेसिंह तुलसीराम आशाराम पिता धन्जा सोनाबाई बेवा धना गंगाराम राजाराम पिता मोहन जाति भीलाला पता सा. देह
28	134 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	श्यामजी पिता कानाजी जाति सिर्वी पता नि. ग्राम छोटीखरगोन

29	134 / 2 134 / 5 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.150	धीसीलाल पिता दानाजी मन्नूबाई अर्जन खेतूबाई बेवा दानाजी जाति सिर्वी पता सा. छोटीखरगोन
30	134 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.095	नबुबाई बेवा भूताजी जाति सिर्वी पता नि.छोटीखरगोन
31	134 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.094	सोहन पिता भुताजी जाति सिर्वी पता सा. छोटीखरगोन
32	140 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.044	राजाराम पिता धुधरिया जाति भीलाला पता सा. देह
	145 / 12			0.062	
33	142	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	गंगाराम पिता मोहन जाति भीलाला पता सा. देह
34	145 / 14	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.055	झेतरीबाई पति धुधरीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम
	145 / 15			0.062	
35	145 / 16	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.215	रमेश पिता नाना जाति भीलाला पता नि.ग्राम
योग				2.857	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

क्र. 745/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 32/अ-82/16-17

## प्रारंभिक अधिसूचना

**(अधिनियम की धारा—11 का भू—अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)**

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई)परियोजना के अन्तर्गत आने वाली सिनगुन वितरण शाखा नहर माईनर नहर तथा उप नहरों के निर्माण एवं उनसे संबंधित अन्य कार्यों के निर्माण हेतु ग्राम—सिनगुन तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 3.809 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् ३.५।..... एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी) / प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है : – अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं )

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई)परियोजना के अन्तर्गत आने वाली सिनगुन वितरण शाखा नहर माईनर नहर तथा उप नहरों के निर्माण एवं उनसे संबंधित अन्य कार्यों के निर्माण हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई)परियोजना के अन्तर्गत आने वाली सिनगुन वितरण शाखा नहर माईनर नहर तथा उप नहरों के निर्माण एवं उनसे संबंधित अन्य कार्यों के निर्माण हेतु ग्राम—सिनगुन तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।



### अनुसूची

स.क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
01	$9/3$ $9/4$ $13/6$	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.124	मणीबाई पति गंगाराम जाति मेघवाल पता नि.ग्राम
				0.030	
02	21/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.108	नानीबाई बेवा हरी राजू पिता हरी जाति भीलाला पता नि.ग्राम
03	$21/4$ $22/1$ $22/12$	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.092	रामसिंग पिता दरियाव जाति भीलाला पता नि.ग्राम
04	$21/5$ $22/13$	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.070	बाबू पिता माला गजरी बेवा माला नानीबाई बेवा गलया गुडडीबाई पिता गलया अ.पा.क. नानीबाई बेवा गलया जाति भीलाला
05	$21/6$ $22/14$ $22/15$	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.024	रमेश सुक्या पिता गंगाराम मिशर चन्दन सूरज पिता गंगाराम जाति भीलाला पता नि. ग्राम
06	21/9	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	सखाराम कैलाश पिता दामा कालीबाई बेवा दामा जाति भीलाला पता नि.ग्राम
07	22/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.022	नराण होजा पिता आला जाति मेघवाल पता नि.ग्राम
08	22/9	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.046	पाला खेमा पिता रामा कमी पिता रामा जाति मेघवाल पता नि.ग्राम
09	23/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.014	काना पिता नाथा जाति मेघवाल पता निवासी ग्राम
10	23/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.046	ओंकार पिता नाथा जाति मेघवाल पता निवासी ग्राम
11	23/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.068	मांगीलाल विश्राम कालू पिता हमीर जसू पिता हमीर रूपा हीरा सोनू सना पिता डाया जाति मेघवाल पता निवासी ग्राम
12	$31/4$ $32/1$	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045	धनसींग पिता मोहन खुशाल पिता हिरा अमरया राजू पिता सोमा सरदार छोंगलाल पिता डोंगरया धीसीबाई बालीबाई बेवा डोंगरया जाति भीलाला पता नि. कासेल

	31/5 31/6 32/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.145	अंकिता रोशनी विनिता स्नेहलता सीमा शुभम पिता जियालाल अ.पा. क. संगीताबाई व संगीताबाई बेवा जीयालाल पण्य जितेन्द्र महेन्द्र पिता सीताराम जाति भीलाला पता नि. ग्राम
	14	33/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.240
15	34/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.180	माधव पिता नाराण कमलाबाई बेवा नराण जाति सिर्वी पता नि. ग्राम कासेल
16	34/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.145	गजानन्द पिता पुरा सुन्दरबाई पति पुरा जाति सिर्वी पता नि. ग्राम कासेल
17	35/2 36/1 40/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.048	रतन रामू पिता बाबू रामकोर बेवा बाबू हरी पिता दलया समोता शान्ता तारा पिता बाबू जाति बलाई पता नि. ग्राम इन्द्रोर
18	44	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045	शोभाराम धिस्या सकरया पिता नाथा भिलई बेवा नाथा जाति भीलाला पता नि.ग्राम
19	45	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.095	भगवान पिता ऊंकार हरनू बेवा ऊंकरा चैनालाल पन्नालाल पिता कानाजी कलाबाई बेवा कानाजी जाति भीलाला पता नि.ग्राम
20	46/5 46/17	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.130 0.065	हरीसिंह पिता जगन जाति भीलाला पता नि. ग्राम कासेल
21	46/12 46/14 46/16	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	किशन पिता जगन जाति भीलाला पता नि.ग्राम
22	56/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	केदार पिता रूपा जाति बंजारा पता नि.ग्राम कासेल
23	57/1/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.185	बंशीबाई बेवा रामा जाति बंजारा पता नि.ग्राम
24	57/1/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.130	सुरज्या पिता नानसिंह जाति भील पता नि.ग्राम
25	57/2/ख	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	कालू रालू सुरपाल सुरसिंह पिता नानसिंह जाति तड़वी पता नि.ग्राम
26	56/12	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.048	तेजा पिता रूपा गोरी बेवा रूपा जाति बंजारा पता नि.ग्राम
	57/3			0.135	
	58			0.038	

27	59 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	नैनसिंह पिता पोमडिया जाति भीलाला पता नि.ग्राम
28	59 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.098	दरियाव पिता अमरसंग जाति भीलाला पता नि.ग्राम
29	60	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	मंशाराम पिता मालसिंग जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
30	62 / 11	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.112	गोटया पिता मंगल्या जाति तड़वी पता नि.ग्राम
31	62 / 12	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.180	केरिया, मोहन, गंगाराम, दुरसिंह पिता नानस्या जाति तड़वी भील पता नि.ग्राम
32	97 / 2 97 / 3 100 / 2 106 / 2 106 / 3 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.385	सुभाष महेन्द्र पिता हमीरसिंह जाति महाजन पता नि.ग्राम राजपुर
33	97 / 2 / 1 97 / 3 / 1 100 / 2 / 1 106 / 2 / 1 106 / 3 / 1 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.070	नवसीबाई पति केंगला जाति बलाई पता नि.ग्राम
34	99 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.084	सना पिता खेता जाति मेघवाल नि.ग्राम
35	99 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.088	नाजा पिता खेता जाति मेघवाल पता नि.ग्राम
36	106 / 5 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	वकला मुतरिया पिता भलसस्या जाति तड़वी पता नि.ग्राम
37	109	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	प्रताप मेहताब पिता लच्छू जाति भीलाला पता नि.ग्राम
38	173 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.014	राधेश्याम राकेश मुकेश पिता मन्तु जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
39	173 / 7 178 / 3 } 183 / 6 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	भागीरथ केसीया पिता लाल्या सब्बाबाई बेवा लाल्या भीलाला निवासी ग्राम
योग				3.809	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोइ नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

 सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृद्ध को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृद्धा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्य/विक्य, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागु नहीं होंगे।

क्र. 746/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 33/अ-82/16-17

### प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम की धारा—11 का भू—अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली दमदमी वितरण शाखा नहर, तथा उप नहरों के निर्माण एंव उनसे संबंधित अन्य कार्यों हेतु । ग्राम—राजपुर तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 6.407 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 15.83.... एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी / प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है : — अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं ।)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली दमदमी वितरण शाखा नहर, तथा उप नहरों के निर्माण एंव उनसे संबंधित अन्य कार्यों हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है । इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है ।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली दमदमी वितरण शाखा नहर, तथा उप नहरों के निर्माण एंव उनसे संबंधित अन्य कार्यों हेतु ग्राम—राजपुर तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

### अनुसूची

सं.क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
	2	3	4	5	6
1	17/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.032	संतोष पिता मांगीलाल जाति काढी पता नि.ग्राम
01	17/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	

02	17/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.166	नाथूलाल पिता मांगीलाल जाति काढ़ी पता नि.ग्राम
03	17/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.115	औमप्रकाश पिता मांगीलाल जाति काढ़ी पता नि.ग्राम
	17/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	
04	17/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.220	भारत पिता मांगीलाल जाति काढ़ी पता नि.ग्राम
05	18/2 19/3 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.066	फत्तु पिता दशरथा जाति काढ़ी पता नि.ग्राम
06	18/3 19/5 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.275	गिरीजाबाई बेवा गोदीया नेहरू जगदीश पूनम राधेश्याम संतोष पिता गोदिया लीलाबाई बेवा गोदिया राहुल पिता मनोहर पारुबाई बेवा मनोहर लक्ष्मी शांती रोशनी पिता मनोहर जाति काढ़ी पता नि.ग्राम
07	18/6 19/7 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.062	दयाराम पिता गोपाल जाति काढ़ी पता सा.देह
08	42/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.154	भरतकुमार पिता जगन्नाथ जाति महाजन पता नि.ग्राम
09	42/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.166	मनीष पिता हुकुमचन्द वंदना पति मनीष गुप्ता महाजन पता निवासी सेंधवा
10	43/1/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	दुर्गाबाई पति मुकेश जाति काढ़ी पता नि. ग्राम
11	43/1/2 43/2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.506	आन्दीलाल पिता गुलाबचंद जाति महाजन पता नि. ग्राम
12	43/3 43/4 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.502	सुरेशचंद पिता गुलाबचंद जाति महाजन पता नि. ग्राम
13	44/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.042	गीताबाई पति बूगा जाति काढ़ी पता नि.ग्राम
14	44/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.028	सोमा पिता छगन जाति काढ़ी पता नि.ग्राम
15	44/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	राधेश्याम पिता पन्नालाल जाति काढ़ी पता निवासी ग्राम
16	44/11	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	दुर्गाबाई पति पन्नालाल जाति काढ़ी पता नि. ग्राम
	387/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.140	मंशाराम पिता गणरथा जाति भारुड पता नि.ग्राम
	387/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.036	

18	387/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.064	मनोहर छोगालाल पिता भोलाराम गोगलबाई बेवा भोलाराम जाति भारुड पता नि.ग्राम
19	387/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.026	मोहन पिता गणस्या भोलाराम जाति भारुड पता नि.ग्राम
20	387/8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	रन्धोड पिता गणस्या जाति भारुड पता नि.ग्राम
21	390/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.026	कडवा पिता सुभान जाति काढी पता नि.ग्राम
22	390/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.298	दित्या टर्यां मंगल्या पिता गणस्या गयानबाई बेवा गणस्या जाति भारुड पता नि.ग्राम
23	390/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.065	रामेश्वर पिता वेडूजी जाति तेली पता नि.ग्राम
24	390/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	हैदरअली पिता मेहरवानअली जाति मुसलमान पता नि.ग्राम
25	390/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	संतोष पिता पंछीलाल जाति काढी पता नि.ग्राम
26	390/7 390/8 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	तुलसीराम पिता रन्धोड जाति भारुड पता नि.ग्राम
27	412/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.012	मुकेश मोतीलाल पिता बिशन नानीबाई बेवा बिशन जाति काढी पता नि.ग्राम
28	412/3 414/2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.210	मांगीलाल पिता किशनजी जाति सर्वी पता नि.ग्राम
29	412/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	रुपा पिता पोस्या जाति काढी पता नि.ग्राम
30	412/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.032	धेन्या पिता पोस्या जाति काढी पता नि.ग्राम
31	412/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.052	टिकम पिता किशनाजी जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
32	413/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.120	प्रवीणा पति बालाराम बच्चन जाति भिलाला पता नि. कासेल
	413/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	
33	413/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.240	रुपाबाई बेवा भील्या मुकेश पिता भील्या ओमप्रकाश लचिन राजेश पिता बाबू रितेश अर्वना ना.बा.गा. मांगीबाई बेवा बाबू मांगीबाई बेवा बाबू जाति भिलाला पता नि. ग्राम

34	413 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.052	मंशाराम नैनसिंह पिता गुलाबसिंह भागीरथ गजानन्द पिता आशाराम राजूबाई बेवा आशाराम मंशाराम पिता भोल्या नि. उपला जाति भीलाला भीलाला पता नि.गोडपुर
35	416 / 1 } 417 / 8 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	कल्लू खां पिता गुलाब खां जाति मुसलमान पता नि.ग्राम
	416 / 4 } 417 / 4 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	
36	416 / 2 } 421 / 1 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.065	धन्नालाल पिता टोल्या जाति काढी पता नि.ग्राम
37	416 / 3 } 417 / 1 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.070	मांगीलाल पिता शंकर जाति काढी पता नि.ग्राम
38	421 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.115	गंगाराम पिता भूरिया जाति काढी पता नि.ग्राम
39	421 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	राधेश्याम कैलाश पिता गिरधारी अनूकाबाई बसुबाई पिता गिरधारी रतनबाई बेवा गिरधारी जाति काढी पता नि.ग्राम
40	422 / 1 ख	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.056	रामकौरबाई पति मांगीलाल जाति काढी पता नि.ग्राम
	422 / 1 ग	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.110	
41	422 / 3 ड	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.105	राजाराम मोहन पिता बाला जाति काढी पता नि.ग्राम
42	422 / 5 क	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.130	बाबु पिता बोन्दर जाति काढी पता नि.ग्राम
43	422 / 5 ख	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.190	जगदीश भारत पिता गेन्दालाल जाति काढी पता नि.ग्राम
44	422 / 5 घ	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	उमाबाई पति मोहनलाल जाति काढी पता नि.ग्राम
45	423 / 10	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.285	लालुराम पिता नाना जाति काढी पता पता नि.ग्राम
46	434 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.230	शकीला बानो पति आबीदअली रजिया बानो पति हैदरअली सुफियाबानो पति हुसैनअली जाति मुसलमान पता नि.ग्राम
47	433 / 9 } 434 / 2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.154	रामलाल पिता गिरधर दुर्गाबाई बेवा मोतीलाल महेश कल्लू पिता मोतीलाल काना पिता मोतीलाल ना.बा.गा.दुर्गा बेवा मोतीलाल जाति काढी पता नि.ग्राम

48	438/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.110	हीरालाल चम्पालाल पिता भग्या राजबाई पिता भग्या जाति काढ़ी पता नि.ग्राम
49	438/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	छगन पिता रतन रेवाबाई पति रतन जाति काढ़ी पता नि.ग्राम
50	440/1/1 } 440/2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	नानेश राजाराम दुलीचन्द पिता काशीराम जाति काढ़ी पता नि.ग्राम
51	440/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	गेंदालाल पिता पन्नालाल जाति काढ़ी पता सा.देह
योग				6.407	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा—11 (1) के उपबधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू—अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा—12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू—अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा—11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा । अर्थात् क्य/विक्य, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा—15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन किया गया है अतः धारा—6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक—30 सन् 2013) की धारा—10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागु नहीं होंगे ।

क्र. 747/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 34/अ-82/16-17

**प्रारंभिक अधिसूचना**

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली दमदमी वितरण शाखा नहर, तथा उप नहरो के निर्माण एंव उनसे संबंधित अन्य कार्यो हेतु। ग्राम— टेमला बुजुर्ग तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 1.863 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात 4.60..... एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है : – अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं ।)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली दमदमी वितरण शाखा नहर, तथा उप नहरो के निर्माण एंव उनसे संबंधित अन्य कार्यो हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली दमदमी वितरण शाखा नहर, तथा उप नहरो के निर्माण एंव उनसे संबंधित अन्य कार्यो हेतु ग्राम— टेमला बुजुर्ग तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।



### अनुसूची

संक्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (ह.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
01	14/5 15/9}	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.105	मलुबाई पति माध्या जाति भील पता नि. ग्राम
02	16/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.092	जोग्या पिता भंगडा जाति भील पता नि. ग्राम
03	16/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.122	हगरिया पिता भंगडा जाति भील नि. ग्राम
04	21/15	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.072	भाग्या पिता खूमसींग जाति भील नि. ग्राम
05	21/8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.044	धुडक्या पिता गुमान जाति भील नि. ग्राम
06	21/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.044	वेस्ता पिता खूमसींग जाति भील नि. ग्राम
	21/16	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.115	
07	23/1 23/2 23/3/1 25 32/2}	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	राबड़या मोहन गोपाल पिता टुकड़िया रतनबाई बेवा टुकड़िया जाति भारूड़ पता ग्राम नि. सिनगुन
08	23/5 32/3}	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.032	नराण दारासींग पिता देवीसींग जाति भील पता नि. ग्राम
09	26	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	जदु मंगत्या माध्या पिता रामसींग भूरलीबाई पिता भदु नानकी बेवा भदु जाति भील पता नि. ग्राम
10	74/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.074	जसू पिता सड़या जाति भील पता नि. ग्राम
11	74/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	जामसींग मालसींग तेरसींग शेरसींग वेरसींग बांगरया पिता दलसींग जाति भील पता नि. ग्राम
12	74/9	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	केकड़ीया पिता रामसींग जाति भील पता नि. ग्राम
13	103	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	मुकेश राकेश पिता हरिकिशन बंशीबाई बेवा हरिकिशन दुर्गाबाई लक्ष्मीबाई अनिता पिता हरिकिशन जाति गवली पता निवासी ग्राम राजपुर

	105 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.130	हाजी आबिदअली हैदरअली हुसेनअली हसनअली पिता मेहरबानअली जाति मुसलमान नि. ग्राम
	105 / 3 } 106 / 1 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.072	
	105 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	
15	105 / 2 } 106 / 2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	हाजी कल्लू खां पिता गुलाबखां नि. राजपुर जफुरुल्ला पिता हाजी सुल्तानजी नि. अंजड़ अय्युब पिता हाजी रहमत जाति मुसलमान नि. राजपुर
16	105 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.072	मुस्लीम सुनन्त जमात तर्फ पंच हाजी आबिद अली पिता मेहरबान अली जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम राजपुर
17	139 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.150	बाबूलाल पिता गांगाजी जाति सिर्वे पता नि. शिवई
18	140 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.290	ओमप्रकाश रमेश किशोर पिता नारायण कमलाबाई कलाबाई बासूबाई ललीताबाई गंगाबाई जानकीबाई शीलाबाई पिता नरायण राकेश महेन्द्र पिता धिस्या कस्तूरीबाई बेवा धीस्या जाति कुलमी पता नि.राजपुर
19	141 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	मुकेश पिता भूरिया जाति काढी पता नि. राजपुर
20	155 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.164	बिसन पिता पेमसींग जाति बारेला पता नि. गाम
21	158	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	हादू पिता मंजी जाति बारेला पता नि.ग्राम
21योग				1.863	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी, बडवानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा—12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू—अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने,

**किसी** भी भूमि के स्तर लेने, अवमृद्धा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित अनुमोदन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा—11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्य/विक्य, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा—15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन किया गया है अतः धारा—6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक—30 सन् 2013) की धारा—10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागु नहीं होंगे।

क्र. 748/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 35/अ-82/16-17

## प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम की धारा—11 का भू—अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं. 30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली सिनगुन माईनर नहर, तथा उप नहरों, के निर्माण एंव उनसे संबंधित अन्य कार्यों हेतु । ग्राम—खड़की तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 1.352 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 3...34... एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी / प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है : — अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं ।)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली सिनगुन माईनर नहर, तथा उप नहरों, के निर्माण एंव उनसे संबंधित अन्य कार्यों हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है । इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हैक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है ।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली सिनगुन माईनर नहर, तथा उप नहरों, के निर्माण एंव उनसे संबंधित अन्य कार्यों हेतु ग्राम—खड़की तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

### अनुसूची

सं.क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
	2	3	4	5	6
01	13 / 1 } 15 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.260	सुरसिंह पिता बूचा तेरसिंह रेमसिंह पिता कागल्या नारसिंह पिता गुलाबसिंग दादूराम जगदीश मेदूबाई पिता गोखल्या उर्फ गोपल्या मिथुन गोविन्द कमली रुकमणी पिता भगवान ना.बा.गा. सुनीताबाई बेवा भगवान रजनी पिता भगवान कुसुम लल्ली लक्ष्मी पिता फुलसिंह ना.बा.गा. साबीबाई बेवा फुलसिंह व साबीबाई बेवा फुलसिंह जाति भील पता नि. ग्राम
02	14	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.260	मीराबाई बेवा टीकम जाति सिर्वी पता नि. ग्राम
03	16 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	सुरेश पिता नेनस्या जाति तडवी भील पता नि. ग्राम
04	23 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.082	शेरू पिता बाल्या जाति भीलाला पता नि. ग्राम बिलवानी
05	23 / 9 } 25 / 9 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.130	लक्ष्मीबाई पति गजानन जाति कुलमी पता नि. ग्राम
06	23 / 12	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.260	सालकराम पिता कन्हैया पुनीबाई बेवा कन्हैया जाति कुलमी पता नि. ग्राम
07	25 / 4 } 25 / 5 } 25 / 6 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	भिलूराम नानुराम मयाराम ठाकुर जगदिश पन्या पिता लक्ष्मण नानीबाई बेवा लक्ष्मण जाति गवली पता नि. ग्राम
08	27 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	यशवंत गल्या पिता मयाराम जाति भीलाला पता नि. ग्राम भीलखेड़ा
	31 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.135	
09	31 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.115	मंशाराम, सुरेश पिता धना, मांगीलाल पिता हीरालाल जाति भीलाला पता नि. ग्राम
योग				1.352	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोइंग नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागु नहीं होंगे।

क्र. 749/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 36/अ-82/16-17

### प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की मुख्य नहर के अंतर्गत आने वाली आमल्यापानी वितरण शाखा नहर एंव भामी माईनर-1, व भामी माईनर-2 एंव बालकुआ माईनर नहर के निर्माण एंव उनसे संबंधित कार्यों हेतु ग्राम-भामी तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 2.820 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 6.97... एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जाँच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है : — अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं ।)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की मुख्य नहर के अंतर्गत आने वाली आमल्यापानी वितरण शाखा नहर एंव भामी माईनर-1, व भामी माईनर-2 एंव बालकुआ माईनर नहर के निर्माण एंव उनसे संबंधित कार्यों हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की मुख्य नहर के अंतर्गत आने वाली आमल्यापानी वितरण शाखा नहर एंव भामी माईनर-1, व भामी माईनर-2 एंव बालकुआ माईनर नहर के निर्माण एंव उनसे संबंधित कार्यों हेतु ग्राम-भामी तहसील राजपुर जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

#### अनुसूची

स.क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
01	6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	मड़ीबाई बेवा शंकर बावूलाल पिता शंकर जाति भिलाला निवासी ग्राम
02	7/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.200	महेश रामेश्वर पिता नत्थू पार्वतीबाई बेवा नत्थू जाति भिलाला पता निवासी ग्राम
03	25/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.065	हरिया पिता देवा जाति भिलाला, पता
	28/2			0.096	सा.देह

04	25 / 3 48 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.024 0.060	बाबू पिता गोविन्दा जाति भिलाला, पता निवासी ग्राम
05	25 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.038	मांगीलाल, अनिल पिता श्याणा बेशरबाई बेवा श्याणा, जाति भिलाला, पता निवासी ग्राम
06	25 / 5 47	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.024 0.026	सरवण पिता लोण्या, जाति भिलाला, पता निवासी ग्राम
07	48 / 1 49 / 2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	मोहन पिता गोविन्द, जाति भिलाला, पता निवासी ग्राम
08	50 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.026	नयन, भिलू पिता मेहताब, जाति भिलाला, पता निवासी ग्राम
09	50 / 3 51 / 2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.065	शिवराम, सोहन, मोहन, गजानंद पिता हागरिया, कलाबाई बेवा हागरिया, जाति भिलाला, पता निवासी ग्राम
10	51 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.042	आवेसिंग, गुलाब, छोट्या पिता नुचा किशन, नहारसिंग, मुन्नालाल, हिरुबाई, सकूबाई पिता गल्या जाति बारेला पता नि.ग्राम
11	58 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	मोहन, उंकार पिता भगवान, रुखमाबाई बेवा भगवान, जाति सिर्वी, पता निवासी ग्राम
12	61 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.056	भीमा पिता गला, जाति भिलाला, पता निवासी ग्राम
13	61 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.102	गोपाल पिता गट्ल्या, जाति भिलाला, पता निवासी ग्राम
14	65	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	हेमा पिता भीका जाति सिर्वी पता नि.ग्राम साली
15	179 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.016	कुन्दन पिता मेहताब जाति भिलाला, पता निवासी ग्राम
16	179 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.034	मेलसिंह, दधासाम, मुलबबाई, कंचनबाई, सकरीबाई शिवकौरबाई, देवकौरबाई पिता बाऊ, झेतरीबाई बेवा बाऊ, जाति भिलाला, पता निवासी ग्राम
17	179 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.014	लालसिंह पिता बिलमण, जाति भिलाला पता निवासी ग्राम
18	179 / 6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.036	पाड़सिंह, बिसन पिता रामसिंह, राजु पिता दुरसिंह, परतद पिता किशन, जाति बारेला, पता निवासी ग्राम
19	179 / 7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.014	शेरसिंह पिता बिलमण, जाति भिलाला, पता निवासी ग्राम
20	179 / 10	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.016	मालसिंह पिता बिलमण, जाति भिलाला, पता निवासी ग्राम

21	180/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.095	अमरा पिता गला पता नि. ग्राम
22	180/2 } 190/2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.330	रायसिंह पिता रुखा पता निवासी ग्राम
23	181/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.290	आवेसिंह गुलाब छोटिया पिता नुच्चा जाति बारेला पता निवासी ग्राम
24	193/4 } 194 } 195 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.078	कालु पिता दुरसिंग जाति बारेला पता सा.देह
25	197 } 198 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.062	गमरिया पिता दिपला जाति भीलाला पता सा.देह
26	219 283/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035 0.155	सखाराम झवर कैलाश पिता गुलाबसिंग जाति भीलाला पता पता निवासी ग्राम
27	274/9	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	दरियाव पिता रुखडिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
28	275/1 275/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.068 0.074	राधेश्याम पिता गुलाल जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
29	275/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.052	रमतीबाई बेवा मार्ग्या अझान विकास पिता निर्भयसिंह अ.पा.क. दादी रमतीबाई बेवा मार्ग्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम पेन्ड्रा
30	275/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.065	कमलीबाई बेवा निर्भयसिंह अझान शिवराम पिता निर्भयसिंह अ.पा.क. कमलीबाई बेवा निर्भयसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम पेन्ड्रा
31	277/4 } 277/5 } 277/8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.094 0.020	भीमा पिता उमराव जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
32	277/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.022	कैलाश पिता बाबू जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
33	277/10	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045	राधू पिता बाका जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
34	281/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.048	सीताराम पिता खुश्याल जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
35	281/4 281/6 } 281/7 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.024 0.043	नानसिंह अमरसिंह पिता रातडिया रामू पिता बालजी वेस्ता पिता जैमाल कालू पिता रेमाल जसू गेंडा बंजी पिता मोती शिवा बद्री राजू उदी संम्पत्त संतोष पिता सुरसिंह वालकीबाई बेवा सुरसिंह पता निवासी ग्राम

36	281/5 281/8 281/10}	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.028	करण पिता मडिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
37	281/12	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.058	सखाराम पिता गुलाब जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
38	281/13	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	बुदिया पिता राधसिंह, जाति भीलाला, पता निवासी ग्राम
योग				2.820	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृद्ध को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्य/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

 सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अनुसार धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

क्र. 750/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 37/अ-82/16-17

**प्रारंभिक अधिसूचना**  
**(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)**

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की दानोद माईनर नहर के निर्माण एंव उनसे संबंधित कार्यो हेतु ग्राम-बिलवानी तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 0.302 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 0.75..... एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है : – अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं ।)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की दानोद माईनर नहर के निर्माण एंव उनसे संबंधित कार्यो हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की दानोद माईनर नहर के निर्माण एंव उनसे संबंधित कार्यो हेतु ग्राम-बिलवानी तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

संक्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
01	318/1 } 322/3 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.112	शंकर पिता रामाजी जाति सिर्वी पता नि.ग्राम

02	319 / 1 } 322 / 2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.130	रामलाल पिता मेहताब जाति भिलाला पता नि.ग्राम भीलखेड़ा
03	319 / 2 } 320 / 1 } 322 / 5 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	वासुदेव पिता रामनाथ जाति महाजन पता नि.ग्राम
योग				0.302	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा—11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू—अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा—12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू—अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा—11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा—15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आंशेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा—6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक—30 सन् 2013) की धारा—10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागु नहीं होंगे।

क्र. 751/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 38/अ-82/16-17

**प्रारंभिक अधिसूचना**  
**(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)**

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की मोयदा माईनर नहर व सालखेड़ा माईनर नहर एवं उप नहरों के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यों हेतु ग्राम—रणगांव रोड तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 4.476 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 11.16... एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है :—  
**अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।**)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की मोयदा माईनर नहर व सालखेड़ा माईनर नहर एवं उप नहरों के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यों हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—**निरंक**

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की मोयदा माईनर नहर व सालखेड़ा माईनर नहर एवं उप नहरों के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यों हेतु ग्राम—रणगांव रोड तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची

संख्या	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
01	4/4 4/8 5/3 14/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.005	नथू पिता बाऊ जाति भीलाला पता सा. देह
02	4/5 5/2 13/2 14/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.215	सुपडिया रणछोड पिता पन्था जाति भीलाला पता सा. देह
03	11/1क	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.180	मजूसिंह पिता पावरसिंग सेवन्तीबाई बेवा पावरसिंह जाति भीलाला पता सा. देह
04	12/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045	सुरेश पिता खाजु जाति भीलाला पता सा. देह
05	14/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.042	तुमडिया, पिता उमराव कडवीबाई बेवा शांतीलाल मांगीलाल पिता शांतीलाल जाति भीलाला पता सा. देह
06	15/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.038	दिलीप पिता भोलू लाडकीबाई बेवा भोलू जाति भीलाला पता सा. गोणपुरा
07	24/2/2 38/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.210	हरेसिंह पिता गणपत जाति भीलाला पता सा. देह
08	24/2/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.068	छिमा पिता रिछु जाति भीलाला पता सा. देह
09	24/2/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.032	सुरसिंह पिता भंगडा जाति भीलाला पता सा. देह
10	24/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.084	जुवानसिंह पिता बुदला जाति भीलाला पता सा. देह
11	39/1/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	आपसिंह पिता रत्या भावसिंह दलसिंह रमेश गोपाल पिता रूपसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
12	43/2/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	भाना पिता दशरथा जाति भीलाला पता सा. देह
13	43/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.095	मगल्या पिता बाऊ जाति भीलाला पता निवासी ग्राम

14	46 / 3 } 46 / 9 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045	नैनसिंह सुनील पिता सोमा लाड़कीबाई बेवा सोमा जाति भीलाला पता सा.देह
15	43 / 4 } 43 / 12 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.098	किशन पिता बाऊ जाति भीलाला पता सा.देह
16	43 / 8 } 43 / 13 } 46 / 2 } 46 / 12 } 43 / 14 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	पन्नालाल पिता बाऊ जाति भीलाला पता सा.देह
17	43 / 17	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	मगन पिता दशरथा जाति भीलाला पता सा.देह
18	43 / 18	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	गुलाब पिता दशरथा जाति भीलाला पता सा.देह
19	43 / 19	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	रमेश पिता दशरथा जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
20	115 / 1 } 118 / 6 / ख }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.125	उमराव पिता फत्तु जाति भीलाला पता सा.देह
21	120 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	सीताराम पिता मांगीलाल जाति भीलाला पता सा.देह
22	121 / 1 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	रुखमाबाई बेवा रुगनाथ जाति भीलाला पता सा.देह
23	121 / 1 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	काल्या पिता गला जाति भीलाला पता सा.देह
24	121 / 14 121 / 15	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060 0.058	पुनीबाई पति काल्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
25	125	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.054	रुखडिया पिता सुखलाल जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
26	129 / 4 } 131 / 1 } 132 / 1 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	पून्या पिता मांगीलाल जाति भीलाला पता नि.ग्राम
27	131 / 2 } 132 / 2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.018	इसराम पिता मांगीलाल जाति भीलाला पता नि.ग्राम
28	134 / 1 / क } 135 / 2 क }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	बद्रीलाल जियालाल सुभाष पिता छोगालाल नयजुबाई बेवा छोगालाल जाति भीलाला पता सा.देह
29	134 / 1 / ग } 135 / 2 ग }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.196	मांगीलाल पिता भीक्या जुरंगाबाई बेवा भीक्या जाति भीलाला पता सा.देह
30	134 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	त्रिलोकचन्द पिता हिरालाल जाति भीलाला पता नि.ग्राम

31	134 / 6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	गुलाबसिंह पिता हिरालाल जाति भीलाला पता नि.ग्राम
32	150 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.008	दिनेश पिता नरसीग जाति भीलाला पता सा. देह
33	166 / 3 } 168 / 2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.140	भानाजी पिता रामाजी जाति सिर्वी पता सा. सालखेड़ा
34	168 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.095	राजेश पिता नीमाजी जाति सिर्वी पता सालखेड़ा
35	169 / 4 } 169 / 6 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.048	चेनसिंह पिता गेंदालाल जाति भीलाला पता नि. सालखेड़ा
36	174 / 2 } 175 / 1 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.190	आत्माराम पिता धन्या सुशीला बेवा धन्या जाति भीलाला पता सा.देह
37	174 / 5 } 175 / 4 } 176 / 2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.095	मंश्या पिता उंकार जाति भीलाला पता नि.ग्राम
38	174 / 6 } 175 / 3 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.086	राम्या पिता उंकार जाति भीलाला पता नि.ग्राम
39	177 / 1 } 211 / 3 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.134	गेंदालाल पिता कन्हैयालाल जाति तेली पता सा.देह
40	177 / 2 } 211 / 2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	अभिषेक लखन पिता श्रीकृष्ण जीवनबाई बेवा श्रीकृष्ण जाति तेली पता नि.ग्राम
41	178 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.164	रतन राधेश्याम हुकुचन्द पिता मंशाराम जानकीबाई बेवा मंशाराम जाति तेली पता सा. देह
42	179 / 3 179 / 8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.015 0.026	कैलाश पिता बालाजी जाति तेली पता सा.देह
43	179 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.125	राधाकृष्ण हरिकिशन पिता भगवान जाति तेली पता सा. देह
44	179 / 6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.068	भुपेन्द्रसिंह पिता रामसिंह जाति ठाकुर पता नि. राजपुर
45	179 / 7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.032	सीताराम पिता बालाजी जाति तेली पता नि.ग्राम
46	179 / 9	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.176	संतोष पिता तुलसीराम जाति तेली पता नि.ग्राम
47	180 / 8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	कना पिता रुघनाथ जाति भीलाला पता सा. देह
48	180 / 9	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	जगदीश पिता रुघनाथ जाति भीलाला पता नि.ग्राम
49	180 / 10	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	गंगाराम पिता रुघनाथ जाति भीलाला नि.ग्राम
50	180 / 14	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.048	हिरदाराम पिता रामकिशन जाति भीलाला पता नि.ग्राम

51	180 / 15	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.036	जीयालाल सुरेश पिता सीताराम बीनाबाई बेवा सीताराम जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
52	181 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.156	सुरेश पिता सडया जाति भीलाला पता नि.ग्राम
53	186 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	राधेश्याम पिता पान्टया जाति भीलाला पता सा. देह
54	196 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.005	सत्यम पिता रामा ना.बा.गा. सुमनबाई व सुमनबाई बेवा रामा जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
55	196 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.106	सीताराम पिता मांगीलाल जाति भीलाला पता सा.देह
56	196 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	कन्हैयालाल पिता सदया जाति भीलाला पता सा.देह
57	196 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	भागीरथ शिवम पिता गजानन्द जतनबाई बेवा गजानंद जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
58	198 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	सुपडीलाल पिता सुक्या जाति भीलाला पता नि.ग्राम
59	198 / 2 } 199 / 1 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.175	पूना पिता बाऊ जाति भीलाला पता सा. देह
60	199 / 3 } 200 / 1 } 203 } 204 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.160	मंशाराम पिता भैय्याजी रवीन्द्र मयाराम पिता कालुराम कमलाबाई बेवा कालुराम जाति भीलाला पता सा. देह
61	198 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.065	संतोष हीरालाल प्रेमलाल पिता मिश्रीलाल जाति भीलाला पता नि. ग्राम
62	207 / 7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	निलेश दिपक पिता गुलाबसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
योग				4.476	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृद्धा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

\* अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्य/विक्य, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्ब्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागु नहीं होंगे।

क्र. 752/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 39/अ-82/16-17

### प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अंतर्गत आमल्यापानी वितरण शाखा नहर की बालकुँआ सब माईनर-2 एंव ब्रांच माईनर 1 नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु । ग्राम-तलवाड़ा बुजुर्ग तहसील तथा जिला बड़वानी में 0.470 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात 1.16..... एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी) / प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जाँच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है) : – अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं ।)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अंतर्गत आमल्यापानी वितरण शाखा नहर की बालकुँआ सब माईनर-2 एंव ब्रांच माईनर 1 नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है । इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है ।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अंतर्गत आमल्यापानी वितरण शाखा नहर की बालकुँआ सब माईनर-2 एंव ब्रांच माईनर 1 नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-तलवाड़ा बुजुर्ग तहसील तथा जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची

स.क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (ह.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
01	165/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.150	भुरा पिता उंकार, जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम बालकुंआ

02	167 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	भगवान पिता चेला जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
03	180 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.130	मुन्ना पिता मुरार जाति भीलाला पता जॉगरवा
04	181 / 2 202 / 2 202 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.065	भेरा पिता मोडा जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
05	215 / 1 घ	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	दवल्या पिता मकड़या, जाति तडवी पता निवासी ग्राम, अहस्तातरणीय
06	215 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	दगड़ीबाई बेवा उमराव सुनिल पिता उमराव ललिता पिता उमराव (ना. बा.) गा. दगड़ीबाई बेवा उमराव जाति भीलाला पता नि.ग्राम बालकुओं
योग				0.470	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोइ नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्य/विक्य, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आशेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

क्र. 753/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 40/अ-82/16-17

### प्रारंभिक अधिसूचना

**(अधिनियम की धारा—11 का भू—अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)**

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अंतर्गत आमल्यापानी वितरण शाखा नहर, माईनर -7, टेल माईनर नहर एवं माईनर-7 की सब माईनर -1 नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु। ग्राम-धमनई तहसील तथा जिला बड़वानी में 3.942 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 9.74 एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी) / प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है) : – अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अंतर्गत आमल्यापानी वितरण शाखा नहर, माईनर -7, टेल माईनर नहर एवं माईनर-7 की सब माईनर -1 नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अंतर्गत आमल्यापानी वितरण शाखा नहर, माईनर -7, टेल माईनर नहर एवं माईनर-7 की सब माईनर -1 नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-धमनई तहसील तथा जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची

स.कं.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता	
1	2	3	4	5	6	
01	21/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.068	भगा पिता धुलिया जाति बारेला, पता निवासी ग्राम	
	94/2 } 95/6 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.053		
02	21/15	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.041	वरजू पिता खुमला जाति बारेला, पता निवासी ग्राम	
	94/1 } 95/4 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.038		
03	39/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.048	सुरज पिता कजी जाति बारेला, पता निवासी ग्राम	
04	39/2,	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.048	शंकर पिता रंगला, जाति बारेला, पता निवासी ग्राम	
	70/2,	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.095		
	71,					
05	39/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.180	वालज्या पिता रंगला, जाति बारेला, पता निवासी ग्राम	
	39/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.032	ईलसिंग पिता कन्जी, जाति बारेला, पता निवासी ग्राम	
07	43/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	रेखा पति रायसिंग जाति बारेला, पता निवासी ग्राम	
	45/6ख			0.090		
08	43/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.065	वालसीग पालसीग पन्नालाल झुनली मन्जी झुरु तीनकी पिता सोमारीया चेनली बेवा सोमारीया जाति बारेला, पता निवासी ग्राम	
	129/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100		
09	43/8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.053	अनाज्या पिता माल्या जाति बारेला, पता निवासी ग्राम	
10	43/9 } 46/6 } 48 } 49 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.059	देवा दर्ल, नानी पिता ज्ञानसिंह, कमली बेवा ज्ञानसिंह, पन्नालाल, भुरु पिता चम्पालाल, दुवारसिंह पिता हजारिया, जाति राठया, पता निवासी ग्राम	
	43/13	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.042	गंगलीबाई पति गुमान, पता निवासी ग्राम	
	45/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.048	कोल्हया पिता मन्स्या, बलाइटी पिता कोल्हया, जाति बारेला, पता निवासी ग्राम	

स.कं.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
13	45/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	रमेश पिता अनसीग जाति बारेला, पता निवासी ग्राम
14	45/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	चन्द्रसिंग पिता अनसिंग जाति बारेला, पता निवासी ग्राम
15	43/14 45/6क } 45/6क } 45/6क }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.005	रमेश भुरसिंग हरसिंग पिता गीमा फुगरी बैवा गीमा जाति बारेला पता सा.देह
16	54/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.120	सख्तराम, रघु ग्यारस्या, अभयसिंह, जीरभान, सिवती, पारू पिता राधू जाति बारेला, पता निवासी ग्राम
17	54/3 54/4/1	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	निजी भूमि निजी भूमि	0.022 0.020	पेमसिंग पिता नाना पता निवासी ग्राम
18	46/2 46/4 47 54/4/2 } 74/2/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030 0.100	मोहनसिंग पिता नाना जाति बारेला, पता निवासी ग्राम
19	55/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.110	शेरुबाई पति लालसिंग, जाति बारेला, पता निवासी ग्राम
20	55/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	नजीर पिता मंगल्या, जाति राठया, पता निवासी ग्राम
21	53/3 55/4 56 } 98/4 99/3 100/5 } 102 103/1 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.074 0.050 0.145	लालसिंग पिता वेचाण जाति बारेला, पता निवासी ग्राम
22	57/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	लोभान पिता झगलिया जाति बारेला, पता निवासी ग्राम

सं.क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (ह.)	व्यक्ति का नाम और पता
23	57/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.085	भगा पिता जामसिंग जाति बारेला पता निवासी ग्राम
24	57/8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.055	जगदीश दिनेश पिता चन्द्रसिंग (ना.बा.) कमली बेवा जामसिंग जाति बारेला, पता निवासी ग्राम
25	69/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.005	सुभाष पिता झगलिया जाति बारेला, पता निवासी ग्राम
26	69/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045	सूरस्या पिता झगलिया जाति बारेला, पता सा.देह
27	69/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.047	बाल्या पिता झगलिया, जाति बारेला, पता सा.देह
28	68/2 69/6 70/3 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	कैलाश अकलसिंग नाना जामबाई पिरु जानियाबाई सपना अन्दु पिता साधु सोवानी बेबा साधु जाति बारेला पता निवासी ग्राम सा.देह
29	74/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.068	जगदीश, रमेश, बद्री पिता साधु, वनुबाई पिता साधु, मलकी बेवा साधु, बनी बेवा बाल्या जाति बारेला पता निवासी ग्राम
30	74/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	रोशन, कूवरसिंग पिता पेमसिंग, जाति बारेला, पता निवासी ग्राम
31	75/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.068	अनिल सुनिल शेरसिंग सीता नानटी अनिता फुलकी पिता महारिया, गीता बेवा महारिया नानली अनिता फुलकी ना.बा.गा. गीता बेवा महारिया रुलसिंग, टेलू, रणसिंग, मुकेश, ईलसीबाई, सोहनबाई पिता भूरसिंग, जाति बारेला, पता निवासी ग्राम
32	95/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.056	तुलया पिता मोती जाति बारेला, पता निवासी ग्राम
33	95/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.067	फाटा, पारस्या पिता सुभान जाति बारेला, पता निवासी ग्राम
34	95/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.053	गुमान पिता कलसिंह जाति बारेला, पता निवासी ग्राम
35	95/5 142/2 142/3 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.032	भंगडा रायसिंह सामसींग पिता धुल्या रुना बेवा धुल्या सायसिंग मां रुलाबे. तुलाम जाति बारेला पता नि.ग्राम

खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
2	3	4	5	6
36 97/1 } 100/2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.046	रामसिंग पिता कोल्या, जाति बारेला, पता निवासी ग्राम,
37 97/8/क } 100/6 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	हर्षकुमार पिता कोल्या, जाति बारेला, पता निवासी ग्राम
38 97/9 } 100/7 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.043	वांगरिया पिता कोल्या, जाति बारेला, पता निवासी ग्राम
39 97/10 } 100/8 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.048	मेहता पिता कोल्या, जाति बारेला, पता निवासी ग्राम
40 98/2 } 99/1 } 100/3 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.048	बंजारी, बीना, गीना, ईना पिता मकराम, बाटी बेवा मकराम, जाति बारेला, पता निवासी ग्राम
41 98/3 } 99/2 } 100/4 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.048	पेमसिंग पिता गुलसिंग, जाति बारेला, पता सा.दे
42 116/5 } 116/6 } 116/7 } 164/2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	बालू पिता प्रताप, जाति भीलाला, पता निवासी ग्राम
43 119/3 } 120/3 } 129/3 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.122	कालीबाई पति नानसिंग जाति बारेला, पता निवासी ग्राम
44 133/2 } 134/1 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	पारसिंग पिता कालु जाति बारेला, पता निवासी ग्राम
45 134/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.150	भीमसिंग विक्रम नैनसिंग पिता जदू जाति बारेला, पता निवासी ग्राम
46 139	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.180	नानसिंग पिता भुदरिया जाति बारेला, पता निवासी ग्राम
47 143	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	सुरसिंग पिता बोदर बदी बेवा बोदर जाति बारेला पता निवासी ग्राम
48 144/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	फुल्या रुमाल भुरला पिता देवीसिंग धनकी सुदली पिता देवीसिंह सुरस्या पिता रजान सायरी बेवा रजान जाति बारेला पता निवासी ग्राम

संकेत	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
49	160/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.127	काली, सुरली, पिता अमरसिंग, बायरी बेवा अमरसिंग, जाति बारेला पता निवासी ग्राम
50	161/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.128	तिरमल पिता सुखलाल जाति बारेला, पता निवासी ग्राम
51	164/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	नहारसिंग, पठान, गंगाराम, गेंदालाल, जकली, पिता भावसिंग, कारी बेवा भावसिंग जाति बारेला, पता निवासी ग्राम
	योग			3.942	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोइ नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृद्ध को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागु नहीं होंगे।

क्र. 754/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 41/अ-82/16-17

## प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना आमल्यापानी वितरण शाखा नहर की माईनर-7 व सब माईनर 1, तथा टेल माईनर नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु। ग्राम-सजवानी तहसील तथा जिला बड़वानी में 1.657 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् ५.०९... एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी) प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है : — अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना आमल्यापानी वितरण शाखा नहर की माईनर-7 व सब माईनर 1, तथा टेल माईनर नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला-निरंक तहसील-निरंक के ग्राम-निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना आमल्यापानी वितरण शाखा नहर की माईनर-7 व सब माईनर 1, तथा टेल माईनर नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-सजवानी तहसील तथा जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (ह.)	व्यक्ति का नाम और पता	
1	2	3	4	5	6
01	114/4/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.007	संतोष पिता गोविन्द जाति भारूड पता निवासी ग्राम

	116 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.096	कुवरसिंग कानु पिता सुरपाल तुलसी रेखा गंगा पिता सुरपाल सेकड़ी बेवा सुरपाल बीना चन्दु कैलाश दिलीप पिता नराण सुसीला सुकली लक्ष्मी पिता नराण सुगर बेवा नराण रायसिंग काशीराम देवसिंग पिता बिलमन रेशम मनु पिता बिलमन कमला बेवा बिलमन जाति भीलाला पता नि.ग्राम
02	281 / 1 282 / 2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.210	
03	117 / 1 / 1 117 / 2 117 / 3 117 / 4 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.058	भीका पिता भाना जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
04	117 / 1 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	माना पिता हिरजी जाति सिर्वी पता नि.ग्राम सा.देह
05	126 / 4 128 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.200	सिकदार राजु गजु पिता फकीरा सर्लबाई बेवा फकीरा देवकाबाई बेवा श्रवण नेता जगदीश सुन्दरबाई पिता श्रवण जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
06	129 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.148	मांगीलाल पिता गोपाल उर्फ गेंदाजी जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
07	131	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	जानुबाई पति भगवान जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
08	133 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.055	जगदीश सरदार पिता रुखडिया पार्वती लक्ष्मी गुजर पिता रुखडिया रेखा बेवा रुखडिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
09	272 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.098	कैलाश पिता मोती जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
10	272 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.065	मांगीलाल शंकर कैलाश पिता मोती सुन्दर बेवा मोती जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
11	281 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.026	कालु पिता लक्ष्मण जाति भीलाला पता नि.ग्राम

12	281/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.056	रतन पिता नागा जाति भीलाला पता निवासी ग्राम सा.देह
13	281/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.095	माँगलीया पिता रन्छोड जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
14	281/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045	शंकर दिनेश राधेश्याम जानकी यशोदा सुबा दया सुमन ममता पिता पेमा व शांन्ता बेवा पेमा जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
15	281/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.026	गबरु गोविन्द शीवा पिता गेंदालाल सोनी बेवा गेंदालाल जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
16	281/11	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.026	लाडकीबाई पति करण जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
17	281/12	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.026	राधु पिता धना जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
18	399/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.134	सोहन पिता कैलाश जाति भीलाला पता सा.देह
19	399/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.096	कंचनबाई पति कैलाश जाति भीलाला पता सा.देह
	योग			1.657	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में संलिप्त प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्य/विक्य, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागु नहीं होंगे।

क्र. 755/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 42/अ-82/16-17

**प्रारंभिक अधिसूचना**  
**(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्ब्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)**

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली पिपरी वितरण शाखा नहर की माईनर नहर 10 एवं माईनर नहर 11 के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यों हेतु । ग्राम-खड़कल तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 0.963 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 2...3... एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी) / प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है : – अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं ।)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली पिपरी वितरण शाखा नहर की माईनर नहर 10 एवं माईनर नहर 11 के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यों हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है । इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है ।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली पिपरी वितरण शाखा नहर की माईनर नहर 10 एवं माईनर नहर 11 के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यों हेतु ग्राम-खड़कल तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

### अनुसूची

स.कं.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
01	65/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.048	शोभाराम राजाराम व बाला जाति भिलाला पता सा.देह
02	69/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	भारडी बेवा गुलाब गढ़ बद्री ममताबाई पिता गुलाब जाति बारेला पता सा.देह
03	70/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045	कैलाश पिता अमरिया जाति भिलाला पता सा.देह
04	70/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	श्याणा पिता अमरिया जाति भिलाला पता सा.देह
05	70/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	पुनिया पिता रामा जाति भिलाला पता सा.देह
06	70/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.065	उंकार व. रामा जाति भिलाला पता सा.देह
07	70/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	बाबु व. मड्या जाति भिलाला पता सा.देह
08	79/1 80/1 80/3 81/3}	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	संतोष पिता नराण जाति सिर्वी पता सा.देह
09	79/2 80/4}	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	गेंदीबाई बेवा नराण लीलाबाई कलाबाई शांताबाई मुन्नीबाई सुमनबाई जानुबाई लक्ष्मीबाई पिता नराण जाति सिर्वी पता नि.ग्राम
10	81/8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	आत्माराम पिता जादया जाति भिलाला पता सा.देह
11	81/5 81/7 81/9 81/10 123/5}	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	फुलसिंह पिता उन्दरीया जाति भिलाला पता नि.ग्राम
12	83/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.150	शिवराम पिता दुबलया चकीबाई बेवा दुबल्या जाति बारेला पता सा.पिपरी बुजुर्ग
13	83/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	जगदीश पिता दुबल्या जाति बारेला पता नि.ग्राम

14	83 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.055	दुकान पिता दुबलिया जाति बरेला पता नि.ग्राम
15	123 / 7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.075	गुमान पिता कालू जाति राठया पता सा.देह
योग				0.963	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा—11 (1) के उपबधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू—अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा—12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू—अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा—11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्य/विक्य, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा—15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन किया गया है अतः धारा—6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक—30 सन् 2013) की धारा—10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागु नहीं होंगे।

क्र. 756/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 43/अ-82/16-17

### **प्रारम्भिक अधिसूचना**

**(अधिनियम की धारा—11 का भू—अर्जन, पुनर्वास और पुनर्ब्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं. 30 सन् 2013)**

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अंतर्गत आमल्यापानी वितरण शाखा नहर एंव इसकी माईनर -1, माईनर-2 व माईनर -4 नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु । ग्राम—धाबाबावड़ी तहसील बड़वानी जिला बड़वानी में 3.481 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् ५५० एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी) / प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारम्भिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है) : – अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं ।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अंतर्गत आमल्यापानी वितरण शाखा नहर एंव इसकी माईनर -1, माईनर-2 व माईनर -4 नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है । इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है ।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अंतर्गत आमल्यापानी वितरण शाखा नहर एंव इसकी माईनर -1, माईनर-2 व माईनर -4 नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम—धाबाबावड़ी तहसील तथा जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।



### अनुसूची

संक्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
01	8 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	गुमान पिता हमीर जाति भिलाला पता नि.ग्राम
	140	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.094	
02	12 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	जगन पिता झुजार जाति भिलाला नि.ग्राम
03	12 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	मुकेश नितेश जितेन्द्र राहुल पिक्की पुजा पिता बिहारी काली बेवा बिहारी जाति भिलाला पता नि.ग्राम
	63 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.046	
04	13 / 2 14 / 2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.260	रुमाल, गंगाराम, दरबार, जेमाल, सरदार पिता मालसिंग, रेंदु भुरली शांता पिता मालसिंग कुंवरबाई बेवा मालसिंग जाति भीलाला पता नि.ग्राम
05	14 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.086	सोमारिया दयाराम राजाराम मागीलाल नेमा पिता आपसीग चमायडी गेदली पिता आपसीग जाति भीलाला पता नि.ग्राम
06	28 / 2 36 37 / 3 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.330	खुमान पिता मगत्या जाति भीलाला पता नि.ग्राम
	41 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.197	
07	39 / 5 40 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.142	रमेश पिता जैमल ना.बा.गा.मीरा बेवा जैमल जाति तडवी पता नि.ग्राम
08	41 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.120	ढेड़ा सुरली पिता गना चमा हुसन्या गिलदार लक्ष्मण पिता भुनका गंगा सोना पिता भूमका दिनेश अनिता पिता गिलदार रेवा बेवा गिलदार जाति भीलाला पता नि.ग्राम
09	42	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.320	भुरसिंह पिता थावरिया जाति भीलाला पता नि.ग्राम
10	61	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.177	नरसिंह पिता जामसिंह जाति भिलाला पता नि.ग्राम

संख्या	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
11	.63 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.058	गुलसिंह पिता हमीर जाति भीलाला पता नि. ग्राम
	141 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.013	
	142	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.195	
12	63 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.048	मीराबाई पति चन्द्रसिंग जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
13	63 / 6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	ईलाब पिता फुलसिंग जाति भीलाला पता नि.ग्राम
14	64 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	चन्द्रसिंग पिता नरसिंग जाति भीलाला नि.ग्राम
15	74 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	सुमला पिता गुलाब जाति भीलाला पता नि.ग्राम
16	78 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.150	गंगाराम पिता झेतरीया जाति भीलाला पता नि.ग्राम
17	119 / 2 } 120 / 1 120 / 2 120 / 3 145 / 2 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.268	पहाड़सिंह पिता करमी जाति भीलाला पता नि. ग्राम
	144	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	
18	149 / 2 } 149 / 3 150 } 151 152 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.175	पहाड़सिंह भीलू जुरसींह पिता करमी नरसींग जैमाल सुरमा केकड़ी मालकी खरसी पिता ईलावसिंग चमार सुकली बायदी मुखली काली मुरखी पिता इन्द्रसिंग धुधरी बेवा ईन्द्रसिं भोल्या तेरसिंग बाच्या मसरी केशरी मुन्नी पिता रुलसिंग ज्ञानी बेवा रुलसिंग जाति भीलाला पता नि.ग्राम
19	158 / 1 } 159 / 2क	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.037	रणजीत पिता हीरका जाति भीलाला पता नि.ग्राम
20	158 / 2 } 159 / 1 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.070	कारु बाई पिता रुमसिंग जाति भीलाला पता नि.ग्राम
21	172 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	मोतीलाल बुदा ढेडू कमली चमी रमी पिता दुवालसिंग जाति भीलाला पता नि.ग्राम
22	172 / 12	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	ढेडू पिता दुवालसिंग जाति भीलाला पता नि.ग्राम

सं.क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
	2	3	4	5	6
23	175/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.260	रामसिंह पटल्या भूरलानूरला पिता भावसींग शोभाराम सखाराम सदीप पिता गुलाब निरमा पिता गुलाब सोहगी पिता गुलाब जाति भीलाला पता नि.ग्राम
	योग			3.481	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्य/विक्य, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागु नहीं होंगे।

क्र. 757/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 44/अ-82/16-17

**प्रारंभिक अधिसूचना**  
**(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)**

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की पिपरी वितरण शाखा नहर के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यों हेतु । ग्राम-निहाली तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 0.770 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 1.90..... एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है : – अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं ।)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की पिपरी वितरण शाखा नहर के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यों हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है । इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला-निरंक तहसील-निरंक के ग्राम-निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है ।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना की पिपरी वितरण शाखा नहर के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यों हेतु ग्राम-निहाली तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

**अनुसूची**

संक्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
	2	3	4	5	6
01	15/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.220	भोलू पिता हाटिया जाति भीलाला पता नि.ग्राम
02	15/2/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	जिवा पिता अमरा जाति मेघवाल पता नि.ग्राम

03	15/2/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.120	खेंमा पिता रामा जाति मेघवाल पता नि.ग्राम
04	15/2/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.160	नाना पिता रामा मेघवाल पता नि.ग्राम
05	15/2/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.120	मांगीलाल पिता जीवा जाति मेघवाल पता नि.ग्राम
06	15/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.070	प्रताप, सुभाष, संतोष पिता काशीराम, मांगीबाई बेवा काशीराम जाति भिलाला पता नि.ग्राम
योग				0.770	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्य/विक्य, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के सम्मक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के काष्या/लागु नहीं होंगे।

क्र. 758/रीडर/भू-अर्जन-2017

रा.प्रा.क्र. 45/अ-82/16-17

### प्रारंभिक अधिसूचना

**(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)**

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत पिपरी वितरण शाखा नहर, की माईनर नहर 6, 9, 10, एवं उप नहरों के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यों हेतु ग्राम-कुसमरी तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 6.168 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात 15.24 एकड़ (सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी) / प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाधात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है : – अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत पिपरी वितरण शाखा नहर, की माईनर नहर 6, 9, 10, एवं उप नहरों के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यों हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है—निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला—निरंक तहसील—निरंक के ग्राम—निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत पिपरी वितरण शाखा नहर, की माईनर नहर 6, 9, 10, एवं उप नहरों के निर्माण एवं उनसे संबंधित कार्यों हेतु ग्राम-कुसमरी तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची

संख्या	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
01	2/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.250	सुकलाल शिवा वरजन भारसिंग पिता रतन वजनि बेवा रतन जाति बारेला पता नि.ग्राम नाम्या पिता रोशन रुलीबाई बेवा रोशन कैलाश पिता मांगीलाल औहरीबाई बेवा मांगीलाल नूरु गुङ्ग पिता मांगीलाल अ.पा.क. मां औहरीबाई बेवा मांगीलाल जाति बारेला पता नि.ग्राम
02	2/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.055	नाना पिता नथू जाति बारेला पता नि.कुशमरी
03	2/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	बदू पिता भीलू जाति बारेला पता नि.ग्राम
04	4/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	मडिया पिता मोत्या जाति भीलाला पता नि.ग्राम
05	7/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	बाबुलाल पिता मांगीलाल जाति भीलाला पता नि.ग्राम
06	7/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.225	गुमान पिता जीरिया जाति बारेला पता नि.ग्राम
07	7/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.088	नाज्या पिता थारल्या जाति बारेला पता नि.ग्राम
08	7/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.110	बाल्या नैनसिंह शंभू मदाम पंडु पिता बाटया नानीबाई बेवा बाटया जाति बारेला पता नि.ग्राम
09	7/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	दुलीचन्द पिता सदाशिव जाति भीलाला पता नि.ग्राम
10	7/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045	काली बेवा सिवा जाति भीलाला पता नि.ग्राम
11	7/8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	मंशाराम पिता सदाशिव जाति भीलाला पता नि.ग्राम
12	7/9	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	रवि निलेश पिता प्रेमलाल ना बा गा सावित्रीबाई व सावित्रीबाई बेवा प्रेमलाल जाति भीलाला पता नि.ग्राम
13	30/1/3 30/2 62/4/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.135	रुजीबाई भदा जाति बारेला पता नि.ग्राम

14	3 / 1 / 2 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030 0.015	चंपालाल देवीसिंग पिता पुन्या द्वारकीबाई बेवा पुन्या जाति भीलाला पता नि.ग्राम
15	31 / 3 34 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.052 0.035	बाऊ पिता लक्ष्मण जाति भीलाला पता नि.ग्राम
16	40 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.270	शांतीलाल केलाश ताराचन्द पिता जलाल सुन्दरबाई बेवा जलाल ऊषाबाई बेवा राजाराम देवेन्द्र हेमंत पिता राजाराम अ.पा.क. माँ ऊषाबाई बेवा राजाराम जाति भीलाला पता नि.ग्राम
17	43 / 1 43 / 3	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	निजी भूमि निजी भूमि	0.160 0.095	खजान भदू पिता सोमा केवजी रणजी गटु पिता धर्मा लटु पिता रमजू जाति बारेला पता नि.ग्राम
18	43 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	लोभान गतुराम पिता मंजी नि.ग्राम जलगोन जाति बारेला
19	44 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	कोलू कालूराम भागीरथ पिता अमरसिंह मांगीबाई बेवा अमरसिंह रतन पिता मधु नि.ग्राम जाति भीलाला
20	44 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	कोलू पिता अमरसिंह नि.ग्राम जाति भीलाला
21	45 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	सजनबाई पति कोलू जाति भीलाला पता नि.ग्राम
22	46 48 / 2 } 49 }	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.170 0.200	भूपेन्द्र पिता सुदामा जाति कलाल पता निवासी ग्राम
23	52 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.075	विहारीलाला पिता रामअवतार व ग्यारसीबाई कलाबाई आशाबाई उषाबाई जाति तेली पता नि.ग्राम तुलसीबाई पिता रामओतार पता सा.देह
24	52 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	नन्दलाल पिता दुखीलाल कोकिलाबाई बेवा दुखीलाल नि.ग्राम जाति तेली पता नि.ग्राम
25	52 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.085	गिरधारीलाल पिता तुलसी जाति तेली पता नि.ग्राम
26	52 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	भुवानसिंह पिता पोमणिया नि.ग्राम जाति भीलाला
27	54 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.045	बालूसिंग पिता दरीयाव जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
28	54 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.075	गणपत पिता दरियाव जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
29	54 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.058	मांगीबाई बेवा चम्पालाल जाति भीलाला पता निवासी ग्राम

30	54 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.065	मुरली पिता मंगत जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
31	55 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.065	बसन्तसिंह पिता रामा जाति भीलाला पता नि.ग्राम
32	55 / 8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.042	प्रेमलाल पिता नहारसिंग जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
33	55 / 9	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	जितेन्द्र पिता नहारसिंग जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
34	55 / 10	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	विरेन्द्र पिता नहारसिंग जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
35	55 / 11	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	विजय पिता नहारसिंग जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
36	56 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.110	मंशाराम पिता गणपत कलाबाई बेवा
	59 / 3			0.025	गणपत जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
37	56 / 6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.300	लटु पिता मांगया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
38	62 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	दिलीप दिनेश पिता रामचन्द्र प्रभिला बेवा रामचन्द्र जाति महाजन पता नि.ग्राम
39	65 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.140	गटया काशीराम किशोर रेवाराम पिता जोग्या गनीबाई बेवा जोग्या जाति बारेला पता नि.ग्राम
40	75 / 8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	काशीराम पिता रूपसिंग जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
41	75 / 10	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	दिनेश पिता गिल्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
42	75 / 11	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	दशरथ पिता गिल्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
43	81 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.160	गोपाल पिता डोंगर जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
	81 / 4			0.072	
44	81 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.055	दुर्गाबाई बेवा दरियाव जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
45	81 / 7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.006	नानीबाई बेवा बद्री अजय पिता बद्री अ.पा.क. नानीबाई बेवा बद्री जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
46	81 / 8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	शोभाराम पिता बिलमण जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
47	85 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.220	राजाराम पिता उमराव जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
48	85 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	बाला पिता नंदिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
49	85 / 5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	कमल पिता नंदिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम

50 वार्ता 51	85 / 6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	ओंकार पिता ठाकुर जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
52	85 / 7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.018	सीताराम पिता दितला जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
53	85 / 16	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	श्यामराव पिता रूपसिंग जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
54	85 / 21	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.018	दयाराम पिता ठाकुर जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
55	85 / 22	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.015	कैलाश पिता ठाकुर जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
56	85 / 23	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.018	चम्पालाल पिता दितला जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
57	85 / 24	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.013	सतीश पिता मांगीलाल राधाराम बेवा मांगीलाल जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
58	137 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.140	किशोर रणजीत पिता पोपट सरदार पिता शिवजी नरसिंह पिता देवीसिंह कोलू सोमा बद्री घिस्या पिता रुघनाथ केशरबाई बेवा रुघनाथ जाति भीलाला पता नि.ग्राम
59	137 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.015	मांगीलाल पिता गयला नि.ग्राम जाति भीलाला
60	138 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.220	विकाश विशाल पिता हजारीलाल मंजुलाबाई बेवा हजारीलाल मांगीलाल पिता छोगालाल दिलीप संतोष पिता मथुरालाल देवेन्द्र अनिल पिता मथुरालाल ना.बा.गा. मथुरालाल पिता छोगालाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम
60	138 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	गेनाजी पिता धुलाजी जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
	138 / 6			0.160	
61	138 / 4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.082	जीवा पिता धुलाजी जाति सिर्वी पता निवासी ग्राम
62	141 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.105	मांगीलाल पिता छेगालाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम
63	180 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.015	राधेश्याम नन्दराम पिता बाबूलाल विमलाबाई बेवा बाबूलाल जाति भीलाला पता नि.ग्राम
64	186 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.098	कोलू सोमा बद्री घिस्या पिता रुघनाथ केशरबाई बेवा रुघनाथ जाति भीलाला पता नि.ग्राम
	186 / 5			0.080	

66 *	186 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.058	किशोर रणजीत पिता पोपट मंगलीबाई बेवा पोपट जाति भीलाला पता नि.ग्राम
67	186 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.150	मंगलसिंह केशव पिता सरदार जाति भीलाला पता नि.ग्राम
67	186 / 6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.150	नरसिंह पिता देवीसिंह भीलाला जाति भीलाला पता निवासी ग्राम
योग				6.168	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा—11 (1) के उपबधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू—अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोइ नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा—12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू—अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृद्धा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा—11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्य/विक्य, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा—15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठे) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन किया गया है अतः धारा—6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक—30 सन् 2013) की धारा—10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागु नहीं होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार  
तेजस्वी एस. नायक, उपसचिव.

### राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2017

क्रमांक एफ. 15-1-2017-सात-शाखा-6-305.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित गांवों के लिए, उसके कॉलम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार-अभिलेख तैयार किया जाए :—

### अनुसूची

#### तहसील—त्योंदा, जिला—विदिशा

क्रमांक	पटवारी हल्का क्रमांक सहित गांवों के नाम	अधिकार-अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम	
(1)	(2)	(3)	
1.	मूल ग्राम भिलाय, प.ह.नं. 03	नवीन ग्राम जमनिया, प.ह.नं. 03	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला विदिशा
2.	मूल ग्राम कस्बा बागरोद, प.ह.नं. 32	नवीन ग्राम चक बागरोद, प.ह.नं. 32	
		तहसील—ग्यारासपुर, जिला—विदिशा	
क्रमांक	पटवारी हल्का क्रमांक सहित गांवों के नाम	अधिकार-अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम	
(1)	(2)	(3)	
1.	मूल ग्राम इंदरवास, प.ह.नं. 04	नवीन ग्राम केवटा, प.ह.नं. 04	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला विदिशा
		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार भारती ओगरे, उपसचिव.	

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2017

क्रमांक एफ. 15-1-2017-सात-शाखा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15-1-2017-सात-शाखा-6, दिनांक 7 मार्च 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार भारती ओगरे, उपसचिव.

Bhopal, the 7th March 2017

No. F. 15-01-2017-VII-Sec.-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959, the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof :—

### SCHEDULE

#### Tahsil—Tyonda, District—Vidisha

Serial No.	Name of Village(s) with P.C. No.	Designation of the officer authorised to prepare record of rights	
(1)	(2)	(3)	
1.	<b>Original Village</b> Bhilay, P.C. No. 03	<b>New Village</b> Jamanya, P.C. No. 03	Superintendent of Land Records (Regular), District Vidisha.
2.	<b>Original Village</b> Kasba Bagrodh, P.C. No.32	<b>New Village</b> Chak Bagrodh, P.C. No. 32	

#### Tahsil—Gyaraspur, District—Vidisha

Serial No.	Name of Village(s) with P.C. No.	Designation of the officer authorised to prepare record of rights	
(1)	(2)	(3)	
1.	<b>Original Village</b> Indarwas, P.C. No. 04	<b>New Village</b> Kevta, P.C. No. 04	Superintendent of Land Records (Regular), District Vidisha.  By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, BHARTI OGREY, Dy. Secy.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

शहडोल, दिनांक 27 फरवरी, 2017

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 24-अ-82-2016-17-812.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1) शहडोल	(2) गोहपारू	(3) बरदौहा	(4) 32.664	(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 शहडोल, म. प्र.	(6) झिरिया नाला जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

**नोट.—** भूमि का नक्शा (प्लान)कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 23-अ-82-2016-17-813.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1) शहडोल	(2) गोहपारू	(3) चुहिरी	(4) 11.476	(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 शहडोल, म. प्र.	(6) झिरिया नाला जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

**नोट.—** भूमि का नक्शा (प्लान)कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 20-अ-82-2016-17-814.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	गोहपारू	सगरा	77.923	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 शहडोल, म. प्र.	झिरिया नाला जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान)कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 22-अ-82-2016-17-815.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	गोहपारू	डोगरीटोला	0.733	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 शहडोल, म. प्र.	झिरिया नाला जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान)कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 21-अ-82-2016-17-816.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती

है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	गोहपारू	लेदरा	4.893	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 शहडोल, म. प्र.	झिरिया नाला जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

**नोट.—** भूमि का नक्शा (प्लान)कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 25-अ-82-2016-17-817.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	गोहपारू	महआटोला	0.810	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 शहडोल, म. प्र.	झिरिया नाला जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

**नोट.—** भूमि का नक्शा (प्लान)कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन	(1)	(2)	
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	43/1	0.004	
रीवा, दिनांक 20 फरवरी 2017	43/2	0.008	
	44/1/1/क	0.003	
पत्र क्र. 50-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्रिया और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है। चूंकि, बैकुण्ठपुर, देवास लालगांव मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है। इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—	44/1/ख	0.002	
	44/1/2	0.001	
	44/2	0.002	
	16/1	0.010	
	16/2	0.002	
	17/1	0.002	
	17/2	0.002	
	188/1	0.002	
	188/2	0.001	
	188/3	0.002	
	188/4	0.002	
अनुसूची	206	0.005	
(1) भूमि का वर्णन—	205	0.004	
(क) जिला—रीवा (म. प्र.)	189/1	0.006	
(ख) तहसील—सिरमौर	190	0.010	
(ग) नगर/ग्राम—सौर-569	189/2	0.002	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.975 हेक्टेयर.	201	0.008	
खसरा नं.	अर्जित रकबा		
	(हे. में)		
(1)	(2)		
39/1/1	0.004	197/1	0.007
40/1/2	0.001	197/2	0.003
40/1/1	0.002	197/3	0.003
40/2/2	0.004	191	0.006
40/2/3	0.002	192	0.007
40/2/4	0.001	196	0.010
42/1	0.020	227	0.010
42/2	0.002	292/1	0.003
40/2/1	0.002	292/2	0.003
42/3	0.003	292/3	0.003
35	0.007	223	0.016
34/1	0.005	222/1	0.006
34/2	0.005	222/2	0.005
40/2/5	0.002	222/3	0.005
40/3	0.003	222/4	0.006
40/4	0.003	289/1	0.003
		289/2	0.003

(1)	(2)	(1)	(2)
289/3	0.003	208/2	0.006
287	0.005	18/1	0.012
295	0.002	207/1	0.005
193/2	0.008	207/2	0.002
294	0.016	207/3	0.005
505	0.013	187	0.011
503	0.006	193/1	0.014
225	0.006	293	0.008
226	0.006	276	0.009
265/1	0.005	275	0.008
265/2	0.003	741/1	0.007
266	0.008	742/1	0.018
268	0.004	742/2	0.005
269	0.008	274/1	0.005
473/1	0.024	745	0.012
272	0.008	746/1	0.020
493	0.008	487/1	0.007
271	0.008	487/2	0.005
465/1	0.007	487/3	0.005
463	0.012	47/1	0.007
465/2	0.005	47/2	0.003
466/1	0.009	19/1	0.010
471/2	0.002	19/2	0.004
471/1	0.010	48/1	0.001
473/2	0.024	49/2/1	0.002
489/1	0.043	48/2	0.001
491/1	0.012	49/2/2	0.002
489/2	0.002	48/3	0.001
489/3	0.001	49/2/3	0.002
489/4	0.001	49/1	0.004
489/5	0.001	743	0.012
488	0.010	757	0.048
274/2	0.005	कुल रकमा	0.975
746/2	0.028	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बैंकुण्ठपुर देवास लालगांव मार्ग हेतु।	
734	0.041	(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।	
755	0.048		
491/2	0.032		
165	0.010		
166	0.012	पत्र क्र. 51-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में	
208/1	0.006		

उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतदद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है। चूंकि, बैकुण्ठपुर, देवास लालगांव मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है। इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
- (ख) तहसील—सिरमौर
- (ग) नगर/ग्राम—बैकुण्ठपुर-408
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.187 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	492	0.011	
(1)	(2)	493	0.008	
550/2	0.001	494	0.001	
549	0.012	489	0.008	
550/1	0.002	488/2	0.006	
548/1	0.006	514/1	0.012	
548/2	0.003	514/2	0.012	
547/2	0.002	कुल रकबा ..		
523	0.010	0.187		
546/1	0.002			
545	0.007			
546/2	0.002			
546/3/1	0.001			
546/3	0.001			
520/1	0.001			
520/2	0.006			
520/3	0.006			
534	0.002			
588/1	0.006			
524/1/क	0.003			
526/1	0.003			
537/1	0.001			
524/1/ख	0.003			
526/2	0.003			
537/2	0.001			
524/2	0.001			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बैकुण्ठपुर देवास लालगांव मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 52-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतदद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है। चूंकि, बैकुण्ठपुर, देवास लालगांव मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है। इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
- (ख) तहसील—मनगवां

(ग) नगर/ग्राम—फूल नं.-2	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.048 हेक्टेयर.	47/1	0.004
खसरा नं.	अर्जित रकबा	
	(हे. में)	
(1)	(2)	
35	0.009	176/1
36	0.003	174/1
38/1	0.005	175/1
147	0.004	48
38/2	0.005	264
39	0.008	50/2
148	0.009	50/1
शा. नं. 150/2		1027/414/1
150/1	0.005	179/1
कुल रकबा . .	<u>0.048</u>	178/1
		181/1

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बैकुण्ठपुर देवास लालगांव मार्ग हेतु।

(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 53-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है। चूंकि, बैकुण्ठपुर, देवास लालगांव मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है। इस कारण अधिस्थियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—		
(क) जिला—रीवा (म. प्र.)	345/1	0.006
(ख) तहसील—मनगांव	252	0.004
(ग) नगर/ग्राम—रौरा	354	0.006
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.421 हेक्टेयर.	185/1	0.012

खसरा नं.	अर्जित रकबा	
	(हे. में)	
(1)	(2)	
263/1	0.004	248
263/2	0.006	358
		357
		245

(1)	(2)
362	0.015
222/2	0.001
222/1	0.004
174/2	0.001
219/1/2	0.004
219/1/1	0.004
363/2	0.003
406	0.004
412/4	0.004
218	0.002
413/2/2	0.004
187/1	0.012
408/1	0.024
187/2	0.012
187/3	0.008
412/1	0.001
412/2	0.004
412/3	0.004
413/1	0.006
413/2/1	0.004
1027/414/2	0.008
532/2	0.010
179/2	0.010
178/2	0.001
534/1	0.002
534/3	0.002
534/2	0.002
535	0.003
541	0.003
540	0.003
542	0.004
174/3	0.001
544	0.004
545	0.003
175/2	0.001
175/4	0.001
407/2	0.008
407/6	0.008
कुल रकबा	0.421

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बैंकुण्ठपुर देवास लालगांव मार्ग हेतु,
- (3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 54-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है। चूंकि, बैंकुण्ठपुर देवास लालगांव मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है। इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
- (ख) तहसील—सिरमौर
- (ग) नगर/ग्राम—हट्टवा-572
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.684 हेक्टेयर.

#### खसरा नं.

#### अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)	(2)
1169/1/क	0.160
1182/1	
1182/2	0.080
1170/1/क	0.061
1170/2/क	0.040
1170/2/ख	0.032
1233/1/1182	0.016
1233/2/1182	0.016
743	0.060
748/1/क	
748/1/ख	
748/1/ग	
748/1/घ	
748/2	0.068
748/3/1	
748/3/2	
748/4	
748/5	
748/6	

(1)	(2)	उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—
1234/1/1182	0.088	अनुसूची
1234/1/ख	0.068	(1) भूमि का वर्णन—
1234/2/1182	0.084	(क) जिला—रीवा (म. प्र.)
1232/1/ख/1/1182	0.026	(ख) तहसील—सिरमौर
1232/1/ख/1/2/1182	0.026	(ग) नगर/ग्राम—पुर्वा 316
1232/1182/1/क/1	0.026	(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.437 हेक्टेयर.
1232/1182/1/क/2	0.026	
1183/2	0.020	खसरा नं.
1189	0.074	अर्जित रकबा
1190/1	0.085	(हे. में)
1190/2	0.101	(1) (2)
1191/1/क/1		364 0.018
1191/1/क/2		371/2 0.008
1191/1/ख		372/1 0.012
1191/2/ग		371/1 0.008
1191/4		370 0.006
1191/5/क		369 0.013
1191/5/ख	0.360	367 0.016
1191/6		164 0.014
1191/7		387 0.012
1191/8		163 0.010
1191/9		165 0.006
1191/10		160 0.045
1119/4/1	0.141	116 0.006
1232/1/ख/1/4/1182	0.026	396 0.042
कुल रकबा ..	<u>1.684</u>	397 0.004
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बैकुण्ठपुर देवास लालगांव मार्ग हेतु.		114 0.024
(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.		115 0.023
पत्र क्र. 55-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत, एतद्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है। चूंकि, बैकुण्ठपुर देवास लालगांव मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है। इस कारण अधिनियम की	400 0.030	
		401/1/2 0.004
		111 0.028
		386 0.016
		398 0.028
		401/1/ 0.004
		403 0.018
		404 0.020
		110 0.020
		375 0.002
		कुल रकबा .. <u>0.437</u>
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बैकुण्ठपुर देवास लालगांव मार्ग हेतु.		

(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।	(1)	(2)
	82/1/क	0.006
	19/2	0.004
	22/2	0.012
	31/2	0.008
	32/2	0.024
	34/2	0.007
	46/2	0.032
	61/2	
	123/1/क	0.004
	63/2	0.014
	65/2	0.010
	66/2	0.006
	70/1/ख	0.007
	81/2	
	82/1/ख	0.007
	30/2/क	0.002
	32/1, 32/1/ख	0.046
	35	0.048
(क) जिला—रीवा (म. प्र.)	37	0.020
(ख) तहसील—सिरमौर	39	0.023
(ग) नगर/ग्राम—जोड़ौरी 180	40	0.009
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.683 हेक्टेयर.	45	0.024
खसरा नं.	अर्जित रकबा	43, 44
	(हे. में)	61/1
(1)	(2)	0.017
12	0.005	63/1
13/1	0.006	64/1
13/2	0.003	67
14/1/क		0.002
14/2	0.014	68/2
15/2	0.009	69/2
15/1	0.010	70/2
16	0.024	89
31/1/क	0.004	123/2
34/1	0.014	86
46/1	0.049	88
19/1/क	0.010	92/2
20/1/क	0.007	
21/1/क	0.017	कुल रकबा . . .
22/1/क	0.037	0.683
70/1/क	0.007	
81/1	0.012	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बैकुण्ठपुर देवास लालगांव मार्ग हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 57-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सावर्जनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत, एतद्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है। चूंकि, बैकुण्डपुर देवास लालगांव मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है। इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
- (ख) तहसील—सिरमौर
- (ग) नगर/ग्राम—देवास-248
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.897 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	
(1)	(2)	
2070	0.012	2298/1/1
2329/1	0.002	2297/2
2337/1	0.004	2298/2
2337/2/2	0.002	2301/1
2067, 2668	0.008	2302/1
2071	0.003	2302/2
2082	0.009	2641
2324/1	0.003	4645/2
2072	0.006	2638
2645/1	0.005	2639/1
2639/2	0.004	2892/2
2325	0.009	2626/1
2073	0.010	2626/2
2080	0.003	2625
2038	0.024	2624/1
2629	0.003	2624/2
2628	0.004	2624/3
2083	0.003	2623
2085	0.015	2622
2033	0.010	2319/1

(1)	(2)	(1)	(2)
2619/2	0.002	1564	0.088
2619/3	0.002	1669/1	0.008
2618	0.014	1588/1/1	0.034
2411	0.018	1588/2/1	0.015
2410/1	0.004	1669/2	0.014
2405/1	0.008	1588/1/2	0.015
1316/1	0.010	1561	0.013
2410/2	0.005	1531/1/क	0.002
2405/2	0.008	1531/1/ख	0.007
1316/2	0.010	1531/2	0.003
2410/3	0.001	1531/1/ग	0.002
2410/4	0.002	1529	0.007
2408/1	0.003	1530	0.012
2404/1	0.004	1563/1	0.002
2408/2	0.003	1563/3	0.002
2404/2	0.004	1584	0.085
2408/3/क	0.003	कुल रकबा	0.897
2408/3/ख	0.002		
2892/1	0.005	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बैंकुण्ठपुर देवास लालगांव मार्ग हेतु,	
2324/2	0.004		
2327/1	0.003	(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.	
2327/2	0.003		
2327/3	0.003		
2328	0.006	पत्र क्र. 58-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्रिया और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतदद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि, बैंकुण्ठपुर, देवास लालगांव मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है. इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—	
2329/2/क	0.006		
2329/2/ख	0.004		
2329/2/ग	0.004		
2337/2/1	0.004		
2388	0.014		
2389/1	0.008		
2389/2	0.010		
2406/1	0.007		
2406/2	0.006		
2406/3	0.005		
2404/3	0.010		
1672	0.010		
1671/1	0.008		
1671/2	0.008	(1) भूमि का वर्णन—	
1670/1	0.008	(क) जिला—रीवा (म. प्र.)	
1670/2	0.008	(ख) तहसील—सिरमौर	

अनुसूची

(ग) नगर/ग्राम—लालगांव-510	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.650 हेक्टेयर.	2178/3	0.003
खसरा नं.	अर्जित रकमा	2178/4/2
	(हे. में)	2185/1
(1)	(2)	2185/3
1237/2	0.023	2185/2
1239	0.014	2189
1240/1	0.004	2363/1
1240/2	0.004	2367
1241	0.009	2363/2
1243	0.015	2208/1
1243/1	0.001	2209/1
1243/3	0.007	2210/2
1243/4	0.006	2299/2
1244/1	0.013	2309/1
1246	0.004	2310/2
1247/1	0.005	2314/2
2171	0.016	2322/3
1247/2	0.003	2208/2
1248/3	0.001	2209/2
1249/1	0.001	2210/3
2176/4	0.002	2299/3
1248/1	0.001	2300/2
2176/5	0.001	2306/2
1248/2	0.001	2310/3
1249/2	0.001	2313/3
2176/1	0.002	2314/3
1248/4	0.001	2322/4
2176/3	0.002	2209/3
2177/1	0.001	2210/1
1248/5	0.001	2675/2314
1249/4	0.002	2211
2176/6	0.001	2212/4
1251	0.010	2212/1
1252	0.005	2358/1
1257	0.013	2212/2
2169/1	0.005	2302/3
2169/2	0.005	2353/3
2173	0.006	2357/2
2176/2	0.002	2212/3
2177/1	0.001	2302/1

(1)	(2)	(1)	(2)
2353/1	0.005	2359/1	0.004
2354	0.009	2359/2	0.002
2357/1	0.004	2654/1256	0.012
2212/5	0.002	कुल रकबा	0.650
2358/2	0.009		
2213/1	0.007	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बैकुण्ठपुर देवास लालगांव मार्ग हेतु.	
2302/2	0.001		
2357/3	0.005	(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.	
2213/2	0.006		
2214	0.005		
2215	0.012		
2216/1	0.008	पत्र क्र. 59-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है। चूंकि, बैकुण्ठपुर देवास लालगांव मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है। इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—	
2680/2328	0.004		
2216/2	0.008		
2287	0.004		
2288	0.017		
2289	0.006		
2292	0.017		
2295	0.008		
2296	0.001		
2322/1	0.002		
2324	0.029		
2299/1	0.001		
2300/1	0.003		
2306/1	0.004		
2310/1	0.001	(1) भूमि का वर्णन—	
2314/1	0.002	(क) जिला—रीवा (म. प्र.)	
2322/2	0.002	(ख) तहसील—सिरमौर	
2299/4	0.001	(ग) नगर/ग्राम—बहिवार-362	
2300/3	0.004	(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.115 हेक्टेयर.	
2306/3	0.004		
2310/4	0.001	खसरा नं.	अर्जित रकबा
2314/4	0.002		(हे. में)
2322/5	0.002	(1)	(2)
2306/4	0.002		
2309/2	0.002	1/2	0.043
2178/1	0.003	1/3	0.011
2178/2	0.003	3/1	0.014
2328	0.016	3/4	0.016
2345	0.015	3/6	0.019
2163/3	0.001	3/7	0.012
2364	0.005	कुल रकबा	0.115
2366	0.010		
2369	0.003		
2353/2	0.004		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बैकुण्ठपुर देवास लालगांव मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।	(1)	(2)
	486/3	0.005
	610/2	0.012
	613/2/ख्र	0.006
	613/1/ग	0.006
	603/2	0.004
	489/3	0.006
	603/1	0.014
	134/2	0.004
	495/1	0.010
	186/2	0.003
	396/1	0.018
	185/2	0.002
	184/2	0.020
	602/1	0.004
	602/2	0.004
	602/3	0.004
(क) जिला—रीवा (म. प्र.)	602/4	0.004
(ख) तहसील—मनगढ़ा	602/5	0.004
(ग) नगर/ग्राम—फूल नं. 1 (330)	602/6	0.004
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.864 हेक्टेयर.	485	0.001
खसरा नं.	अर्जित रकबा	
	(हे. में)	
(1)	(2)	
510	0.020	604
512 शा. नं. 513	0.022	477
515/1	0.016	476
488/1	0.004	478
486/1	0.005	479
483	0.006	611
484	0.006	612
605	0.006	613/3
613/1/क	0.007	465
515/2	0.020	462/1
496/1	0.026	462/2
488/2	0.004	462/3
486/2	0.005	462/4
610/1	0.012	460/2
613/2/क	0.006	134/1
613/1/ख्र	0.007	915/2/135
515/3	0.020	135/1
496/2	0.028	135/2
488/3	0.004	135/3
		135/4
		135/5
		459
		0.003
		0.003
		0.003
		0.003
		0.024

(1)	(2)	(1)	(2)
401/1	0.006	313/1/क	0.001
401/2	0.006	313/1/ख	0.001
401/3	0.006	213/1	0.007
401/4	0.006	239/2	0.008
400	0.016	240/1	0.024
155/1	0.014	240/2	0.004
155/2	0.004	240/3	0.003
155/3	0.002	240/4	0.002
161/1	0.006	244/5	0.005
161/2	0.006	243/1, 243/2	0.012
162/1	0.004	915/1/135	0.008
399	0.002	कुल रकबा	0.864
162/2	0.002		
189/2	0.008	(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बैकुण्ठपुर देवास लालगांव मार्ग हेतु,	
189/3	0.005	(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।	
189/1,	0.010	पत्र क्र. 61-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतदद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है। चूंकि, बैकुण्ठपुर देवास लालगांव मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है। इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।—	
188	0.011		
187/1	0.006		
187/2	0.001		
396/2	0.012		
398	0.024		
382/7	0.003		
382/7/ख	0.003		
382/7/क	0.003		
382/8/क	0.002		
382/2	0.008		
204	0.002		
205/2/1	0.002		
205/2/2	0.002		
206/6	0.003		
206/7/2	0.002		
205/1	0.004		
210	0.008	(1) भूमि का वर्णन—	
242	0.008	(क) जिला—रीवा (म. प्र.)	
239/1	0.004	(ख) तहसील—सिरमौर	
207	0.012	(ग) नगर/ग्राम—माला-469	
208	0.002	(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.712 हेक्टेयर।	
211	0.010	खसरा नं.	अर्जित रकबा
212/2	0.008	(1)	(हे. में)
212/1	0.004	522	0.002
315	0.020	523	0.011
212/3	0.004		

(1)	(2)	(1)	(2)
525	0.015	714	0.016
526	0.021	716	0.013
527/2		715	0.002
527/1		761/1	0.002
527/4	0.023	717	0.013
527/6		723	
527/5		724	0.016
529	0.013	725/1, 725/2,	0.041
546	0.012	725/3, 725/4	
530/2	0.012	754/4	0.010
540/1, 540/2	0.010	756/2	0.003
541/1, 541/2	0.026	757	0.025
543/1	0.004	758	0.014
543/2	0.026	762	0.034
544	0.001	763	
545/1, 545/2	0.013	764	0.013
547/1, 547/2, 547/3	0.023	766/1, 766/2	0.013
549/1, 549/2	0.020	754/3	
550	0.009	754/6	0.010
561	0.012	756/1	0.003
562	0.007	754/2	
563	0.006	754/5	0.011
573	0.025	756/3	0.003
754/1	0.012	कुल रकमा ..	0.712
583/1	0.008		
583/2	0.004		
584	0.004		
585/2	0.004		
586/1, 586/2	0.018		
587/1, 587/2, 587/3	0.010		
588/1, 588/3, 588/4,			
588/5, 588/6, 588/7,	0.042		
588/8, 588/9			
700/1, 700/2, 700/3	0.007		
702, 701	0.016		
709	0.012		
710/1,	0.006		
712/1	0.003		
710/2	0.006		
717/2	0.003		
711	0.024		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बैंकुण्ठपुर देवास लालगांव मार्ग हेतु।

(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 62-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रक्के का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है। चूंकि, ग्राम डोल-217, राजस्व निरीक्षक मण्डल सिरमौर, तहसील सिरमौर, रीवा जिले के ग्राम पड़री-चैरैया नाला से डोल पहुंच मार्ग में प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा (म. प्र.)

(ख) तहसील—सिरमौर

- (ग) नगर/ग्राम—डोल—217  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.673 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
415	0.139
426	0.011
425/1, 425/2	0.012
432	0.010
434/2/1	0.054
434/2/2	0.054
434/1, 434/2,	0.156
434/3, 434/4	
389/1/2	0.047
368	0.041
369	0.007
439/1, 439/3,	0.022
439/4, 439/5	
439/2/1	0.007
439/2/2	0.007
433/1/2	0.005
433/1/3	0.005
442	0.003
440/1	0.006
440/2	0.006
443/3	0.004
443/4/1	0.002
443/4/2, 443/5	0.002
443/8/2	0.004
371/1, 372/2	0.018
373	0.007
374	0.008
371/2, 373/2	0.004
376/1	0.010
377	0.022
कुल रकबा	<u>0.673</u>

सङ्क निर्माण कार्य हेतु

- (3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 63-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है। चूंकि, ग्राम पड़ी, राजस्व निरीक्षक मण्डल सिरमौर, तहसील सिरमौर, रीवा जिले के ग्राम पड़ी से डोल पहुंच मार्ग में प्रस्तावित सङ्क निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु, इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
- (ख) तहसील—सिरमौर
- (ग) नगर/ग्राम—पड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.143 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
800/1, 800/2	0.162
758	0.076
757	0.009
801	0.044
802/1, 802/2	0.010
756	0.047
759/1, 760/1,	0.101
759/2, 760/2, 760/3	
761	0.052
763	0.055
2198/794	0.019
765/1, 765/2	0.055
766	0.039

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—रीवा जिले के ग्राम पड़ी—चैरैया नाला से डोल पहुंच मार्ग में प्रस्तावित

(1)	(2)	(1)	(2)
767/1, 767/2	0.086	1629/1, 1629/2, 1629/3	0.008
768	0.048	1632	0.007
770/1, 770/2,		1634	0.010
770/3, 770/4,	0.042	1635	0.011
770/5, 770/6		1636/1, 1636/2, 1636/3	0.012
729/1, 729/2	0.078	1641/1, 1641/2	0.005
728	0.115	161/1, 162/2, 161/3	0.011
721/1, 721/2	0.106	160	0.011
719/1क, 719/1ख,		157	0.004
719/1ग, 719/1घ,	0.036	150/3, 150/4, 150/5,	
719/2, 719/3	506	150/9, 150/1, 150/2,	0.004
506	0.130	150/6, 150/7, 150/8	
507/1, 507/2, 507/3	0.101	148	0.012
508	0.053	130/1	0.033
511	0.030	1663/1, 1663/2	0.048
512/1, 512/2	0.023	1655	0.008
717/1, 717/2	0.014	121/1, 121/2,	
718	0.023	121/3, 121/4	0.180
722	0.005	122/1, 122/2, 122/3	0.002
725/1, 725/2, 725/3	0.005	124	0.009
731	0.054	135/1, 135/2, 135/3,	
733	0.025	135/4, 135/5, 135/6	0.036
734/3	0.036	123/2	1.214
746	0.004	1619	0.676
747	0.026	कुल रकमा ..	4.143
748	0.013		
749, 750, 751	0.034		
1618	0.008		
1620/1, 1620/2, 1620/3	0.038		
1621/1, 1621/2,	0.025		
1627	0.007		
1628	0.008		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—रीवा जिले के ग्राम पड़ी से डोल पहुंच मार्ग में प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य हेतु।

(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 3rd February 2017

No. 193-Confdl.-2017-II-3-1-2017.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting First Refresher Course for the Civil Judges Class II from 2014 Batch from 27th February 2017 to 4th March 2017 in the Academy. Civil Judges, whose names and postings figure in the endorsement, are directed to attend the aforesaid course.

#### Conditions for the course :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the Course shall not pray for adjustment.
  2. The participants shall report by 9.30 a.m. on 27th February 2017 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur.
  3. During the Course, the participants shall wear prescribed uniform (i.e. Black coat, white shirt, grey trousers and black tie). The lady judicial officers may be directed to wear white saree and blouse with black coat.
  4. The participants shall send only soft copies of the following to the Academy sufficiently in advance on email [mpsja@mphc.in](mailto:mpsja@mphc.in) prior to ten days before commencement of the Course :—
    - (i) Judgment in Civil and Criminal casses (contested) (one each);
    - (ii) Issues (one);
    - (iii) Charges (one);
    - (iv) Questionnaire of examination of accused.
  5. The participants may send legal problems which they want to be addressed during the course to the Academy either by fax (No. 0761-2628679) or email at [mpsja@mphc.in](mailto:mpsja@mphc.in) sufficiently in advance.
  6. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.
  7. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.
- Date, mode and time of arrival of the participants may be conveyed to **Shri Pramod Kumar Chaturvedi**, A. G. I on Mobile No. 08878747939 or to **Shri Gyan Prakash Tekam**, A. G. III on telephone No. 0761-2628679 or to **Shri Pramod Kushwaha**, A. G. III on Mobile No. 09713717147 at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made.
- It may however be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles. The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station, Jabalpur (Platform No. 1 only) as per the programme conveyed by the participants in advance.
- Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants.
8. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation. The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice. In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules. Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice.
  9. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of Course and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of Course.
  10. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the Course, free of charge, as per the rules of the Academy.

Jabalpur, the 4th February 2017

No. 215-Confdl.-2017-II-2-5-17.—Madhya Pradesh State Judicial Academy (MPSJA) is organizing five Regional Workshops in this financial year from 1st January 2017 to 19th March 2017 on closed Saturdays and Sundays, as per the action plan of XIV Finance Commission for Training of Judicial Officers, with the funds allocated by the State Government under the Head—"Training & Training Material" to the High Court.

In this connection, the 3rd Regional Workshop on—Family Laws is being organized on 25th February 2017 at Ujjain in which Principal & Additional Principal Judges of Family Courts and Judges dealing with matrimonial cases from Burhanpur, Dewas, Dhar, Indore, Khandwa, Mandsaur, Neemuch, Rajgarh, Ratlam, Sehore, shajapur and Ujjain (37 Officers in all), whose names are shown in the endorsement will participate, as per the following conditions:—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment. Principal Judge of Family Court/District & Sessions Judges of the respective district are authorized to deal with the letter of adjustment, if any, and exempt the said Judicial Officer looking to his/her exigency under intimation to the Academy.
2. The Judicial Officers included in the workshop shall have to report for training on 25th February 2017 at 9.30 a.m. at the venue intimated by the District & Sessions Judge, Ujjain.
3. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop. Proper attire with blazer/coat/suit would be required for group photograph.
4. Judicial Officers who will come from places other than the venue of Regional Workshop (Headquarters) may come by their official vehicle or private vehicle. Cost of fuel charges of private vehicles shall be reimbursed to them as per their entitlement according to circular No. F 4-2/2016/Rules/four dated 5th November 2016 of Government of Madhya Pradesh, Finance Department, Vallabh Bhawan @ Rs. 6/- per km to attend the workshop.

Respective District & Sessions Judges from whose districts Judicial Officers have been nominated for the Workshop shall be allotted fund for reimbursement of TA bills of the participant Judicial Officers.

5. The District & Sessions Judge, Ujjain has to provide all logistic support like arranging public address system, conference hall having capacity to accommodate atleast 32 Judicial Officers etc. required for conducting the said workshop, stay arrangements of the participants/Officers & Staff of MPSJA, catering services, etc.

6. During Workshop, breakfast, working lunch and tea twice with light snacks shall be served. The outstation participants shall be provided dinner packs, on request.
7. Stay arrangement shall be provided on single/twin sharing basis for the participants.
8. The District Judge may utilize the services of two of the Judges from District Judiciary for logistic support and they shall be paid remuneration of Rs. 1,000/- per head and the District Judge shall be paid remuneration of Rs. 1,500/- for guidance and providing logistic support, which shall be adjusted towards their honorarium paid as guest faculty.

Class III and Class IV employees (two each) of the District Headquarters whose services will be utilized during the workshop, an incentive of Rs 450/- to Class III employees and Rs. 250/- to Class IV Employees shall be provided.

9. Judicial Officers at regional headquarters or from other places, whose services are utilized as Guest Faculty for the purpose of workshop, shall be paid honorarium as per High Court Order dated 26-08-2016.

Jabalpur, the 16th February 2017

No. 326-Confdl.-2017-II-2-5-17.—Madhya Pradesh State Judicial Academy (MPSJA) is organizing five Regional Workshops in this financial year from 1st January 2017 to 19th March 2017 on closed Saturdays and Sundays, as per the action plan of XIV Finance Commission for Training of Judicial Officers, with the funds allocated by the State Government under the Head—"Training & Training Material" to the High Court.

In this connection, 4th Regional Workshop on—Motor Accident Claim Cases and Key issues relating to appeals and revisions is being organized on 11th March 2017 & 12th March 2017 at Sagar in which Judicial Officers of HJS cadre from Chhatarpur, Damoh, Jabalpur, Kanti, Panna, Raisen, Sagar, Tikmgarh and Vidisha (39 Officers in all), whose names are shown in the endorsement will participate, as per the following conditions:—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment. District & Sessions Judges of the respective districts are authorized to deal with the letter of adjustment, if any, and exempt the said Judicial Officer looking to his/her exigency under intimation to the Academy.

2. The Judicial Officers included in the workshop shall have to report for training on 11th March 2017 at 9.30 a.m. at the venue intimated by the District & Sessions Judge, Sagar.
3. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop. Proper attire with blazer/coat/suit would be required for group photograph.
4. Judicial Officers who will come from places other than the venue of Regional Workshop (Headquarters) may come by their official vehicle or private vehicle. Cost of fuel charges of private vehicles shall be reimbursed to them as per their entitlement according to circular No. F 4-2/2016/Rules/ four dated 5th November 2016 of Government of Madhya Pradesh, Finance Department, Vallabh Bhawan @ Rs. 6/- per km to attend the workshop.

Respective District & Sessions Judges from whose districts Judicial Officers have been nominated for the Workshop shall be allotted fund for reimbursement of TA bills of the participant Judicial Officers.

5. The District & Sessions Judge, Sagar has to provide all logistic support like arranging public address system, conference hall having capacity to accommodate atleast 38 Judicial Officers etc. required for conducting the said workshop, stay arrangements of the participants/Officers & Staff of MPSJA, catering services, etc.
6. During Workshop, breakfast, working lunch and tea twice with light snacks and dinner on the first day of the Workshop shall be served. On second day, breckfast working lunch and tea twice with light snacks shall be provided. The outstation participants shall be provided dinner packs, on request.
7. Stay arrangement shall be provided on single/twin sharing basis for the participants.
8. The District Judge may utilize the services of two of the Judges from District Judiciary for logistic support and they shall be paid remuneration of Rs. 1,000/- per head Per workshop and the District Judge shall be paid remuneration of Rs. 1,500/- for guidance and providing logistic support, which shall be adjusted towards their honorarium paid as guest faculty.

Class III and Class IV employees (two each) of the District Headquarters whose services will be utilized during the workshop, an incentive of Rs 450/- to Class III employees and Rs. 250/- to Class IV Employees shall be provided.

9. Judicial Officers at regional headquarters or from other places, whose services are utilized as Guest Faculty for the purpose of workshop, shall be paid honorarium as per High Court Order dated 26-08-2016.

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,  
MANOHAR MAMTANI, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 7 फरवरी 2017

क्र. B-849-दो-2-62-2009.—श्री मनोहर ममतानी, तत्कालीन अंतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से 31 अक्टूबर 2009 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-851-दो-2-13-2008.—श्री मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 13 से 17 फरवरी 2017 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 फरवरी 2017 के तथा पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोहर ममतानी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 10 फरवरी 2017

क्र. B-969-दो-3-420/80-भाग बारह.—सुश्री भारती बघेल, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय, हरदा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2016 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 203 दिवस (दो सौ तीन दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के संशोधित ज्ञापन

क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

#### गणना-पत्रक

1. सुश्री भारती बघेल, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय, हरदा का नियुक्ति दिनांक : 23-09-1981
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-11-2016
3. नियुक्ति दिनांक 23-09-1981 से : 05 वर्ष 05 माह 16 दिन। कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-03-1987 से : 29 वर्ष, 08 माह, 20 दिन। सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).
6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
7. कुल अंजित अवकाश : 300 दिन समर्पण की पात्रता.
8. घटाइये:—सेवा के दौरान : 97 दिन लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अंजित : 203 दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.

**नोट:**—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अंजित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

क्र. B-971-दो-3-420-80-भाग बारह.—श्री ए. के. पाण्डेय, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय, रीवा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2016 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 161 दिवस (एक सौ इक्सठ दिवस मात्र) के अंजित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

#### गणना-पत्रक

1. श्री ए. के. पाण्डेय, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय, रीवा का नियुक्ति दिनांक : 18-10-1985
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-03-2016
3. नियुक्ति दिनांक 18-10-1985 से : 01 वर्ष 04 माह 21 दिन। कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-03-1987 से : 29 वर्ष, 00 माह, 21 दिन। सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).
6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से). : 29=14×15=210 दिन : 1×7=7 दिन
7. कुल अंजित अवकाश : 232 दिन समर्पण की पात्रता.
8. घटाइये:—सेवा के दौरान : 37 दिन लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अंजित : 195 दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.

**नोट.—**मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

क्र. B-973-दो-3-420-80-भाग बारह.—श्री हरिशंकर वैश्य, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय, गुना को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2016 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 167 दिवस (एक सौ सङ्घसठ दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

#### गणना-पत्रक

1. श्री हरिशंकर वैश्य, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय, गुना का नियुक्ति दिनांक : 07-11-1985
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-10-2016
3. नियुक्ति दिनांक 07-11-1985 से : 01 वर्ष 04 माह  
दिनांक 09-03-1987 तक  
कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-03-1987 से : 29 वर्ष, 07 माह,  
सेवानिवृत्ति दिनांक तक  
कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).
6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण :  $29=14\times 15=210$  दिन  
अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
7. कुल अर्जित अवकाश : 232 दिन  
समर्पण की पात्रता.

8. घटाइये—सेवा के दौरान : 60 दिन  
लिया गया अवकाश  
समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 172 दिन  
अवकाश समर्पण की पात्रता.

**नोट.—**मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

क्र. B-980-दो-3-32-2006.—श्री एस.एस. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 13 फरवरी से 4 मार्च 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृति किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 एवं 12 फरवरी 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 मार्च 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस.एस. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस.एस. रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-607-दो-2-28-2016.—श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 14 से 28 दिसम्बर 2016 तक पंद्रह दिन के पूर्व स्वीकृत अर्द्धवेतन अवकाश तथा दिनांक 29 से दिनांक 31 दिसम्बर 2016 तक तीन दिन के पूर्व स्वीकृत शीतकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 01 से 12 जनवरी 2017 तक बारह दिन का अर्द्धवेतन अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 13 फरवरी 2017

क्र. B-1013-दो-2-31-2014.—श्री ए. के. श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 11 से 13 जनवरी 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 15 जनवरी 2017 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-1016-दो-2-20-2007.—श्री बी.एस. जमरा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2016 तक दो दिन के स्वीकृत शीतकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 28 से 31 दिसम्बर 2016 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में 01 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी.एस. जमरा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी.एस. जमरा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-640-दो-2-8-2012.—श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 15 से 20 फरवरी 2017 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुनीता यादव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. E-1275-दो-3-43-2013.—श्रीमती मीना सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 16 से 18 जनवरी 2017 तक

दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. E-1277-दो-2-28-2014.—श्री व्ही. पी. एस. चौहान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 27 जनवरी से 03 फरवरी 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. पी. एस. चौहान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. पी. एस. चौहान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-1279-दो-2-19-A-2009.—सुश्री भारती बघेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, हरदा को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. E-1304-दो-2-53-2014.—श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 13 से 18 फरवरी 2017 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 फरवरी 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 14 फरवरी 2017

क्र. C-663-दो-2-5-2015.—श्रीमती सरिता सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 27 से 31 जनवरी 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सरिता सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सरिता सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-667-दो-2-45-2013.—श्री अनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ (ब्यावरा) को दिनांक 09 से 13 फरवरी 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ (ब्यावरा) को राजगढ़ (ब्यावरा) पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुपम श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-669-दो-2-37-2014.—श्री ओ. पी. सुनरया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 18 से 21 जनवरी 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी. सुनरया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओ. पी. सुनरया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-671-दो-2-64-2016.—श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को दिनांक 17 से 25 फरवरी

2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-687-दो-2-62-2009.—श्री मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार, जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को एडीशनल डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के पद पर पदस्थ रहते हुए, दिनांक 1 नवम्बर 2007 से 31 अक्टूबर 2009 तक, 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-6897, दिनांक 03 दिसम्बर 2009 के अंतर्गत प्रदान की गई है।

उपरोक्त अवधि का अवकाश नगदीकरण जो कि रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-849, दिनांक 07 फरवरी 2017 द्वारा जारी किया गया है, उक्त आदेश एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

क्र. C-689-दो-2-62-2009.—श्री मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार, जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी-518, दिनांक 01 फरवरी 2017 के द्वारा डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के पद पर पदस्थ रहते हुए, दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक, 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। चूंकि श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय दिनांक 31 अक्टूबर 2013 की स्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास के पद पर पदस्थ रहे हैं, इसलिये उक्त अवधि के अवकाश का नगद भुगतान कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास से होना है। अतः रजिस्ट्री का उपरोक्त आदेश एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

क्र. C-691-दो-2-62-2009.—श्री मनोहर ममतानी, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक, 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 15 फरवरी 2017

क्र. B-1075-दो-2-6-2016.—श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 15 से 18 फरवरी 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-1077-दो-3-420-80-भाग बारह.—श्री राजीव कृष्ण जोशी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2015 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश 152 दिवस (एक सौ बावन दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

#### गणना-पत्रक

1. श्री राजीव कृष्ण जोशी, : 03-01-1986  
सेवानिवृत्त (जिला एवं  
सत्र न्यायाधीश, कटनी  
का नियुक्ति दिनांक)
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-06-2015
3. नियुक्ति दिनांक 03-01-1986 : 01 वर्ष 02 माह  
से दिनांक 09-03-1987 तक  
कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-03-1987 से : 28 वर्ष, 03 माह,  
सेवानिवृत्ति दिनांक तक  
कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3) में अंकित :  $1 \times 15 = 15$  दिन  
अवधि हेतु समर्पण  
अवकाश की पात्रता  
(एक वर्ष में 15 दिन  
की दर से).

6. कालम (4) में अंकित :  $28 = 14 \times 15 = 210$  दिन  
अवधि हेतु समर्पण  
अवकाश की पात्रता  
(एक वर्ष में 7 दिन की दर से  
तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
7. कुल अर्जित अवकाश : 225 दिन  
समर्पण की पात्रता.
8. घटाइये:—सेवा के दौरान : 30 दिन  
लिया गया अवकाश  
समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 195 दिन  
अवकाश समर्पण की पात्रता.

**नोट.**—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

क्र. E-1376-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 27 जनवरी से 03 फरवरी 2017 तक आठ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 04 फरवरी 2017 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-1378-दो-2-50-2010.—श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रत्लाम को दिनांक 27 जनवरी से दिनांक 04 फरवरी 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5-02-2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रत्लाम को रत्लाम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री योगेश कुमार सोनगरिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-1380-दो-2-37-2014.—श्री ओम प्रकाश सुनरया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 03 से 04 जनवरी 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री ओम प्रकाश सुनरया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओम प्रकाश सुनरया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

### जबलपुर, दिनांक 16 फरवरी 2017

क्र. B-1085-दो-3-420/80-भाग-बारह.—श्री वृन्दावन लाल झा, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय, इंदौर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2017 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 240 दिवस (दो सौ चालीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012 / नियम / चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

### गणना-पत्रक

1. श्री वृन्दावन लाल झा, : 15-02-1977  
सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश  
(जिला एवं सत्र न्यायाधीश),  
कुटुंब न्यायालय, इंदौर का  
नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-01-2017
3. नियुक्ति दिनांक 15-02-1977 : 10 वर्ष 00 माह  
से दिनांक 09-03-87 तक 24 दिन。  
कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-03-1987 से : 29 वर्ष, 10 माह,  
सेवानिवृत्ति दिनांक तक 21 दिन。  
कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3) में अंकित :  $10 \times 15 = 150$  दिन  
अवधि हेतु समर्पण  
अवकाश की पात्रता  
(एक वर्ष में 15 दिन  
की दर से).

6. कालम (4) में अंकित :  $29 = 14 \times 15 = 210$  दिन  
अवधि हेतु समर्पण :  $1 \times 7 = 7$  दिन  
अवकाश की पात्रता  
(एक वर्ष में 7 दिन की दर से  
तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
7. कुल अर्जित अवकाश : 367 दिन  
समर्पण की पात्रता.
8. घटाइये:—सेवा के दौरान : 112 दिन  
लिया गया अवकाश  
समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 255 दिन  
अवकाश समर्पण की पात्रता.

**नोट।**—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

क्र. B-1087-दो-2-22-2013.—श्री एच. एन. बाजपेयी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 27 से 29 दिसम्बर 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 2016 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एच. एन. बाजपेयी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. एन. बाजपेयी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-1408-दो-2-31-2014.—श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को दिनांक 11 से 13 जनवरी 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 20 फरवरी 2017

क्र. B-1151-दो-2-28-2016.—श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 16 से 25 जनवरी 2017 तक दस दिन का अर्द्धवेतन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्द्धवेतन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-1153-दो-3-420/80-भाग-बारह.—श्रीमती दुर्गा डाबर, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 सितम्बर 2016 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 225 दिवस (दो सौ पच्चीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

#### गणना-पत्रक

1. श्रीमती दुर्गा डाबर, : 07-04-1983  
सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश  
(जिला एवं सत्र न्यायाधीश),  
कुटुंब न्यायालय, मंदसौर का  
नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-09-2016
3. नियुक्ति दिनांक 07-04-1983 : 03 वर्ष 11 माह  
से दिनांक 09-03-87 तक  
कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-03-1987 से : 29 वर्ष, 06 माह,  
सेवानिवृत्ति दिनांक तक  
कुल सेवा अवधि.

5. कालम (3) में अंकित :  $3 \times 15 = 45$  दिन  
अवधि हेतु समर्पण  
अवकाश की पात्रता  
(एक वर्ष में 15 दिन  
की दर से).
6. कालम (4) में अंकित :  $30 = 15 \times 2 = 225$  दिन  
अवधि हेतु समर्पण  
अवकाश की पात्रता  
(एक वर्ष में 7 दिन की दर से  
तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
7. कुल अर्जित अवकाश : 270 दिन  
समर्पण की पात्रता.
8. घटाइये—सेवा के दौरान : 45 दिन  
लिया गया अवकाश  
समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 225 दिन  
अवकाश समर्पण की पात्रता.

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

क्र. E-1481-दो-2-67-2016.—श्रीमती सुरभि मिश्रा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 22 नवम्बर 2014 से 21 नवम्बर 2016 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-1083-दो-3-420/80-भाग-बारह.—श्री एच.एन. बाजपेयी, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2017 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 196 दिवस (एक सौ छियानबे दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल

के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार

### गणना-पत्रक

1. श्री एच.एन. बाजपेयी,	:	29-10-1985
सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा की नियुक्ति दिनांक.		
2. सेवानिवृत्ति दिनांक	:	31-01-2017
3. नियुक्ति दिनांक 29-10-1985 से दिनांक 09-03-87 तक कुल सेवा अवधि.	:	01 वर्ष 04 माह 10 दिन.
4. दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.	:	29 वर्ष, 10 माह, 21 दिन.
5. कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	1×15=15 दिन

6. कालम (4) में अंकित :  $30=15\times 2=225$  दिन  
अवधि हेतु समर्पण  
अवकाश की पात्रता  
(एक वर्ष में 7 दिन की दर से  
तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).

7. कुल अर्जित अवकाश : 240 दिन  
समर्पण की पात्रता.
8. घटाईये:—सेवा के दौरान : 44 दिन  
लिया गया अवकाश  
समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 196 दिन  
अवकाश समर्पण की पात्रता.

**नोट।**—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

जबलपुर, दिनांक 06 फरवरी, 2017

क्र. 222-गोपनीय-2017-दो-3-250-57 (भाग-35).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अध्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 28 जनवरी 2017 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परीक्षाका अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

### सारणी

क्र.	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त <sup>(4)</sup> न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सुश्री सुनीता रावत (मेरिट क्रमांक 84).	भोपाल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, भोपाल के न्यायालय के अष्टम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रीनी जज).
2.	श्री नरेश सिंह गोड़ (मेरिट क्रमांक 93).	जबलपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, जबलपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रीनी जज).

जबलपुर, दिनांक 08 फरवरी, 2017

क्र. 239-गोपनीय-2017-दो-3-250-57 (भाग-35).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च

न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अधिकारियों को, जिहें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3(बी)3-2015-इकीस-ब(एक), दिनांक 16 दिसम्बर 2016 एवं 6 जनवरी 2017 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

### सारणी

क्र.	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त <sup>1</sup> न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री राजीव पटेल (मेरिट क्रमांक 34).	गुना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गुना के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
2.	सुश्री वर्षा भलावी (मेरिट क्रमांक 92).	इंदौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, इंदौर के न्यायालय के सप्तम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

जबलपुर, दिनांक 10 फरवरी, 2017

क्र. 270-गोपनीय-2017-II-2-36/61.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 9 (घ) के अंतर्गत निम्नलिखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उच्चतर न्यायिक सेवा में स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी करता है कि उन्हें स्थायी कर दिया गया होता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका है और जैसे ही कोई पद उपलब्ध होता है, उन्हें स्थायी कर दिया जावेगा:—

क्रमांक	उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)
1	श्री उमेश चंद्र मिश्र	बैड़न (सिंगरौली)
2	श्री मोहम्मद शकील खान	भिण्ड
3	डॉ. रमेश साहू	रायसेन
4	श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह	भोपाल
5	श्री इकबाल खान गौरी	जावरा (रत्लाम)
6	श्री कैलाश चन्द्र यादव	सुसनेर (शाजापुर)
7	श्री मनोज कुमार तिवारी (सीनियर)	सीधी
8	श्रीमती मनीषा बसेर	बागली (देवास)
9	श्री चंद्रमोहन उपाध्याय	मऊगंज (रीवा)
10	श्री मोहम्मद अजहर	गवालियर
11	श्री वैभव मंडलोई	अम्बाह (मुरैना)
12	श्री शिवकांत	मुरैना
13	श्री दिनेश प्रसाद मिश्रा	भोपाल
14	श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह	भोपाल
15	कु. सुमन श्रीवास्तव	बैतूल
16	श्री अनूप कुमार त्रिपाठी	करैरा (शिवपुरी)
17	श्री हेमन्त जोशी	महू (इंदौर)
18	श्री पदमेश शाह	इंदौर
19	श्रीमती वंदना जैन	विदिशा
20	श्री शरद भामकर	कोतमा (अनूपपुर)

(1)	(2)	(3)
21	श्री राजीव के. पाल	जबलपुर
22	श्री अविनाश चन्द्र तिवारी	भोपाल
23	श्री रामब्रेश (यादव)	भोपाल
24	श्री कमर इकबाल खान	शिवपुरी
25	श्री अजय कुमार सिंह	बड़वानी
26	श्रीमती सविता सिंह	बड़वाहा (मण्डलेश्वर)
27	श्रीमती मेरी मारग्रेट फ्रांसिस डेविड	खरगौन (मण्डलेश्वर)

**टिप्पणी।**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 12(1) (f) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा उक्त आदेश की सारणी के सरल क्रमांक 1 से 6 में दर्शित न्यायिक अधिकारियों को, यह भी सूचित करता है कि उनकी उच्च न्यायिक सेवा की वरीष्ठता सूची में वरीयता यथावत रखी गयी है।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 20 फरवरी, 2017

क्र. E-1476-दो-2-32-2011.—श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव, प्रिसिंपल रजिस्ट्रार (परीक्षा एवं आई.एल.आर.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 30 जनवरी से 7 फरवरी 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करके नौ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव, प्रिसिंपल रजिस्ट्रार (परीक्षा एवं आई.एल.आर.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिसिंपल रजिस्ट्रार (परीक्षा एवं आई.एल.आर.), के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.